

॥ श्री ॥

श्रीसुवनेश्वरीविजयतेतराम् ।

पत्रीमार्गप्रदीपिका

वर्षदीपकं च ।

द्वैतव्यं श्रीमन्महादेवशर्मविरचिते,

तदात्मज-

रतनलाल (रतलाल) नगरनिवासीपाठकोपाह्वौदुम्बर-

ज्यो० श्रीनिवासशर्मकृत,

भाषाटीकासहिते ।



त एते

श्रीकृष्णदासात्मजेन खेमराजेन

सुम्बय्यां

स्वकीये "श्रीविद्भूटेश्वर" मुद्रालयेऽङ्कयित्वा

प्रकाश्य मीले ।

वैशाख संम्वत् १९६० शके १८२५

सर्वाधिकार "श्रीविद्भूटेश्वर" प्रेसापक्षे स्वार्थीन रक्ता है ।

भूमिका.



पाठकमहाशयो । जिस सर्वमान्य वेदचक्षु ज्योतिषशास्त्रके द्वारा मनुष्योंका भूत, भविष्य, वर्तमान, शुभाशुभ फलज्ञान, जन्मपत्रद्वारा होता है, उसी जन्मपत्रके गणितके माचीन तथा अर्वाचीन अनेक ग्रथ प्रस्तुत हैं परन्तु विशेष परिश्रम व परिज्ञान होनेके अतिरिक्त उनग्रथोंसे सर्व साधारण तथा विशेषकर बालकोंसे भलीभाँति सुगमतापूर्वक गणित नहीं होसकता, यही सोचकर मेरे परमपूज्यपाद पितानी श्रीश्री६श्रीदेवज्ञवर्य्य श्रीमहादेवजी महाराजने अनेक प्राचीन ग्रथोंका सारांश लेके थोड़ेही परिश्रमसे मजीभाँति जन्मपत्रका गणित बनानेके योग्य होनाय ऐसा यह "पत्रीमार्गप्रदीपिका" नामक छोटासा ग्रंथ निर्माणकर अपने द्रव्यसे मुद्रित करारकर बिनामूल्य विद्वज्जनोंकी सेवामें समर्पण किया था, किन्तु ईश्वरकी कृपासे थोड़ेही दिनोंमें इसका इतना आदर जनसमुदायमें हुआ कि कई यन्त्राधीन उपयोगी समझ आपनेके लिये आग्रह करने लगे, परन्तु मेरे पूज्यपाद पितानीने श्रीमान् खेमराजजी सेठसे अधिक स्नेह होनेके कारण उन्हींको आपनेका सत्व दिया जिसकी आजतक कई आवृत्तिये छप चुकी है सो पाठकोंको विदितही है. इसग्रथकी भाषाटीका करने वादत मेरे कई मित्रोंका कितनेही दिनोंसे इसप्रकारका आग्रह था कि यदि ऐसे उपयोगी ग्रथकी पूर्णरीतिसे भाषाटीका बनाई जाकर इसमें अन्यान्य आवश्यक विषयोंका समावेश भी कियाजाय तो यह ग्रथ बालकोंको विशेष उपयोगी होगा ऐसी २ कई प्रकारकी उत्तम उत्तेजनाओंसे उत्तेजित हो आज मैं (अल्पज्ञ) इसकी सरल हिन्दीभाषाटीका तथा उदाहरण तथा आवश्यक २ स्थानोंकी टिप्पणी और भी जो २ उपयोगी विशेष कोष्ठकोंकी इसमें आवश्यकता अवश्य थी, उनकाभी समावेश करके, आपलोगोंके दृष्टिगोचर करानेको उद्यत हुआ हू । सो इसमें कहीं दृष्टिदोषसे वा लेखप्रमादसे किसीप्रकारकी त्रुटि रही हो तो विद्वज्जन कृपादृष्टिसे सुधारके अशुद्धियोंमें हास्य न करते शुद्धार्यसे सतुष्ट हो मेरे परिश्रमके सफल करोगे यही सविनय निवेदन है ।

इस ग्रंथका समग्र अधिकार मैं प्रसन्नतापूर्वक श्रीमान्मान्यवर सेठ श्रीकृष्णदासात्मज खेमराजजी "श्रीविद्भुटेश्वर" स्टीम् प्रेसालयको देता हू कि जिन्होंने इस ग्रंथको परमसत्प्रतासे सुन्दर आपनेका आग्रह दिताके मेरा उत्साह बढ़ानेकी उदारता दिखाई इसका मैं उन्हें धन्यवाद देता हू ।

भवदीय—

ज्यौ० श्रीनिवास महादेवजी शर्मा—

रतलाम.

विशेषसूचना.

हमारे यहां निम्नलिखित ग्रंथोंके अनुवाद तथा नवीन ग्रंथ तयार हो रहे हैं सो समय २ पर मुद्रित होनेपर आपलोगोंके दृष्टिगोचर कराये जायेंगे.

(निनका अनुवाद हो रहा है उन ग्रंथोंके नाम) जातकतत्त्व । (ज्योतिषफलित)

इसकी विशेष प्रशंसा करना ही क्या है यह ग्रंथ समस्त फलित ग्रंथोंका सार ले-सुआत्मक बना हुआ है इस ग्रंथकी हजारों मतिपें कई आशुत्तमें फार्सीमें छप चुकी हैं यह फलितका अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है इसग्रंथकी सरल भाषाटीका तयार हो चुकी है—

ताजक सुधानिधी—(ज्योतिषताजक)

यह नारायणभट्टकृत माचीन परमोपयोगी ताजिक ग्रंथ है इसमें दलील्यह, भावोंकी पंच-वर्ग आदि अनेक नवीन विषय हैं ताजक फलका चमत्कारी ग्रंथ है इसकी भाषाटीका हो रही है.

विजयाकल्प—(वैद्यशास्त्र)

यह विनयानुरागियोंके तथा वैद्योंके परमोपयोगी है इसमें विजया (भंग) की उत्पत्ति तथा गुण और मत्स्यक रोगोंमें सेवनकी रीति तथा विजयाकल्पके सिद्ध करनेकी मंत्रसहित विधि भलीभाँति वर्णन की गई है इसकी भाषाटीका तयार है.

भैरवउड्डीस—(तंत्रशास्त्र)

यह साक्षात् भैरवकृत उड्डीस है इसमें अनेक प्रकारके सिद्ध मंत्र तंत्र विधि विधानसहित ऐसे चमत्कारिक हैं कि निनके द्वारा साधक भलीभाँति अपना अभीष्टकार्य साधन करसके इसकी भी भाषाटीका तयार हो रही है थोड़ीही बाकी रही है

मुक्तात्मामिलापविधि भाषा—

इसमें मुक्तात्मासे मिलापकरनेकी तथा उनसे बातचीत करनेका शास्त्रोक्तप्रमाणसे भंत्र तंत्र सहित विधिविधान विस्तारपूर्वक लिखा है और चक्रकी विधि चक्रके नियम दृष्ट मुक्तात्मा-चक्रमें नहीं आसके उसका सरल उपाय तथा मुक्तात्मामिलापसे हानि लाभ भी भलीभाँति इसमें सरल भाषामें लिखा है जिसके द्वारा ध्वनिसे स्वतः सहजमें अनुभव करसके ।

सर्वतो भद्र चक्रापलोकविधि.

संस्कृत, हिन्दी, मराठी-गुजराती भाषाटीकासमेत । ज्योतिष—

समस्तदेश और प्राणिमात्रका शुभाशुभ और रसधान्य फलशुष्पादि समस्त वस्तुमानका समर्थ महर्षि (तेजीमदी) ज्ञाननेका परमोपयोगी उपरोक्त सर्वतोभद्रचक्रके देखनेकी रीति विस्तारपूर्वक रूप इसमें उपरोक्त चार भाषामें लिख रहे हैं जिसके द्वारा हरएक भाषा जाननेवाला प्रत्येक वस्तुकी तेजीमदी सहजमें जानसके ।

नवीन ग्रंथ तयार है क्या हो रहे हैं उनके नाम—दशाफलद्वर्णन— (ज्योतिष)

यह ग्रंथ समस्त फलितग्रंथोंमेंसे संग्रह करके दशाफल देखनेका एक परमोपयोगी अनुदा बन रहा है इसकी श्लोकसंख्या कमसेकम १०००० दशाहजार दश १० भागमें विभक्त होगी जिसमें १-प्रथमविभागमें दशापयोगन ४२ बेयालीस प्रकारकी दशाका भेद और उनके साधनकरणकी, उदाहरणसहित रीति और उन दशाओंके चक्र तथा उनमेंसे कौनसी दशा मुख्य है उसका निर्णय कहकर आगे संपूर्णदि अनेक प्रकारकी दशाफलके भेद विस्तारपूर्वक तथा दशाफल बोधक ग्रह और शुभाशुभ मध्यदशा निष्पत्तपूर्वक उच्चनीच मूलत्रिकोण स्वक्षेत्र अतिमित्र मित्रादि पाचो भेदसहित अस्त उदित वक्रमार्ग गतिस्थ फलसमेत दिग्बल स्वतंत्रता बलसेपत राहुशुक्रादि विशेष २

दशाफलका सूक्ष्म विचार । तथा देहसुख धन भातृमातृ ग्रह ग्राममित्र बाहन विद्या बुद्धि पुत्र रोग शत्रु भायो, मरण निषिद्धाभ भाग्यवृद्धि तीर्थयात्रा राज्यलाभ पदशान्ति पितृसुख घनादि लाभ व्ययादि वाराहि भावननित फल किस २ दशमें होगा और किस २ दशमें उपरोक्त बातोंकी हानि होगी उसका विस्तारपूर्वक दशाके ऊपरही फल निश्चय विचार और भी विशेष मिश्रविचार तथा दशामवेश, लग्नसे दशाफलका सूक्ष्मविचार दशाबाहन फल तथा जाग्रतादि, बालादि, दासादि, गर्वितादि, शयनादि, अवस्थागत ग्रहोंका विशेषरूपसे दशाफल विचार है ।

२-दूसरे विभागमें सूर्यादि नवही ग्रहोंकी विशोत्तरी महादशाका पृथक् २ महादशाफल विस्तारपूर्वक ऐसी युक्तिसे संग्रह किये हैं कि जिसके द्वारा एक २ ग्रहकी दशाके फलका विचार कमसेकम १०० सौ सौ श्लोकोंसे निश्चय करसके।

३-तीसरे विभागमें अंतर्दशासंबंधि समस्त सामान्य और सूक्ष्मफल विस्तारपूर्वक पृथक् २ ग्रहोंका ऐसा लिखा है कि समस्त अंतर्दशाका सूक्ष्मफल विस्तृतरूपसे विचार अनायास होसके ।

४-५-६-चौथे पांचवे छठें विभागमें क्रमसे उपदशा सूक्ष्मदशा माणदशाओंका विस्तारपूर्वक निःशेष फलविचार लिखा है ।

७-सातवेंमें अष्टोत्तरीकी पांचही मकारकी दशाका विस्तारपूर्वक फलविचार ।

८-आठमें विभागमें योगिनीदशाके दशांतर्दशादिकका समस्त फलविचार ।

९-नवमें विभागमें चर स्थिर रुद्र शुल वर्णदादि वैमिन्युक्त समस्तदशाओंका सूक्ष्मविचार अंतर्दशादि फलविचारोंसहित है ।

१०-दशम विभागमें उक्तदशाओंके अतिरिक्त शेष समस्त दशाओंका फलविचार और उपसंहार है इसप्रकार यह ग्रंथ दस विभागोंमें समाप्त होनेमें आया है ।

वर्षपद्धति ।

यह वर्षफल लिखनेकी अपूर्व पुस्तक है इसमें हायनरत्न, हिल्लान, तानिक भूषण, तानिक सुधानिधा, कौस्तुभ, नीलकंठी आदि अनेक तानिक ग्रंथोंसे वर्षका फल संग्रह ऐसी युक्तिसे किया है कि सिर्फ यह एकही पुस्तक जिसके पास होवे तो तानिक संबंधी दूसरे ग्रंथकी अपेक्षा नहीं रहे और समतकारिक फल इसके द्वारा कहके फलितको नहीं माननेवाले नास्तिकोंको आस्तिक बनानेमें कुशल होजावे । (अपने योग्य तयार है)

आशुबोध ज्योतिष ।

यह ग्रंथ ज्योतिषशास्त्रको पढ़ना शुक्करनेवाले बालकोंके लिये एक उपयोगी मधम पुस्तक है इसको पढ़नेसे ज्योतिषका मार्ग भलीभाँति समझ सके हैं. यह भी अपने योग्य तयार है)

लघुपूजा अनुष्ठानपद्धति (कर्मकाण्ड)

यह पूजनविधि और अनुष्ठानादि अनेक कार्योंके लिये अद्वितीय पुस्तक है । इसमें टिप्पणी भी मत्पेक विषयपर है ।

दशांगदुर्गा (समशान्ति) मन्त्रशास्त्र ।

इसमें दुर्गाके दशअंग बड़े मयलासे संग्रह करे ऐसी दुर्गा जानतक फहीं नहीं छपी है मंत्र-नेत्राके उपयोगी है (अपने योग्य से भी तयार होसुकी है)


इनके सिवाय और भी कईएक ग्रंथोंका अनुवाद होरहा है ।

ज्यो०श्रीनिवासशर्मा,

ज्योतिषकार्यालय-रतलाम,

अथ पत्रीमार्गप्रदीपिका ।

सोदाहरणा भाषाटीकासहिता प्रारभ्यते ।

——
अथ मंगलाचरण.

नत्वा श्रीशिवशरदागणपतिब्रह्मार्कमुख्यग्रहान्
पत्रीमार्गप्रदीपिकां स्फुटतरां कुर्वे महादेववित् ॥
यत्पक्षे हि घटंति शुद्धसचराः कार्यास्तु तत्पक्षकाः
स्वव्यक्षोदययोः स्वरागविहृतौ प्राप्ताः पलादिध्रुवाः ॥ १ ॥

भाषाटीकाप्रारंभः ।

नत्वा श्रीगुरुपङ्कजं गजमुखं साम्बं शिवं श्रीधरं
पत्रीमार्गप्रदीपिकाख्यविवृतिं कुर्वे सतां प्रीतये ॥
पाराशर्यकुलाभिजातगणकोऽहं श्रीनिवासाभिधो
विद्वन्मण्डितरत्नपूर्वसतिकृच्छ्रीपाठकोपाह्वयः ॥ १ ॥

भाषाकार विद्वन्मण्डितरत्नपूर्वसतिकृच्छ्रीपाठकोपाह्वयः मयें-
जन तथा अपना गोत्र और निवासस्थान कहता है—

श्री (शोभापुत्र) निजगुरु (महादेवजी) के चरणरुमल और गजमुख (गणपति) पार्वती-
सहित शङ्कर और लक्ष्मीसहित विष्णुभगवानको नमस्कार करके पाराशर्यकुलमें उत्पन्न हुआ
(पाराशर्यगोत्र) पाठक बैसे अपना नामसे मण्डितरत्नविद्वन्मण्डितरत्नको मुशोभित रत्नपुर (रतलमशहर)
में निवास करनेवाला मैं श्रीनिवासगणक (ज्योतिर्विद) सबनौके मद्यमहोत्सवके अर्थ पत्रीमार्ग
प्रदीपिका ग्रन्थकी भाषाटीका करता हूँ ॥ १ ॥

भाषाटीका—निर्विघ्नतासे ग्रंथ समाप्त होनेके अर्थ ग्रंथकर्ता प्रथम गुरु
गणेशादिदेवोंको नमस्काररूप मंगलाचरण शांङ्खलविक्रीडितवृत्तके पूर्वार्द्धसे करके
ग्रन्थारम्भ करते हैं—

श्रीशिवजीको सरस्वतीजीको गणपतीजीको ब्रह्माजी और सूर्यको आदिदे
नवग्रहोंको नमस्कार करके महादेव ज्योतिर्विद अर्थात् सरल पत्रीमार्गप्रदीपिका
(जन्मपत्रीके मार्गकी प्रकाशकरनेकी प्रदीपिका) नाम ग्रन्थ करे है आर्य-
महासौरादिपक्षोंमेंसे अपने देशमें जिस पक्षके स्पष्टग्रह वेधकरनेमें दृक्नुत्पन्न होनेहों
वे उसी पक्षके स्पष्टग्रह करना स्वदेशोदय और अस्त्योदयोंके ३० तीसका भाग

१ गणेशदेवता ॥ "लज्जोदया विपटिवा गन्तव्यं गच्छेत्प्राग्विपक्षद्वेना कमगोत्रमन्त्रः ॥
हीनान्विताहरद्वैः कमगोत्रमन्त्रैर्मेपादितो यत्नवत्पन्न तस्त्वे म्यु" ॥ १ ॥

देना लब्धआये वह पलादिक ध्रुव जानना (स्वदेशोदयके ३० तीसका भाग देनेसे स्वदेशोदयका पलादि ध्रुव और लंकोदयके ३० भाग देनेसे लंकोदयका पलादि ध्रुव होवे)

उदाहरण ।

रतलामशहरके मेपराशीके स्वदेशो-
दयपल २२७ के ३० तीसका भाग
दिया लब्ध ७।३४ आया यह मेप राशी
का स्वदेशोदयका पलादि ध्रुव हुआ

लंकोदय		रतलामक पलादि	रतपुरस्वदेशोदयका	
मे	२७८	मी	५१	म
द	२९५	दु	४१	द
मि	३२३	म	३७	मि
क	३३३	घ	३७	क
ति	३९९	वृ	४१	ति
क	२७८	वृ	५१	क

इसीप्रकार मेपराशीके लंकोदय पल २७८ के ३० तीसका भाग दिया लब्ध
९।३६ आये ये मेपराशीका लंकोदयका पलादिक ध्रुव हुआ इसीतरह स्वदेशो-
दय और लंकोदयकी बागहही राशियोंके पलादिक ध्रुव जानना ॥ १ ॥

मे०	द	मि	क	ति	क	द	द	घ	म	क	मी	
७	८	१०	१३	१६	१०	१०	१३	१६	१०	८	७	स्वदेशोदय पलादिध्रुव
३४	३९	४३	४७	५०	५८	५८	६०	६३	६६	६६	३४	
९	९	१०	१०	९	९	९	९	१०	१०	९	९	रतलाम पलादिध्रुव
३६	५८	४६	४६	५८	१६	१६	५८	४६	४	५८	१६	

अथ लग्नदशमपत्रसाधनमाह ।

स्थापयेत्सं क्रियारभे ततः स्वध्रुवकान्वितम् ॥

निरायनं भवेत्पत्रं लग्नस्य दशमस्य च ॥ २ ॥

भाषाटीका—अत्र लग्नपत्र दशमपत्र बनानेकी रीति कहते हैं. मेपराशीके आरंभमें (मेपराशीके० शून्य अंशके नीचे) तीन शून्य लिखना नंतर स्वदेशोदय और लंकोदयकी मेप, वृषभ, मिथुन, कर्क आदिक राशियोंके पलादिक ध्रुव क्रमसे युक्त करना सो निरायनलग्नपत्र दशमपत्र होवे (स्वदेशोदयकी मेपादिक राशियोंके पलादिक ध्रुवयुक्त करनेसे लग्नपत्र और लंकोदयकी मेपादिक राशियोंके पलादिक ध्रुवयुक्त करनेसे दशमपत्र होताहै) ॥ २ ॥

उदाहरण ।

नीचे लिखेहुये चक्रमें मेपराशीके आरंभमें तीन शून्य लिखके रतनपुर (रत-

भापाटीका—अब लग्न दशमसाधन कहते हैं, जिसमें प्रथम दशमका इष्ट साधन कहते हैं ॥ सूर्योदयात्—घट्यादिक इष्टमेंसे दिग्दर्श हीन करना (निकालना) शेष बचे वह दशमभावका इष्ट होवे । दशमभाव और लग्नमें छः राशी युक्त करनेसे सुखभाव और सप्तमभाव होते हैं (दशमभावमें छः राशी युक्त करनेसे चतुर्थभाव और लग्नमें छः राशि युक्त करनेसे सप्तमभाव होवे) ॥ ३ ॥

भांशजौ सायनार्कस्य खाङ्गाकौ स्वेष्टयुक्तौ ॥

कलाद्यास्तद्भुवघ्नाः रयुर्विपलाद्यास्तु संयुताः ॥४॥

तदल्पकोष्टजौ भांशौ ग्राह्यौ लिप्तादिकावियत् ॥

अल्पेष्टविवरात्पार्श्वान्तरात्तांशादिसंयुतौ ॥ ५ ॥

अयनांशादिवियुतालग्नं मध्यं स्फुटं भवेत्

भापाटीका—सायन सूर्यकी राशी अंशके समान दशमपत्र और लग्नपत्रके कोष्टकमें अपना अपना घट्यादिक इष्ट युक्त करना (दशमपत्रके कोष्टकमें दशमका इष्ट, लग्नपत्रके कोष्टकमें जन्मसमयका इष्ट मिलाया) तदनंतर सूर्यकी कलाविकलाको सायन सूर्यकी राशीके ध्रुवसे गुणन करना गुणन करके आयेहुए अंशको इष्टयुक्त किये हुए कोष्टककी विपलमें युक्त करना ॥ ४ ॥ उस इष्ट युक्तकिये हुए कोष्टकसे अल्प (न्यून) कोष्टक जिस राशीअंशमें होवे—यो राशीअंश लेना उसके नीचे कलाविकला शून्यशून्य लिखना तदनंतर इष्टयुक्त कोष्टक और अल्पकोष्टकका अंतर करना शेष अंतरमें अल्पकोष्टक और उसके आगेके (ऐष्य) कोष्टकके अंतरका भाग देना लब्ध आवे वह अंश जानना शेषबचे उनको ६० साठगुणा करना फिर अंतरका भाग देना लब्ध कला आवे फिर शेषको ६० साठगुणा करके अंतरका भाग देना लब्ध विकला आवे ऐसे आये हुए अंशादि ३ तीन फलोंको इष्टयुक्त कोष्टकसे अल्पकोष्टकके आयेहुए राशी अंशादिकमें युक्त करना ॥ ५ ॥ अयनांश हीन करना तो लग्न और दशमभाव स्पष्ट होवे ॥

उदाहरण ।

श्रीगणेशाय नमः ॥ स्वस्ति श्रीसंवत् १९२८ शके १७९३ प्रवर्तमाने
ध्रमात् माघशुक्लपौर्णिमांत फाल्गुन शुक्ल ३ तृतीयायां भौमवासरे घ. २५।४९

१ शकनेचे ४२४ चारघे गुम्गाडीस हीन करनेचे अयनांश होते है । अयनांशोंको स्पष्टसूर्यमें मिळानेसे सायन सूर्य होता है ।

परं ४ चतुर्थ्या हस्तगक्षत्रे घ. २९।९ परं चित्रानक्षत्रे गण्डयोगे. घ. ४४।५
वालवकरणे एवं पञ्चाङ्गशुद्धावत्र दिक्षे. श्रीमन्मार्तण्डमण्डलाद्धौदयादिष्ट-
घटी ५६ पल ४८ विपल. १८ स्पष्टार्क १०।१६।५३।३९ लग्न. २।२३
समये ज्यो० श्रीनिवासशर्मणो जन्मसमयः दिनमान २८।५० अयनांशाः २२।२९।०

अथ जन्माङ्कम्.									
३	१	३	५	७	९	११	१३	१५	१७
१९	२१	२३	२५	२७	२९	३१	३३	३५	३७
३९	४१	४३	४५	४७	४९	५१	५३	५५	५७
५९	६१	६३	६५	६७	६९	७१	७३	७५	७७

रतलाममें तथा रतलामके समीपके ग्रामोंमें सौर
पक्षके स्पष्टग्रह ग्रहवेधसे दृक्तुल्य मिलते हैं इसवास्ते
सौरपक्षके स्पष्टग्रह ग्रहलाघवाख्य करणग्रंथसे किये
ग्रंथगताब्दाः ३५.१ चक्र ३१ अधिकमास ६ मा-
सगण १३६ ऊनाह ६४ अहर्गण ४०३९

इष्टमापन्नाः शेषाः										अथ सप्तः शेषाः									
सू.	घ.	घ.	रा.	मं.	पु.	सु.	दु.	घ.	कं.	सू.	घ.	मं.	पु.	सु.	दु.	घ.	रा.	कं.	
१०	६	२	३	११	३१	२	९	८	३०	५	१३	१०	३	९	८	१	४	४	
१५	३	२९	२५	१२	२३	२	६	२३	३६	२९	६	१०	०	१२	२४	२४	२५	२५	
३	५९	८	४०	३९	३१	४०	४	४४	५३	१५	४४	४३	२६	४८	४०	४०	४०	४०	
२१	४३	४०	३१	४८	९	१	४२	४६	३९	४९	५४	१८	१	८	२३	३१	३१	३१	
५५	४४८	६	३	२९	१४६	४	३५	१	६०	८०५	४८	१०८	२५	४४	५	३५	३५	३५	
५८	३३	१९	०	४४	०४	४४	१	५३	१९	१४	२६	४४	२६	८	२०	११	११	११	

लग्नसाधनका उदाहरण ।

स्पष्टसूर्य १०।१६।५३।३९ में अयनांश २२।२९।० युक्तकिया ११।
१।२२।३९ ये सायनसूर्य हुआ इसकी राशी ११ अंश ९ के समान लग्नपत्रका
कोष्टक ५७।२१।६ में जन्मसमयका घट्यादिक इष्ट ५६।४८।१८ युक्तकिया
५४।९।२४ हुए इसकी विपलके २४ अंकमें मूर्यकी कलाविकला २२।३९
को सायनसूर्यकी ११ राशीके ध्रुव ७।३४ से गुणन करके आये हुए १७१
अंक युक्तकिये ५४।९।१९५ हुए विपल ६० साठसे अधिक हैं इसलिये
साठका भाग दिया लब्ध ३ आये ये ऊपरकी पलके अंक ९ में युक्तकिये ५४।
१२।१५ये इष्टकोष्टक हुआ ॥ इससे अल्पकोष्टकलग्नपत्रमें ५४।४।० दश (१०) राशी
१५ अंशके कोष्टकमें मिलता है इसवास्ते १० राशी १५ अंशलिये इसके
नीचे कलाविकला ०।० शून्य शून्य लिखनेसे १०।१५।०।० हुए तदनंतर
अल्पकोष्टक ५४।४।० और इष्टयुक्त कोष्टक ५४।१२।१५ के अंतर किये
०।८।१५ शेष बचे इसमें अल्पकोष्टक ५४।४।० और इसके आगेका (ऐष्य)

कोटक ५४।१२।३६ को अंतर ०।८।३६ का भाग दिया परंतु भाज्य ८।१५ भाजक ८।३६ हैं इसलिये इनको स्वर्णित करके भाग दिया भाज्य पिंड ४९५ भाजकपिंड ५१६ हुए भाज्यपिंडमें ४९५ भाजकपिंड ५१६ का भाग दिया लब्ध ० अंश आया शेष ४९५ को ६० साठगुणा किये २९७०० हुये इनमें भाजक ५१६ का भाग दिया लब्ध ५७ कला आई शेष २८८ बचे इनको ६० साठगुणे किये १७२८० हुये इनमें भाजक ५१६ का भाग दिया लब्ध ३५ विकला आई ऐसे अंशादिक फल तीन ०।५७।३५अपि इनको १०।१५।०।० में युक्त किये १०।१५।५७।३५ हुये इसमेंसे अयनांशा २२।२९।० हीन किये शेष ९।२३।२८।३५ बचे यह स्पष्टलग्न हुआ इसमें ६ छः राशी मिलानेसे ३।२३।२८।३५ सप्तमभाव हुआ इसीप्रकार १० दशमभावका साधन किया उसका उदाहरणभी नीचे लिखा है— प्रथम दशमभावके इष्टका उदाहरण—सूर्योदयात् बट्यादिक इष्ट ५६।४८।१८दिनार्ध १४।२५।० दिनार्धको सूर्योदयात् इष्टमेंसे हीन किया शेष ४२।२३।१८ बचे ये दशमका इष्ट आया— तदनंतर साधनसूर्य ११।५।२२।३९ की राशी ३१ अंश ९ के समान दशमपञ्चा कोटक ५६।४५।२४ में दशमका इष्ट ४२।२३।१८ युक्त किया ३९।८।४२ हुये इसकी विपलके अंक ४२ में सूर्यकी कला २२ विकला ३९ को सूर्यकी राशी ११ के घुन्न ९।१६ से गुणन करके आये हुये २०९ अंकको युक्त किये ३९।८।२५१ विपलमें ६० का भाग दिया लब्ध ४ को पलके अंक ८ में मिलाये ३९।१२।११ ये इष्टयुक्त कोटक हुआ इससे अल्पकोटक ३९।७।६ राशी ७ अंश २७ के कोटकमें मिलते इसलिये ७ राशी २७ अंशलिये नीचे कला ० विकला ० शून्य लिखी ७।२७।०।० हुये—तदनंतर अल्पकोटक ३९।७।६ और इष्ट कोटक ३९।१२।११ का अंतर किया ०।५।५ शेष बचे इनमें अल्पकोटक ३९।७।६ और इसके आगेका (ऐप्य) कोटक ३९।१७।४ के अंतर ९।५८ का भाग दिया परंतु भाज्य भाजक दोनो पलादिक धंक्के हैं इसलिये भाज्य भाजकको स्वर्णित करके भाज्यपिंड ३०५ में भाजक ५९८ का भाग दिया लब्ध ० अंश आया शेष ३०५ को ६० साठ गुणा किया १८३०० हुये इनमें भाजकपिंड ५९८ का भाग दिया लब्ध ३० कला आई शेष ३६० बचे इनको ६० साठ गुणे किये २१६०० हुये इनमें भाजक

५९८ का भाग दिया लब्ध ३६ विकला आई ऐसे अंशादिक फल ०।३०।३६
 आये इनको ७।२७।०।० में मिलाये ७।२७।३०।३६ हुवे इसमेंसे
 अयनांश २२।२९।० घटाये ७।५।१।३६ शेष बचे यह दशमभाव स्पष्ट हुवा
 इसकी राशमें ६ छः राशी युक्त करनेसे १।५।१।३६ चतुर्थभाव हुवा—

अय भावसंधितच्चक्रसाधनमाह ।

लग्नं तुर्यात्सप्तगाचुर्यभावं शोध्यं राशिः पञ्चभिस्ताडितोऽज्ञाः ॥

अंशाद्याश्चेद्दिग्यताः स्युः कलाद्याः लग्ने तुर्ये पञ्चवारं प्रदद्यात् ॥ ६ ॥

तन्वाद्याः संधिसहिता भावाः पट्पड्युताः परे ॥

यदंत्यारंभयोः संध्योरन्तस्थस्तद्गतौग्रहः ॥ ७ ॥

भापाटीका—अब भावसंधि और चलितचक्रका साधन कहते हैं ॥ लग्नको चतुर्थ
 भावमेंसे चतुर्थ भावको सप्तमभावमेंसे शोधना (हीन करना) शेष राशीको ५
 पांच गुणी करना अंश होवे और जो अंश कला विकलाको दशगुणा करे सो
 कलादिक होवे ऐसे अंशादिककी लग्नमें और चतुर्थभावमें (चतुर्थभावमेंसे लग्नको
 हीन किया हो तो लग्नमें सप्तमभावमेंसे चतुर्थभाव हीन किया हो तो चतुर्थभावमें)
 पांचवार युक्त करना ॥ ६ ॥ सो लग्नको आदिले संधिसहित ६ छः भाव होवें इन
 ६ छः भावोंमें छः छः राशी युक्त करनेसे शेष छः भाव होवें ॥ जिसभावकी अंत्य
 (आगेकी) और आरंभ (पीछेकी) संधियोंके मध्यमें (बीचमें) ग्रह होवे वह
 उसी भावमें स्थित जानना ॥ अर्थात् ग्रह जिसभावमें स्थित होवे उस भावकी
 आरंभ (पीछेकी) संधीसे न्यून होवे तो गतभावमें स्थित होवे और अंत्य
 (आगेकी) संधीसे अधिक हो तो आगेके भावमें स्थित होवेगा ॥ यदि इन दोनों
 संधियोंके बीचमें होवे (आरंभसंधीसे अधिक और विरामसंधीसे न्यून होवे)
 तो उसी भावमें ग्रह स्थित जानना ॥ ७ ॥

उदाहरण ।

लग्न ९ । २३ । २८ । ३५ । को चतुर्थभाव १ । ५ । १ । ३६ मेंसे
 हीन किया शेष ३ । ११ । ३३ । १ बचे इसकी राशीके अंक ३ को ५ गुणे
 करनेसे १५ हुवे ये अंश हुवे शेष अंशादिक ११ । ३३ । १ को दशगुणे किये
 ११० । ३३० । १० । ये कलाविकला प्रतिविकलादिक हुवे परंतु ये कला-

जन्मकुंडलीमें सूर्य २ द्वितीयभावमें स्थित है द्वितीयभावकी आरंभसंधि १०।१० से सूर्य १०।१६ अधिक है और द्वितीयभावकी विराम (आगेकी) संधि ११।१४ से न्यून है इसलिये यह सूर्य अंत्य आरंभसंधीके बीचमें हुआ इससे द्वितीयभावमेंही स्थित रहा मंगल ११।६ यह तृतीयभावकी आरंभ-संधि ११।१४ से न्यून है इससे मंगल द्वितीयभावमें स्थित जानना ऐसेही गुरु ३।० है यह सप्तमभावकी आरंभसंधि ३।९ से अल्प है इसकारण ६ छठे भावमें स्थित हुआ इसीप्रकार शेष सर्व ग्रह भावोद्भव (चलित) चक्रमें जानना ॥

अथ चक्रित चक्रम् ।			
११	११	१३	१३
११	१३	१३	१३
१३	१३	१३	१३

अथ क्षय-चय-फल-विश्वानयनमाह ।

भावतुल्ये ग्रहे रूपं संधितुल्ये तु निष्फलम् ॥

भावसंध्यंतरेणात्तं खेटसंध्यंतरं च यत् ॥ ८ ॥

भावाभ्यूनाधिके खेटे फलं वृद्धिक्षयाभिधम् ॥

फलस्याभ्यंशको विश्वा यद्वा विशहतं फलम् ९ ॥

भापाटीका—अथ क्षय चय फल विश्वा आनयनकी रीति कहते हैं—भावके अंश कला विकलाके समान (बरोबर) ग्रह होवे तो पूर्णफल होता है उस ग्रहका (१।०।० फल जानना) और संधीके अंश कला विकलाके तुल्य (बरोबर) ग्रह होवे तो निष्फल होता है (उस ग्रहका ०।०।० फल जानना) न्यूनाधिक होवे तो भावसंधीके अंतरका भाग देना ग्रहसंधीके अंतरमें (ग्रह जिस भावमें स्थित होवे उस भावसे न्यून होवे तो उस भावकी आरंभसंधिसे ग्रहभावका अंतर करना और भावसे ग्रह अधिक होवे तो विराम (आगेकी) संधीके साथ ग्रहभावका अंतर करना) जो फल लब्ध आवे वह ॥ ८ ॥ भावसे यह न्यून होवे तो वृद्धि (चय) और भावसे ग्रह अधिक होवे तो क्षयसंज्ञक फल जानना फलका तृतीयारा (फलके तीनका भाग देना) विश्वा जानना अथवा आवे हुवे फलको बीस गुणा करना सो विश्वा होवे ॥ ९ ॥

उदाहरण ।

सूर्य १०।१६।५३ । ३९ यह द्वितीय भावसे न्यून है अत एव द्वितीय

१ घरणांतरः ॥ “न्यूनसंधिग्रहाद्भावाब्धेध्वो भावाल्पके सगे ॥ तदभिभाज संशोष्यो ग्रहो भावस्तथाधिके” ॥ इति ॥

भावकी आरंभसंधि १० । १० । २४ । ५ से अंतर किया ० । ६ । २९ ।
 ३४ यह ग्रहसंध्यंतर हुआ इस्में इसी आरंभसंधि १० । १० । २४ । ५ के साथ
 द्वितीयभाव १० । २७ । १९ । ३५ का अंतर किया ० । १६ । ५५ । ३०
 ये भावसंध्यंतर हुआ इसका भाग दिया-भाज्य ग्रहसंध्यंतर भाजक भावसंध्यंतर
 दोनों अंशादिक हैं इसलिये इनको सवर्णित किये भाज्यपिंड २३३७४ में
 भाजक पिंड ६०९३० का भाग दिया लब्ध ० शेष २३३७४ को ६० पाठ
 गुणे किये १४०२४४० हुवे भाग ६०९३० का दिया लब्ध २३ कला आई शेष
 १०५० बचे इनको ६० गुणे किये ६३००० हुवे इन्में फिर भाजक भावसंध्य-
 तर ६०९३० का भाग दिया लब्ध १ विकला आई ऐसे फल इतीन आये ० । २३ । १
 ये भावसे ग्रह न्यून है अतएव चयसंज्ञक सूर्यके फल हुए-इसीप्रकार चंद्रादि
 ग्रहोंके फल जानना--अथ विश्वा आनयन कहते हैं सूर्यके फल २३ । १ के ३
 तीनका भाग दिया लब्ध ७ । ४० ये विश्वा हुवे अथवा फल २३ । १ को २०
 वीसगुणा किया ४६० । २० साठ ६० का भाग दिया लब्ध ७ शेष ४० बचे ये
 विश्वा आये इसीप्रकार चंद्रादिकके विश्वा जानना.

अथ अयनकालविशेषकम्								
८.	९.	१०.	११.	१२.	१३.	१४.	१५.	१६.
०	०	०	०	०	०	०	०	०
२३	५३	५८	१	५८	८०	५८	३५	५४
१	२७	२२	११	५१	२०	२३	५५	
५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	५५	अयनय
०	१७	९	०	१६	३	१६	१३	१३
५०	५७	२७	२३	१३	६	७	१५	विश्वा
	५०	३०	४०	४०	४०	४०	०	

अथ महाणामघस्थानयनमाह व्यङ्ग्यदेशः ।

बालाद्यवस्थाः क्रमशो ग्रहाणामोजे समे तद्विपरीतमाहुः ॥

बालः कुमारोथ युवा च वृद्धो मृतोत्वानामृतुभिः क्रमेण इति ॥ १० ॥

भापाटीका--अथ ग्रहोंकी अवस्था लानेकी रीति व्यंकदेश कहते हैं ॥ ग्रहोंकी
 बालादिक अवस्था क्रमसे विपम (एकी) राशीमें छः छः अंशोंके क्रमसे बाल १

कुमार २ युवा ३ वृद्ध ४ मृत ५ कही है और सम (बेकी) राशीमें वह बालादि अवस्था विपरीतक्रमसे (मृत १ वृद्ध २ युवा ३ कुमार ४ बाल ५) कही है ॥ १० ॥

भास्व घर्षणानुक्रमम् .						
६	१२	१८	२४	३०	अष्ट	
बाल	कुमार	युवा	वृद्ध	मृत	विषम	राशी
मृत	वृद्ध	युवा	कुमार	बाल	सम	राशी

उदाहरण ।

सूर्य १०।१६।५३।३९ यह विषमराशीका है और छःछःअंश-

के क्रमसे तीसरे विभागमें है अतएव तीसरी युवा अवस्थामें हुआ इसी प्रकार शेष चन्द्रादि ग्रहकी अवस्था जानना ॥

अथ गालादरस्वाचनम्						
१	५	९	१३	१७	२१	२५
कु	ध	म	कु	यु	वृ	रा.
कु	ध	म	कु	यु	वृ	रा.

अथ दृष्टिसाधनमाह धरणीधरः ।

द्रष्टाविहीनदृश्यस्य क्रमादेकादिभे दृशः ॥

भागाद्ध तिथियुग्भागा भागाद्धौनशराब्धयः ॥ ११ ॥

भोग्यभागाद्धिनिघ्नांशाः क्रमात्पङ्कभाधिके ग्रहे ॥

दिग्भ्यः शुद्धे लवाद्ध च ज्ञेया लिप्तादिकादृशः ॥ १२ ॥

भापाटीका—अब धरणीधर दृष्टिसाधन कहते हैं, द्रष्टाग्रहको हीन करना दृश्ये ग्रहमेंसे क्रमसे एकको आदिले शेषराशीयोंकी दृष्टि जानना ॥ एकराशी शेष बचे तो राशी विना अंशोंको अर्ध (आधे) करना यदि २ दो राशी शेष रहे तो राशी विना अंशोंमें १५ पंद्र युक्त करना और तीन राशी शेष बचे तो अंशोंको अर्ध (आधे) करना और ४५ पैतालीसमेंसे शोधना ॥ ११ ॥ चार ४ राशी शेष बचे तो भोग्यांश (राशी विना अंशोंको ३० तीसमेंसे हीन करना) यदि ५ पांच राशी शेष बचे तो राशी विना अंशोंको द्विगुण करना और क्रमसे छः ६ सात ७ आठ ८ नव ९ राशी शेष बचे तो शेष राश्यादिकोंको १० दश राशीमेंसे शोधना—शेष बचे उसके अंग करके अर्ध (आधे) करना जो आधे वह कलादिक दृष्टि जाननी ॥ १२ ॥

१ यस्य दृष्ट्या दृष्टिराश्यात्ते तस्य दृष्ट्या—निस ग्रहकी दृष्टि जानना हो वह दृष्टा ।

२ य ग्रह गत्यातीयते तस्य दृश्य—निस ग्रहपर दृष्टि जाना हो वह दृश्य होता है ।

अथ भौमस्य विशेषदृष्टिमाह ।

पंचेन्दुयुक्ताः खलु सार्द्धभागा द्विभेऽगभे पष्टिकलास्तथैव ॥

भागोनपष्टिर्भवतीह दृष्टिस्त्रिभेऽद्रिभेभूमिसुतो नदृश्ये ॥ १३ ॥

भापाटीका—अब मंगलकी विशेष दृष्टि कहते हैं मंगलको हीन करे दृश्यमेंसे और यदि दो २ राशी शेष बचे तो राशी विना अंशोंको ढेढे (अंशादिकके २का भाग देके आवे वह उन्हीं अंशादिमें युक्त करना) करना और १५ पंद्र पुक्त करना कलादिक दृष्टि होवे और ६ छः राशी शेष बचे तो ६० साठकला दृष्टि जानना तैसेही यदि तीन राशी ७ सात राशी शेष बचे तो राशी विना अंशादिकोंको ६० साठमेंसे शोधना नो कलादिक भौमकी विशेष दृष्टि होवे ठक्कराशिपोंके अतिरिक्त राशी शेष बचे उसकी श्लोक ११।१२ के अनुसार दृष्टि करना ॥ १३ ॥

अथ जीवस्य विशेषदृष्टिमाह ।

जीवोनदृश्यस्य तु वेदभे स्याद्विघ्नांशकोना खलु पष्टिरेव ॥

सार्द्धांशकोना गजभे तु पष्टिस्त्रिभेऽद्रिभेऽशार्द्धयुतेषु वेदाः ॥ १४ ॥

भापाटीका—अब गुरुकी विशेष दृष्टि कहते हैं गुरुको हीन करे दृश्यमेंसे और यदि ४ चार राशी शेष बचे तो राशी विना अंशादिकोंको २ द्विगुण कर्के ६० साठमेंसे हीन करना दृष्टि होवे और ८ आठ राशी शेष बचे तो अंशोंको ढेढे (अंशोंको आधे कर्के उन्हीं अंशोंमें मिला) कर्के साठ ६० मेंसे शोधना (हीन करना) शेष बचे वह दृष्टि जानना इसीप्रकार यदि तीन ३ राशी सात ७ राशी शेष बचे तो अंशोंको अर्ध (आधे) कर्के ४५ पैंतालीस युक्त करना तो कलादिक गुरुकी विशेष दृष्टि होवे ॥ १४ ॥

अथ मंदस्य विशेषदृष्टिमाह ।

द्विनिघ्नभागाविधुभेत्तरेस्याद्विभे तु भागार्द्धविहीनपष्टिः ॥

द्विघ्नांशकोना नवभे तु पष्टिस्त्रिंशद्युतातद्गजभेऽर्कजस्य ॥ १५ ॥ इति

भापाटीका—अब शनिकी विशेष दृष्टि कहते हैं—शनिको हीन करे दृश्यमेंसे यदि १ एक राशी शेष बचे तो राशी विना अंशादिकको द्विगुण करनेसे कलादिक

दृष्टि होती है और यदि २ दो राशी शेष बचे तो अंशोंको अर्ध, (आधे) करके साठमेंसे हीन करना इसीप्रकार ९ नवराशी शेष बचे तो राशिबिना अंशोंको द्विगुण करके साठमेंसे शोधनेसे दृष्टि होती है और ८ आठ राशी शेष बचे तो राशी बिना अंशोंमें ३० तीस युक्त करना शनीकी विशेष दृष्टि होवे ॥ १५ ॥

सप्तपादाष्टरापन्वीष्टक								मौमविशेषद्वय				सुरविशेषद्विकोष्टक			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा	अथा
अथा	११	४५	३०	२	६०	४५	३०	१५	१५	६०	६०	६०	४५	६०	४५
	युक्त	×	×	गुणा	×	×	×	×	यु	×	कला	×	यु	×	यु
		५	५		५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५
द्वान्विभेद															
१	२	८	९												
अथा	अथा	अथा	अथा												
	अथा		दिधा												
२	१०	३०	६०												
गुण	×	यु	५												
	५														

उदाहरण ।

सूर्य १०।१६।५३।३९मेंसे द्रष्टा चंद्र ५।२९।१९।४९ हीन किया ४।१७।३३।५० हुये शेष चार राशी बची हैं इसकारण इसके अंशादिक १७।३३।५० को ३० तीसमेंसे हीन किये १२।२६ शेष बचे ये सूर्यपर चंद्रकी दृष्टि हुई— इनीप्रकार दृश्य सूर्यमेंसे भौम ११।६।१४।५४ को हीन किया ११।१०।३८।४५ हुये शेष ग्यारा राशी हैं इमकी दृष्टि नहीं है इसकारण सूर्यपर भौमकी दृष्टि ०।० सूर्य दृश्यमेंसे द्रष्टा बुध १०।१०।४४।१८ को हीन किया शेष ०।६।१।२१ बचे शून्यराशीकी दृष्टि उक्त नहीं है इसलिये सूर्यपर बुधकी दृष्टि ०।० हुई सूर्यमेंसे द्रष्टा गुरु ३।०।४३।३ हीन किया शेष ७।१६।१०।३८ बचे सात राशी शेष हैं इसलिये गुरुकी विशेष दृष्टि श्लोकमें कहे अनुसार अंगोंको आधे किये ८।५ हुये इनमें ४५ युक्त किये १४।५३।५ ये सूर्यपर गुरुकी विशेष दृष्टि हुई—

मरणादिमहाभाषाटीका							०
२	३	४	५	६	७	८	
०	०	०	०	०	०	०	०
०	३८	०	०	३२	०	०	५
०	५६	०	०	२०	०	०	
१२	०	३३	३८	१४	३८	४०	५
२६	०	५०	३५	३८	५७	२८	
०	१	०	०	०	०	०	५
०	०	०	०	३५	०	५	५
०	०	०	०	३२	०	५३	
०	३५	०	०	३०	०	०	५
०	२४	०	०	२	०	०	
५३	५३	५३	५०	०	५४	५८	५
५	३६	५५	१	०	८	१०	
१	१२	३१	०	३६	०	०	५
१३	३३	५५	०	३२	०	०	
५५	५०	५५	३१	५७	०	०	५
१०	५८	१४	५०	२	०	०	

दृश्य सूर्यमंसे शुक्र ९।१२।२६।
 ८ को हीन किया शेष १।४।
 २७। ३१ वचे शेष एक राशी है
 इसलिये अंश ४।२७।३२ को
 भाषे किये २।१३ ये सूर्यपर
 शुक्रकी दृष्टी आई फिर दृश्य सूर्यमंसे
 द्रष्टा शनि ८।२४।४८।२३ हीन
 किया १।२२।५।१६ शेष एक राशी
 बची इसवास्ते शनीकी विशेष दृष्टी
 श्लोक १५ में कहे अनुसार अंशा-
 दिक २२।५ को द्विगुण किये ४४।
 १० ये सूर्यपर शनीकी दृष्टी हुई
 इनामकार शेष ग्रहोंपर ग्रहोंकी दृष्टि

तथा भाव दृश्यपर ग्रह द्रष्टाकी दृष्टी जानना—शक्ति ॥

मरणादिमहाभाषाटीका												
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	मरणा
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
०	०	०	३३	३७	१५	३३	५४	३७	२०	७	०	५
०	०	०	४	५२	३५	१०	४७	५२	५६	५१	०	
३२	१	५९	५२	२८	१६	२	०	०	२	१६	५३	५
५६	०	५	३०	५	१	५६	०	०	५१	५१	०	
०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	
०	०	०	१४	५२	३८	१२	४२	०	३१	१७	०	५
०	०	०	२३	३५	५५	४६	१०	०	३१	३२	२७	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
०	०	१०	३५	३४	३३	२५	५३	३४	१७	४	०	५
०	०	३२	३७	४७	१०	३८	४२	४०	५१	४७	०	
५८	३१	१४	०	०	०	०	३१	५५	५१	०	५१	५
३७	५३	५५	०	०	०	०	३८	१४	२४	५४	३२	
०	०	३३	३३	११	२५	५४	३७	१०	३	०	०	५
०	२	४४	४२	१५	५८	३५	४४	४०	४२	०	०	
०	५८	५९	१५	१२	५८	४५	३२	४७	०	०	०	५
०	५५	४५	४७	४४	४५	४०	३१	१६	०	०	०	

अथ राशीनां स्वामिनः । उक्तं च व्यंकटेशेन ।

भौमाच्छविचन्द्ररविजशुकवक्रेज्यमंदार्कसुतामरेज्याः ॥

मेपादिभानामधिपाः क्रमेण तदंशरानामपि ते भवेयुः ॥ १६ ॥

भापाटीका—अथ राशियोंके स्वामी व्यंकटेश कहते हैं—भौम (मंगल १) अश्ल (शुक्र २) वित् (बुध ३) चंद्र (चंद्र ४) रवि (सूर्य ५) ज (बुध ६) शुक (शुक्र ७) वक्र (भौम ८) ईज्य (गुरु ९) मंद (शनि १०) अर्कसुत (शनि ११) अमरेज्य (गुरु १२) क्रमसे मेपादिक राशियोंके स्वामी जानना, और मेपादिक राशियोंके अंशादिकोंके (द्रेष्काण सप्तमांश नवमांश द्वादशांश आदिके) भी क्रमसे येही स्वामी होते हैं ॥ १६ ॥

अथ नैसर्गमेचीमाह विश्वनाथः ।

इन्द्रीज्यक्षितिजार्षोदुतनयो सूर्येन्दुजीवाः क्रमा-

द्भ्रम्वर्को शशिसूर्यभूमितनया जार्का जशुकौ मताः ॥

सूर्यदिः सुहृदः समाः शशिसुतः सर्वेऽपि मंदास्फुजि-

नंदाचार्यकुजाः शनिः कुजगुरु जीवः परे वैरिणः ॥ १७ ॥

भापाटीका—अथ स्थिरमैत्री विश्वनाथ कहते हैं—चंद्र गुरु भौम १, सूर्य बुध २, सूर्य चंद्र गुरु ३, शुक सूर्य ४, चंद्र सूर्य भौम ५, बुध शनि ६, बुध शुक ७, क्रमसे सूर्यादिक ग्रहोंके मित्र कहे हैं और बुध १, सर्व ग्रह २ (मं० गुरु ३ शु० श०) शनि शुक ३ शनि गुरु भौम ४, शनि ५, भौम गुरु ६, गुरु ७, क्रमसे सूर्यादिक ग्रहोंके सम कहे हैं अप (मित्रसमसे बाकी रहे वह) शत्रु जानना ॥ १७ ॥

नैसर्गमेची,								
र	ध	म	बु	शु	श	ध	श	मि
र बु म	र बु	र ध बु	बु श	र ध म	शु क	शु श	मि	
बु	म बु ध	ध बु	ध बु म	ध	म बु	शु	शु	सम
शु क	.	शु	ध	बु बु	शु ध	र ध म	ध	श

अथसात्कालिकपंचधामैत्रीसाधनमाह—सोमदैवज्ञः ।

गृहतोऽर्थतृतीय ३ तोय ४ सप्त ११ व्यय १२ संस्थाः सुहृदो
नभश्चराः ॥ इतरालयगा द्विपो मुनी द्वैरिति तत्कालजमित्र
शत्रवःस्युः ॥ १८ ॥

भाषाटीका—अथ तात्कालिक पंचधा भैत्रीसाधन सोमदैवज्ञ कहते हैं । जिस ग्रहसे २।३।४।१०।११।१२ वें स्थानमें जो ग्रह स्थित होवे वह मित्र जानना शेष १।५।६।७।८।९ स्थानमें गये हुवे ग्रह शत्रु जानना इसप्रकार मुनीलोगोंने तात्कालिक मित्र शत्रु कहे हैं ॥ १८ ॥

उदाहरण ।

सूर्यसे २ भौम १ शनि १२ शुक्र स्थित हैं इसकारण ये सूर्यके मित्र हुवे और १ बुध ६ गुरु ८ चंद्रमा स्थित हैं ये सूर्यके शत्रु हुवे इसीप्रकार चंद्रादि सर्व ग्रहोंके तात्कालिक मित्र शत्रु जानना इति ।

तात्कालिकमैत्रीचक्रम् ।							
र.	ब.	मं.	कु.	गु.	शु.	घ.	
म.शु.	श.गु.	र.शु.	मं.शु.	ब.	र.शु.मं.ब.	र.शु.मं.ब.	मिष
च.गु.	र.मं.	बं.	र.बं.	र.मं.गु.	बं.	गु.	शत्रु
गु.	शु.	गु.	गु.	शु.घ.	गु.	गु.	

अधिमित्रसमत्वमेति मित्रं समखेटस्तु सुहृद्रिपुत्वमेति ॥

रिपुरेति समाधिशत्रुभावं खलु तत्कालजमित्रशत्रुभावात् ॥ १९ ॥

भाषाटीका—नैसर्गभैत्रीका मित्र ग्रह तात्कालिक भैत्रीमें मित्र होवे तो अधिमित्र और शत्रु होवे तो समत्वभावको प्राप्त होता है (मित्रमित्र अधिमित्र मित्रशत्रु सम होता है) और नैसर्गभैत्रीका समग्रह तात्कालिक भैत्रीमें मित्र होवे तो मित्र शत्रु होवे तो शत्रुभावको प्राप्त होता है (सममित्र-मित्र समशत्रु-शत्रु होता है) एवं नैसर्ग भैत्रीका शत्रुग्रह तात्कालिकभैत्रीमें मित्रहोवे तो सम और शत्रु होवे तो अधिशत्रु-भावको प्राप्त होता है (शत्रुमित्र-समशत्रु शत्रु-अधिशत्रु होता है) ॥ १९ ॥

उदाहरण ।

यहाँ नैसर्गभैत्रीमें सूर्यके चंद्र गुरु मित्र हैं ये चंद्र गुरु तात्कालिक भैत्रीमें सूर्यके शत्रु हैं अतः चंद्र गुरु पंचधाभैत्रीमें सूर्यके सम हुवे एवं नैसर्गभैत्रीमें भौम सूर्यका मित्र है तात्कालिक भैत्रीमें भी मित्र है इस

अथ पंचधा भैत्रीचक्रम् ।							
र.	ब.	मं.	कु.	गु.	शु.	घ.	
मं.	•	र.	शु.	बं.	घ.शु.	शु.शु.	अधि मि
•	श.गु.	शु.घ.	बं.मं.	•	मं.	•	मिष
बं.गु.	र.गु.	बं.गु.	र.	र.बं.	र.	र.बं.	घन.
शु.घ.	शु.मं.	•	गु.	घ.	गु.	गु.	शत्रु
•	•	•	बं.	शु.घ.	बं.	•	अधि शत्रु

लिखे भौम सूर्यके अधिमित्र हुआ पंचधाभैत्रीमें; और नैसर्गभैत्रीमें सूर्यके बुध सम है यह बुध तात्कालिकभैत्रीमें सूर्यके शत्रु हैं अतः शत्रुभावको बुध प्राप्त

हुवा—इसीप्रकार नैसर्गमैत्रीमें सूर्यके शुक्र, शनि शत्रु हैं ये तात्कालिक मैत्रीमें मित्र हैं इसलिये सूर्यके शनि, शुक्र पंचधा मैत्रीमें सम हुये ऐसेही शेष ग्रहोंके अभिभिन्नादि जानना इति.

अथ पदुगसाधनमाह केशवः ।

भेशो ऽथाकेन्दुहोरे अयुजियुजि शशिन्रध्रयोः स्वात्मजांक-

क्षेँशाख्यंशा नवांशा अजमकरतुलाकर्कितोर्काशकाः स्वात् ॥

भौमार्कीज्यज्ञशुक्रा अयुजि शर ५ शरा ५ घा ८ द्वि७ पंचां ५ शनाथा-
स्त्रिशा युग्मे विलोमाः क्रमवलिन इमे पट्टशुभैःसद्युगोर्ध्वैः ॥ २० ॥इति ।

भाषाटीका--अब केशवद्वैयज्ञका कहाहुवा पदुगसाधन कहते हैं । राशिपोंके स्वाभी प्रथमश्लोक १६में कहेहैं वे जानना. तदनंतर विपमराशिमें प्रथम विभागमें सूर्यकी, द्वितीयविभागमें चंद्रकी होरा जानना और सप्त राशिके प्रथम विभागमें चंद्रकी, दूमेरे विभागमें सूर्यकी होरा जानना, प्रथम १ पंचम ५ नवम ९ राशिके स्वामी द्रेष्काणके स्वामी होतेहैं(ग्रह प्रथम विभागमें १० अंशमें) होवे तो अपनी राशिका स्वामी द्रेष्काणका स्वामी जानना—और ग्रह दूमेरे विभागमें (१० अंशसे अधिक २० अंशपर्यंत--) होवे तो यह जिस राशिका हो उस राशीसे पांचवीं राशिका स्वामी द्रेष्काणका स्वामी होताहै एवं ग्रह तृतीय द्रेष्काणमें (२० अंशसे अधिक ३० अंशपर्यंत) होवे तो यह जिस राशिका हो उस राशीसे ९ नवमराशिका स्वामी द्रेष्काणका स्वामी जानना) भेष १ मकर १० तुला ७ और कर्क ४ से नवांश जानना अर्थात् ग्रह भेषका हो तो भेषराशीसे वृषभराशिका हो तो मकरराशीसे मिथुन राशिका हो तो तुलाराशीसे कर्कराशिका हो तो कर्कराशीसे इसी प्रकार सिंहादि सर्व राशीपोंमें जितनी संख्याके नवांशविभागमें ग्रह होवे उतनी संख्यापर्यंत गिनेनेसे जो

३०	२०	भय
३	५	विपम
५	७	५म

१ दांष्टका एक विभाग १५ पंद्रह अंशका होताहै ।

२ एक द्रेष्काणका विभाग दश १० अंशका होताहै

३ तिस्रें अंशके ९ नवमें विभक्तके नवांश कहते हैं एवं नवांश विभाग ३ अंश २० षट्काका होता है।

राशी आवे उसका स्वामी नवांशका स्वामी होता है द्वादशांशके स्वामी अपनी राशीसे जानना (यह जिस राशीका होवे उसी राशीसे जितनी संख्याके द्वादशांश-

मेष	मकर	गुरु	कर्क
१	२	३	४
५	६	७	८
९	१०	११	१२

विभागमें ग्रह होवे उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी द्वादशांशका स्वामी होता है) ॥ और विपमराशीमें ५।५।८।७।५

इन अंशोंके मंगल, शनी, गुरु, बुध, शुक, क्रमसे त्रिंशांशके स्वामी कहें हैं अर्थात् विपम राशीमें ५ अंशपर्यंत सौम त्रिंशांशका स्वामी जानना ऐसेही इन ५ अंशोंके आगेके ५ अंशका स्वामी शनी इसके आगेके ८ अंश-

नवांशविभाग ।										द्वादशांशविभाग ।									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२	६	१०	१३	१६	२०	२३	२६	३०	३३	२	५	७	१०	१२	१५	१७	२०	२२	२५
२०	४०	०	४०	४०	०	२०	४०	०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०

का स्वामी गुरु फिर इनके आगेके ७ अंशका स्वामी बुध इसके आगेके ५ अंशका स्वामी शुक त्रिंशांशका स्वामी जानना, और समराशीमें उक्त त्रिंशांशके स्वामी विलोम (उलटे) कहे हैं (५ शु० ७ बु० ८ गु० ५ श० ५ म०) ये छही वर्ग क्रमसे उत्तरोत्तर बलवान् जानना (ग्रहसे होरा बलवान् होरासे त्रेष्काण त्रेष्काणसे नवांश नवांशसे द्वादशांश द्वादशांशसे त्रिंशांश अधिक बलवान् जानना) चार ४ से अधिक वर्ग शुभग्रहके आवे तो शुभ समझना ॥ २० ॥

५	५	८	७	५	अथा
मं	मं	गु	गु	गु	विपमराशी
गु	गु	गु	मं	मं	समराशीमें
५	७	८	५	५	अथा

अथ सप्तवर्गसाधनमाह ।

नगांशपास्त्वोजगृहे तदीशाद्युग्मे ग्रहे सप्तमराशिपात्तु ॥

पूर्वोक्तवर्गः सहितो नगांशः स्युः सप्तवर्गा मुनिभिः प्रदिष्टाः ॥ २३ ॥

भाषाटीका—अथ सप्तवर्गसाधन कहते हैं। विपमराशीमें अपनी राशीके स्वामीसे नवमांशके स्वामी जानना और समराशीमें अपनी राशीसे सप्तम राशी (तातवी

१. तीस अंशके १२ भागका द्वादशांश कहते हैं एक द्वादशांशविभाग भयार्थ अंशका होता है ।

राशी) के स्वामीसे सप्तमांशके स्वामी जानना ॥ (ग्रह विपम राशीका हो तो जिस राशीका है उसी राशीसे और समराशीका हो तो जिसराशीका ग्रह होवे उस राशीसे जो सातमी राशी है उससे जितनी संख्याके सप्तमांशविभागमें ग्रह स्थित होवें उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी सप्तमांशका स्वामी समझना) पूर्वोक्तपङ्क्तियोंमें ये सप्तमांशयुक्त करनेसे सप्तवर्ग होते हैं ऐसा मुनिलोकोंने कहा है ॥ २१ ॥

उदाहरण ।

सूर्य १०।१६।५३।३९ यह कुंभराशीका है इसका स्वामी शनि गृहका स्वामी हुवा—होरा—सूर्य, होराके दूसरे विभागमें है और विपमराशीका है इस कारण सूर्यकी होराका स्वामी चंद्र हुवा—द्रेष्काण—सूर्य दूसरे द्रेष्काणविभागमें है इसलिये सूर्यकी राशी ११ कुंभसे पांचमी राशी ३ मिथुनका स्वामी बुध आया ये द्रेष्काणका स्वामी हुवा. सप्तमांश—सूर्य विपम राशीका है और सप्तमांश-विभागमें ये चार ४ संख्याके विभागमें हैं अतः सूर्यकी राशी ११ कुंभसे चार पर्यंत गिननेसे चौथी राशी २ वृषभ आई इसका स्वामी शुक्र सप्तमांशका स्वामी हुवा—नवांश—सूर्य ६ छह संख्याके नवांशविभागमें है और कुंभराशीका है अतः तुलाराशीसे ६ छह संख्यातक गिननेसे १२ मीन राशी आई इसका स्वामी गुरु है यह सूर्यके नवांशका स्वामी हुवा—द्वादशांश—सूर्य ७ सातसंख्याके द्वादशांश-विभागमें है इसलिये अपनी राशी कुंभसे गिननेसे सातमी ७ राशी ५ सिंह आई इसका स्वामी सूर्य द्वादशांशका स्वामी हुवा त्रिंशांश—सूर्य विपमराशीका है और १६ अंशका है इसलिये त्रिंशांश विभागमें तीसरे अंशके विभागमें है इसकारण विपमराशीके तीसरे विभागका स्वामी गुरु सूर्यके त्रिंशांशका स्वामी हुवा—इसीप्रकार शेष चंद्रादि सर्वग्रहोंके सप्तवर्ग जानना. इति.

सप्तमांशविभाग						
१	२	३	४	५	६	७
४	८	१२	१७	२१	२५	३०
१०	१४	१९	२४	२९	३४	०

अथ महाती सप्तवर्गचक्रम् ।								
र	क	मं	दु	गु	शु	ष	ह्य	
११ अ स	६ बु स	१२ गु स	११ अ मि	४ अ उमि	१० अ मि	९ गु अ	१० अ	अथ
४ अ स	५ र स	४ अ स	५ र स	४ अ मि	४ अ अ	४ अ स	५ र	द्वि
२ गु अ	२ गु अ	१० गु अ	३ गु अ	४ अ मि	२ गु अ	५ र स	६ अ	त्रि
२ गु स	६ अ स	७ गु मि	१ म मि	१० अ अ	६ गु मि	२ गु मि	९ गु	चतु
१० गु स	६ गु स	५ र मि	१० अ मि	४ अ मि	१ म मि	८ म स	५ अ	पञ्च
५ र स	५ गु स	२ गु मि	३ गु अ	४ अ मि	३ गु अ	२ गु मि	७ अ	षड
९ गु स	८ म अ	६ गु स	९ गु अ	२ गु अ	१२ गु अ	१० गु मि	१० र	सप्त
५	४	६	१	६	५	५	६	अष्ट
२	१	१	४	१	२	२	४	नव

विनापरिश्रम शीघ्र सुगमरीतिसे सप्तवर्गज्ञान होनेके लिये आगे सप्तवर्ग-सारणीचक्र मेपादि राशियोंके लिखे हैं—

उनमें ग्रह जिस राशीका होवे उस राशीके कोष्टकमें जितने अंशका होवे उतने अंशके नीचे पंक्तिमें जो सप्तवर्गके स्वामी राशीसहित लिखे हैं वे उस ग्रहके सप्तवर्गके स्वामी होंगे और पष्टचंशका स्वामी भी उसीके नीचे पंक्तिमें लिखा है वह जानना ॥

उदाहरण ।

जैसे यहां सूर्य १०।१६।५३।३९ है इसलिये कुंभराशीके कोष्टकमें १७ अंशके नीचे पंक्तिमें लिखे सप्तवर्गके स्वामी और पष्टचंशका स्वामी आये ।

ग. प. हो. प. दे. प. स. प. न. प. वा. प. त्रि. प. प. प.
११ रा ४ चं ३ बु २ शु १२ गु ५ र ९ गु ८ मं.

शहरमन्त्रालय (सिद्धाशिवपत्रमन्त्रालय)

०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	अंश.
८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	अंश.
९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	अंश.
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	अंश.
११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	अंश.
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	अंश.
१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	१३	अंश.
१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	१४	अंश.
१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	१५	अंश.
१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	१६	अंश.
१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	१७	अंश.
१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	अंश.
१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	१९	अंश.
२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	अंश.

२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	अंश.
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	अंश.
३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	अंश.
४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	अंश.
६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	अंश.
८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००	१०१	१०२	१०३	१०४	१०५	अंश.
१०६	१०७	१०८	१०९	११०	१११	११२	११३	११४	११५	११६	११७	११८	११९	१२०	१२१	१२२	१२३	१२४	१२५	१२६	अंश.
१२७	१२८	१२९	१३०	१३१	१३२	१३३	१३४	१३५	१३६	१३७	१३८	१३९	१४०	१४१	१४२	१४३	१४४	१४५	१४६	१४७	अंश.
१४८	१४९	१५०	१५१	१५२	१५३	१५४	१५५	१५६	१५७	१५८	१५९	१६०	१६१	१६२	१६३	१६४	१६५	१६६	१६७	१६८	अंश.
१६९	१७०	१७१	१७२	१७३	१७४	१७५	१७६	१७७	१७८	१७९	१८०	१८१	१८२	१८३	१८४	१८५	१८६	१८७	१८८	१८९	अंश.
१९०	१९१	१९२	१९३	१९४	१९५	१९६	१९७	१९८	१९९	२००	२०१	२०२	२०३	२०४	२०५	२०६	२०७	२०८	२०९	२१०	अंश.

पष्टचशोपेतं कुंभराशिसप्तवर्गपतिचक्रम् ।

८	८	९	९	१०	१०	११	११	१२	१२	१३	१३	१४	१४	१५	भेद
०	१०	०	१०	०	१०	११	११	१२	१२	१३	१३	१४	१४	१५	०
४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	ए
११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	इ
२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	उ
५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	शु
७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	क
११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	ख
ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	घ
१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	१२	च
१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	ज
१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	झ
२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	ट
३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	ड
४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	४	ण
५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	त
६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	६	थ
७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	७	द
८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	८	ध
९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	९	न
१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	१०	प
११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	११	य

१२	१२	१३	१३	१४	१४	१५	१५	१६	१६	१७	१७	१८	१८	१९	१९	२०	गघ
३	३	४	४	५	५	६	६	७	७	८	८	९	९	१०	१०	११	गघ
५	५	६	६	७	७	८	८	९	९	१०	१०	११	११	१२	१२	१३	गघ
७	७	८	८	९	९	१०	१०	११	११	१२	१२	१३	१३	१४	१४	१५	गघ
९	९	१०	१०	११	११	१२	१२	१३	१३	१४	१४	१५	१५	१६	१६	१७	गघ
११	११	१२	१२	१३	१३	१४	१४	१५	१५	१६	१६	१७	१७	१८	१८	१९	गघ
१३	१३	१४	१४	१५	१५	१६	१६	१७	१७	१८	१८	१९	१९	२०	२०	२१	गघ
१५	१५	१६	१६	१७	१७	१८	१८	१९	१९	२०	२०	२१	२१	२२	२२	२३	गघ
१७	१७	१८	१८	१९	१९	२०	२०	२१	२१	२२	२२	२३	२३	२४	२४	२५	गघ
१९	१९	२०	२०	२१	२१	२२	२२	२३	२३	२४	२४	२५	२५	२६	२६	२७	गघ
२१	२१	२२	२२	२३	२३	२४	२४	२५	२५	२६	२६	२७	२७	२८	२८	२९	गघ
२३	२३	२४	२४	२५	२५	२६	२६	२७	२७	२८	२८	२९	२९	३०	३०	३१	गघ
२५	२५	२६	२६	२७	२७	२८	२८	२९	२९	३०	३०	३१	३१	३२	३२	३३	गघ
२७	२७	२८	२८	२९	२९	३०	३०	३१	३१	३२	३२	३३	३३	३४	३४	३५	गघ
२९	२९	३०	३०	३१	३१	३२	३२	३३	३३	३४	३४	३५	३५	३६	३६	३७	गघ
३१	३१	३२	३२	३३	३३	३४	३४	३५	३५	३६	३६	३७	३७	३८	३८	३९	गघ

दशांशसारणीचक्रम् ।

०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	राशी	सं०
१	१०	३	१२	५	२	७	४	९	६	११	८	मिमांसा	१
२	११	४	१	६	३	८	५	१०	७	१२	९	६	२
३	१२	५	२	७	४	९	६	११	८	१	१०	९	३
४	१	६	३	८	५	१०	७	१२	९	२	११	१२	४
५	२	७	४	९	६	११	८	१	१०	३	१२	१५	५
६	३	८	५	१०	७	१२	९	२	११	४	१	१८	६
७	४	९	६	११	८	१	१०	३	१२	५	२	२१	७
८	५	१०	७	१२	९	२	११	४	१	६	३	२४	८
९	६	११	८	१	१०	३	१२	५	२	७	४	२७	९
१०	७	१२	९	२	११	४	१	६	३	८	५	३०	१०

चरराशिमें भेष राशिको आदिले स्थिरमें सिंहको आदिले द्विस्वभावमें धन राशिको आदिले जितनी संख्याके विभागमें होवे उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो

षोडशांशविभाग (पाये.)

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१	३	५	७	९	११	१३	१५	१६	१८	२०	२२	२४	२६	२८	३०	भ.
५२	५५	६०	६०	६२	६५	७	०	१२	४५	६०	६०	६२	६५	७	०	क.
३०	०	६०	०	३०	०	३०	०	३०	०	३०	०	३०	०	३०	०	वि.

राशी आवे वह राशीका स्वामी षोडशांशका स्वामी होता है ।

अथदशाधर्ग बनानेकी रीति कहते हैं ।

सप्तवर्गमें दशांश षोडशांश पष्टचंश मिलानेसे दशवर्ग होते हैं ।

अथाष्टवर्गानयनमाह हुंडिराजः ।

स्वान्मंदात्कृजतो रविर्मृत्तितपोलाभार्थेकेन्द्रस्थितः श्रुकादस्तरिपुण्ययेषु चगुरोर्धर्मारिपुत्राप्तिषु ॥ चन्द्रात्प्राप्तिरिपुत्रिलेषु शशिजात्पंचत्रिनन्दव्ययारि प्रात्पभ्रगतस्तनोद्विसमुखोपांत्यारिरिःफे शुभः ॥ २२ ॥

भापाटीका—अथ अष्टवर्ग बनानेकी रीति हुंडिराज कहते हैं ।

प्रथम सूर्याष्टवर्ग कहते हैं ।

सूर्य अपने स्थानसे और क्षीमसे और शनिसे ८।९।११।२।१।४।७।१०में स्थानमें शुभ फल देता है और शुकसे ७ । ६ । १२ गुरुसे ९।६।५।११ चंद्रसे

११ । ६ । ३ । १० बुधसे ५ । ३ । ९ । १२ । ६ । ११ । १० लग्नसे ३ । १० । ४ । ११ । ६ । १२ स्थानमें शुभफल देता है इन शुभफलपद स्थानोंमें रेखा देना और शेष स्थानोंमें बिंदु (शून्य) देना सूर्यका अष्टवर्ग होवे ॥ २२ ॥

अथ रवेरष्टवर्गिकाः ४८.							
र	व	मं	धु	शु	शु	शु	शु
१	३	१	३	५	६	१	३
२	५	२	५	६	७	२	४
४	१०	४	६	९	१२	४	६
७	११	७	९	११	७	७	१०
८		८	१०		८	११	
९		९	११		९	१२	
१०		१०	१२		१०		
११		११			११		

अथ चंद्रस्याष्टवर्गः ।

भौमाद्वैर्नवधीधनोपचयगः पट्यासिधीस्थोर्केजा-
लग्नस्योपचये खेरुपचयाष्टास्तेषु शस्तो बुधात् ॥
धीश्रेणचतुष्टयं त्रिषु गुणेः केन्द्राष्टलाभव्यये-
स्वादेकोपचयास्तगस्त्रिखभवास्तांबुत्रिकोणे भृगोः ॥ २३ ॥

भापाटीका—चंद्राष्टवर्ग कहते हैं। चंद्रमा भापसे १।५।२। ३। ६। १०। ११
शनिसे ६। ३। ११। ५ लग्नसे ३। ६। १०। ११ सूर्यसे ३। ६। १०। ११। ८।
७ बुधसे ५। ८। ११। १। ४। ७। १०। ३ गुरुसे १। ४। ७। १०। ८।
११। १२ चंद्रसे ३। ३। ६। १०। ११। ७ भृगुसे ३। १०। ११। ७। ४।
९। ५ में स्थानमें शुभफल देता है इन स्थानोंमें रेखा देना शेष स्थानोंमें शून्य
देना चंद्रका अष्टवर्ग होवे ॥ २३ ॥

अथ भौमस्याष्टवर्गमाह ।

स्वाद्रौमोष्टचतुष्टयायधनगो जीवात्पडायात्यस्ये
चन्द्रादायरिपुत्रिगो भृगुसुतादष्टांत्यलाभारिगः ॥
ज्ञात्पंचायरिपुत्रिगोर्कतनयात्केन्द्राष्टधर्मायगः
सूर्याच्चोपचयात्मजेषु तनुतरुयायारिखाद्यं शुभः ॥ २४ ॥

भापाटीका—अब भौमका अष्टवर्ग कहते हैं । भौम अपने स्थानसे ८। १। ४।
७। १०। ११। २ गुरुसे ६। ११। १२। १० चंद्रसे ११। ६। ३ शुक्रसे ८

१२।११।६ बुधसे ५।११।६।३ शनिसे १।४।७।१०।८।९।११
सूर्यसे ३।६।१०।११।५।७।३।११।६।१०।१ स्थानमें शुभफल देताहै इन शुभ-
फलप्रदस्थानमें रेखा देना शेष स्थानमें शून्य देना भौमका अष्टवर्ग होवे ॥ २४ ॥

अथ चंद्रस्याष्टवर्गाः ४९-								अथ भी प्रत्याष्टवर्गाः ३९							
र	च	मे	बु	शु	शु	शु	शु	र	च	मे	बु	शु	शु	शु	शु
३	१	२	१	१	३	३	३	३	३	१	३	६	१	१	
६	३	३	३	५	५	५	६	५	६	२	५	१०	८	५	
७	६	५	४	७	५	६	१०	६	११	५	६	११	११	७	
८	७	६	५	८	७	११	११	१०	७	११	११	१२	८	१०	
१०	१०	९	७	१०	९			११		८				९	
११	११	१०	८	११	१०					१०				१०	
		११	१०	१२	११					११				११	

अथबुधस्याष्टवर्गमाह ।

शुक्रादासुतधर्मलाभमृतिगः सौम्यःकुजाकैस्तपः-
केंद्रायाष्टधने स्वतोप्युपचयान्त्यैकत्रिकोणे शुभः ॥
कोणान्त्यारिभवेरेरिपुभवाष्टान्त्ये गुरोरिन्दुताः

खायाष्टारिसुखार्थगः स्वखभवाष्टकांबुपट्टसूदयात् ॥ २५ ॥

भाषाटीका—अथ बुधका अष्टवर्ग कहते हैं।शुक्रसे बुध१।२।३।४।५।९।११।८
में स्थानमें शुभ फल देता है और मंगल शनिसे ९।१।४।७।१०।११।८।२
बुधसे ३।६।१०।११।१२।१।९।५।सूर्यसे ९।५।१२।६।११।
गुरुसे ६।११।८।१२ चंद्रसे १०।११।८।६।४।२ लग्न-
से २।१०।११।८।१।४।६स्थानमें शुभफलदेताहै इन उक्त स्थानोंमें
रेखादेना शेषस्थानमें बिंदुदेना बुधका अष्टवर्ग होवे ॥ २५ ॥

अथ जीवास्याष्ट वर्गमाह ।

स्वात्स्वायाष्टत्रिकेद्रे स्वनवदशभवारातिधीस्थश्च शुक्रा-
स्तमात्केन्द्रायधीपट्टस्वनवसु च कुंजात्स्याष्टकेन्द्राय इज्यः ॥

इन्द्रोर्ध्वनार्थकोणातिपु सहजनवाष्टायकेन्द्रार्थगोऽर्का-

ज्जात्कोणद्वायसाद्याम्बुधिरेरिपुपु शनेर्ध्वनार्थपट्टसु अस्तः २६॥

भाषाटीका—अथ गुरुका अष्टवर्ग कहते हैं । गुरु अपने स्थानसे २ । ११ । ८ । ३ । १ । ४ । ७ । १० में स्थान में शुक्रसे २ । ९ । १० । ११ । ६ । ५ लग्नसे १ । ४ । ७ । १० । ११ । ५ । ६ । २ । ९ भाँपसे २ । ८ । ११ । ४ । १० । ११ चंद्रसे ७ । २ । ९ । ५ । ११ सूर्यसे ३ । ९ । ८ । ११ । १ । ४ । ७ । १० । २ बुधसे ९ । ५ । २ । ११ । १० । १ । ४ । ६ शनिसे ३ । १२ । ५ । ६ स्थानमें शुभफल देताहै । इन स्थानोंमें रेखादेना गुरुका अष्टवर्ग होवे ॥ २६ ॥

अथ बुधस्याष्टवर्गिकाः ५४.							अथ गुरोरष्टवर्गिकाः ५६.						
र	च	म	बु	शु	श	क	र	च	म	बु	शु	श	क
५	२	१	१	६	१	१	१	२	१	१	१	२	३
६	४	२	३	८	२	२	२	२	५	२	२	५	२
९	६	४	५	११	३	४	४	३	७	४	४	६	४
११	८	७	६	१२	४	७	६	४	७	५	४	९	५
१२	१०	८	९		५	८	८	७	११	८	७	१०	६
	११	९	१०		८	९	८		१०	९	८	११	७
		१०	१		९	१०	९		११	१०	९		१०
		११	१२		११	११	१०		११	११			११

अथ शुक्रस्याष्टवर्गमाहा

खास्तान्त्याऽहितवर्जितेषु-तनुतः शुक्रो विनास्तारिखं

चन्द्रात्स्वान्मदनव्ययारिरहितेष्वर्काद्ययाष्टातिषु ॥

मन्दाद्येकरिपुव्ययास्तरहितेष्वीज्यान्नवायाष्टधी-

खेजात्कोणभवत्रिपट्सु भवधीत्र्यन्त्यारिधर्मं कुजात् ॥ २७ ॥

भाषाटीका—अथ शुक्रका अष्टवर्ग कहते हैं । शुक्र—लग्नसे १० । ७ । १२ । ६ स्थान विना और स्थानमें (१ । २ । ३ । ४ । ५ । ८ । ९ । ११) शुभफल देता है—और शुक्रसे ७ । ५ । १० में स्थानविना अन्य स्थानमें (१ । २ । ३ । ४ । ५ । ८ । ९ । ११ । १२) चन्द्रसे ७ । १२ । ६ स्थान विना अन्य स्थानमें (१ । २ । ३ । ४ । ५ । ८ । ९ । १० । ११) सूर्यसे १२ । ८ । ११ स्थानमें शनिसे २ । १ । ६ । १२ । ७ में स्थानविना शेष स्थानमें (३ । ४ । ५ । ८ । ९ । १० । ११) गुरुसे १ । ११ । ८ । ५ । १०

में बुधसे ९ । ५ । ११ । ३ । ६ गंगलसे ११ । ५ । ३ । १२ । ६ । ९
स्थानमें शुभफल देता है । इन शुभफलद स्थानोंमें रेखा देना शुभका अष्ट-
वर्ग होवे ॥ २७ ॥

अथ मंदस्याष्टवर्गमाह ।

स्वान्गदक्षिणधायत्रीषु रवितोषायाद्विकेन्द्रे शुभो
भौमात्खायपडन्त्यधीत्रिषु तनोः खायाम्बुपट्येकगः ॥
ज्ञादायारिनवात्यखाष्टसु भृगोरन्त्यायपट्संस्थित-
श्चन्द्रादापरिपुत्रिगःसुरगुरोरन्त्यायत्रीशत्रुगः ॥ २८ ॥

भाषाटीका—अब गनिका अष्टवर्ग कहते हैं । रवि अपनी राशीस ३।६।११
५ स्थानमें सूरसे ८ । ११ । २ । १ । ४ । ७ । १० में भौमसे १० । ११ ।
६ । १२ । ५ । ३ लग्नसे १० । ११ । ४ । ६ । ३ । १ बुधसे ११ । ६ ।
९ । १२ । १० । ८ शुक्रसे १२ । ११ । ६ चन्द्रमे ११ । ६ । ३ गुरुसे
११।११।५।६ स्थानमें शुभफल देताहै । इन स्थानोंमें रेखा देना अन्यत्र बिंदु
देना गनिका अष्टवर्ग होवे ॥ २८ ॥

११ शुभस्वष्टवर्गमाह ५२										अथ अष्टवर्गमाह २९													
र	व	म	बु	शु	ग	र	व	म	बु	शु	ग	र	व	म	बु	शु	ग	र	व	म	बु	शु	ग
८	१	३	३	५	१	१०	१	१	३	३	६	५	६	३	१								
११	२	५	५	८	२	३	२	२	६	५	८	६	११	५	३								
१२	३	६	६	९	३	४	३	४	११	६	९	११	१२	६	४								
	४	०	०	१०	४	५	४	७		१०	१०	१२											
				११	५	६	६	८		११	११												
	८	११			६	०	८	१०		१२	१२												
	११					११		११															
	१०				१२																		
	११				१२																		

शंभुदे राप्रकाशादि ग्रन्थोंमें उग्राष्टवर्गभी विशेष कहा है ।

अथ लग्नस्याष्टवर्गिकाः ४९.							
र	व	म	बु	सु	शु	श	ल
३	३	१	१	१	१	१	३
४	६	३	२	२	२	३	६
६	१०	६	४	४	३	४	१०
१०	१२	१०	६	५	४	६	११
११		११	८	६	५	१०	
१२			१०	७	८	११	
			११	९	९		
				१०	११		
				११			

स्थानानि यान्युक्तानि तेषु रेखा अन्यत्र विन्दुः ॥ २९ ॥

इति रेखाष्टकम् ।

भाषाटीका—प्रथम जिसग्रहका अष्टवर्ग करना हो वह ग्रह जिसराशीमें स्थित हो उस राशीको आदिले जन्मकुण्डली ग्रहमहित लिखना तदनंतर अपने अपने अष्टवर्ग जो जो स्थान शुभफलप्रद कहे हैं उन उन स्थानोंमें रेखा लिखना अन्य स्थानोंमें बिन्दु (शून्य) लिखना—इसप्रकार सूर्यसे लग्नपर्यंत आठही ग्रहोंके अष्टवर्ग बनाना फेर बाराही राशियोंकी अष्टवर्गकी रेखाका योग पृथक् पृथक् करके अपनी अपनी रेखाका योग कुण्डलीमें लिखना जो समुदायाष्टवर्ग होवे तदनंतर इस समुदायाष्टवर्गमें मौने भेष वृषभ मिथुन राशिमें जिननी जिननी रेखा होवे उन सर्व रेखाका योग करना ये योग १२० एक सौ बीससे अधिक आवे तो प्रथम वयमें सौख्यार्थ विशेष प्राप्त होगा—एवं कर्क सिंह कन्या तुला राशीकी सर्व रेखाका योग १२० एक सौ बीससे अधिक आवे तो तरुण अवस्थामें सुख अर्थप्राप्ति आदि विशेष होगा—इसीप्रकार वृश्चिक धन मकर कुंभ राशियोंकी सर्व रेखाका योग १२० एक सौ बीससे अधिक आवे तो उत्तर वयमें सुख अर्थप्राप्ति आदि शुभफल विंशय होगा और १२० एक सौ बीससे अल्परेखेक्य जिस अवस्थामें आवे उम अवस्थामें मध्यम फल होगा ऐसा जानना ॥ २९ ॥

१ शंभुदेवाराजकाश—मौनार्थं मिथुनांतर मध्यमक मानक मयः प्राग्निः फर्वायं पणिनांतकं तरुणतासुशय मध्यं बुधेः ॥ कुंभाने स्वविराजकं च एतुनिर्णयत्कष्टेः मुमुने तस्मिन्पार्श्वविशेषकं बलमुत्तेजेदं विंशयाच्युभम् ॥ ११ ॥

उदाहरण ।

सूर्यरेखाष्टक करना है—यहाँ सूर्य कुंभराशीका है अतएव कुंभराशीको आदिते जन्मकुंडली ग्रहसहित लिखके श्लोक २२ के अनुसार शुभफलप्रद स्थानोंमें रेखा अन्यस्थानोंमें शून्य लिखी सर्वरेखाका योग किया ४८ हुआ ये सूर्यका अष्टवर्ग हुआ इसी प्रकार शेष ग्रहोंके अष्टवर्ग जानना ॥

सूर्याष्टवर्गकय ४८



रेखाष्टकचक्रम्												
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
३	२	६	४	२	३	५	६	७	३	२	५	४८
६	५	४	५	३	४	४	६	३	३	४	३	४९
४	१	७	४	२	३	३	४	६	३	१	३	३९
५	२	७	४	३	३	६	४	६	६	५	३	५५
५	७	४	४	२	३	७	५	३	४	६	४	५६
६	५	३	४	४	५	३	५	४	५	५	४	५२
३	४	३	३	३	३	६	५	३	४	३	३	३०
३	६	३	३	४	३	६	५	४	४	६	६	४९
३५	३३	३५	३१	३०	३७	४३	३९	३९	३१	३०	३०	गीत

समुदायाष्टवर्ग उदाहरण ।

जैसे मेपरराशीके सूर्याष्टवर्गमें रेखा ३ चंद्राष्टवर्गमें ६ भौमाष्टवर्गमें ४ बुधाष्टवर्गमें ५ गुरुके अष्टवर्गमें ५ शुक्राष्टवर्गमें ३ शनिके अष्टवर्गमें २ लग्नाष्टवर्गमें रेखा ३ हैं इन आठही वर्गोंकी मेपरराशीकी रेखाका योग किया ३४ हुवे इसीप्रकार बाराही राशियोंके अष्टवर्गकी रेखाका योग किया इसको समुदायाष्टवर्ग जानना इस समुदायाष्टवर्गमें मीनराशीमें रेखा ३० मेषमें ३४ वृषभमें ३२ मिथुनमें ३५ रेखा हैं इनका योग किया १३१ आये ये १२० से अधिकहैं अतः प्रथमवय-में सुस्तार्थ वृद्ध्यादिभेद फल होगा एवं कर्कमें ३१ सिंहमें २२ कन्यामें २७

तुलामें ३४ रेखा हैं-इनका योग ११४ आया ये १२० से अल्प हैं इस-
लिये मध्यवयमें मध्यम फल होगा—इसीप्रकार वृश्चिक ३८ धन ३९ मकर २९
कुंभ ३१ राशीयोंकी रेखाका योग १४१ आया ये १२० से अधिक हैं इसलिये
अन्त्य वयमें सौख्यार्थप्राप्त्यादि श्रेष्ठ फल होगा. ऐसा सर्वमें जानना ।

इति रेखाष्टकम् ।

समुदायाष्टवर्गकुंडली.



शुभाशुभफलचक्रम्.		
आशुभस्थया	मध्यावस्था	अशुभस्थया
१३१	११४	१४१
श्रेष्ठ.	मध्यम	श्रेष्ठ

अथ रश्मिसाधनमाह ।

सत्रिभं सायनाके सूर्यस्य व्यकेन्दुचन्द्रस्य मध्यस्पष्टयोर्यो-
गार्द्ध चलोच्चे हीनं भौमादिकानां चेष्टाकेन्द्रम् ॥ तद्रसोर्ध्व-
मिनभाच्छुद्धंशेषक्षे संकं अंशाद्या द्विघ्ना चेष्टारश्मिः ॥ ३० ॥

भाषाटीका—अब रश्मिसाधन कहते हैं। अयनांशयुक्त किये हुवे स्पष्टसूर्यमें तीन
राशी युक्त करना सूर्यका चेष्टाकेन्द्र होवे और स्पष्टचंद्रमेंसे स्पष्टसूर्य हीन करनेसे
चंद्रका चेष्टाकेन्द्र होता है और भौमादिक (भौम. बुध. गुरु. शुक शनि.) मध्यम
ग्रहका और स्पष्टग्रहका योग करके अर्ध (अधि) करना और अपने अपने चलो-
च्छ (शीमोच) मेंसे हीन करना (सोधना) सो भौमादि पंचताराग्रहोंका चेष्टाके-

१. सोमदेवशः ॥ मध्यमार्कसहितं चन्द्रकेन्द्रं स्याद्बुधस्य च धितस्य चलोच्चमाभेदिनीतनयनीरश-
नीनां मध्यमार्कं वदितं तु चलोच्चम् ॥ १ ॥ बुध शुक्रके मध्यम शमीकेन्द्रमें मध्यम सूर्यका मिठा
भेचे बुध शुक्रका शीमोच होता है और मंगल गुरु शनीका मध्यम सूर्य शीमोच होता है ।

न्द्र होवे. वह चेष्टाकेन्द्र ६ छराशीसे अधिक होवे तो १२ वारा राशीमेंसे शोधना (निकालना) शेष बचे उसकी राशीमें एक मिलाना और अंशादिकको द्विगुण करना चेष्टारशीहोवे ॥ ३० ॥

अथ ग्रहाणामुच्चनीचराशीनाह ।

सूर्यात्स्युरुच्चाः क्रियन्ते २ मृग १० स्त्री ६ कर्का १८ अन्त्य १२ जूका ७
दशभि १० हुताशैः ३ ॥ गजाश्व २८ भिर्वाणकुभिः १५ शरै ६
भैरवैर्न खै २० लवैरस्तगतास्तु नीचाः ॥ ३१ ॥

भाषाटीका—अब ग्रहोंकी उच्चनीच राशियें कहते हैं । मेष—राशीकें १० अंशपर्यन्त (सूर्य) वृषभ १ राशीके ३ अंशपर्यन्त (चंद्र) मकर ९ राशीके २८ अंशपर्यन्त (मौम) कन्याराशीके १५ अंशपर्यन्त (बुध) कर्क ३ राशीके ५ अंशपर्यन्त (गुरु) मीन ११ राशीके २७ अंशपर्यन्त (शुक्र) तुला ६ राशीके २० अंशपर्यन्त (शनि) सूर्यको आदिले ग्रह क्रमसे उच्चराशियोंके होते हैं और अपनी उच्चराशीसे सातमी राशीमें गये हुये नीचके होते हैं ॥ ३१ ॥

उच्चनीचराशीचक्रः						
र	मं	मं	बु	गु	शु	श
०	१	९	५	३	११	६
१०	३	२८	१५	५	२७	२०
६	७	३	११	९	५	०
१०	३	२८	१५	५	२७	२०

अथ उच्चरश्मिसाधनमाह ।

ग्रहनीचांतरङ्कार्यं पद्मभाद्रं यथातथा ॥

द्वित्रोशादिः सहस्रंभुज्जगद्विमरयं स्मृतः ॥ ३२ ॥

भाषाटीका—अब उच्च राशिम करनेकी रीति कहते हैं जैसे छह राशीसे अल्परोष रहते होवे वैसे ही ग्रह और नीचके अंतर करना (ग्रहमेंसे नीच हीन करनेसे ६ से अल्परोषे तो ग्रहमेंसे नीच हीन करना और यदि नीचमेंसे ग्रह हीन करनेसे ६ राशीसे अल्परोष रहते होवे तो नीचमेंसे ग्रहको हीन करना) शेष बचे राश्यादिककी राशीके अंकोंमें १ एक मिलाना अंशादिकको द्विगुण करना उच्चरश्मि होवे ॥ ३२ ॥

अथ स्पष्टरश्मिसाधनमाह ।

चेष्टोच्चरश्मियोगार्द्धं स्फुटरश्मिः प्रकीर्तयते ॥

नखोनैक्ये दरिद्रीस्यार्द्धिशोर्ध्वेसम्पदन्वितः ॥ ३३ ॥

भाषाटीका—अब स्पष्टरश्मिसाधन कहते हैं । चेष्टारश्मि और उच्चरश्मि का योग करके अर्ध (आधा) करना आवे वह स्पष्टरश्मि कहाती है, उसस्पष्टरश्मिका ऐक्य २० बीससे अल्प आवे तो दरिद्री होवे और २० बीससे अधिक आवे तो सम्पदावान् होवे ॥ ३३ ॥

इति रश्मिसाधनम् ।

उदाहरण ।

सूर्य स्पष्ट १० । १६ । ५३ । ३९ में अयनांश २२ । २९ । ० युक्तकरके ११ । ९ । २२ । ३९ सायन सूर्य हुआ इसकी राशिमें ३ तीन युक्त किये २ । ९ । २२ । ३९ ये सूर्यका चेष्टाकेन्द्र हुआ एवं चंद्र स्पष्ट ५ । २९ । १९ । ४९ मेंसे स्पष्ट सूर्य १० । १६ । ५३ । ३९ हीन किया ७ । १२ । २६ । १० ये चंद्रका चेष्टाकेन्द्र हुआ, भौममध्यम ११ । १२ । ३९ । ४८ भौमस्पष्ट ११ । ६ । १४ । ५४ का योग २२ । १८ । ५४ । ४२ हुआ इसको अर्धकिया ११ । ९ । २७ । २१ हुआ इसको भौमके चलोच्च (मध्यमसूर्य) १० । १५ । ३ । २१ मेंसे हीन किया शेष ११ । ५ । ३६ । ० भौमका चेष्टाकेन्द्र हुआ एवं बुधके मध्यमस्पष्टके योगके अर्ध १० । १२ । ५३ । ४९ को बुधके चलोच्च (बुधशीघ्रकेन्द्र ११ । २३ । ३१ । ९ में मध्यम सूर्य १० । १५ । ३ । २१ को मिलाया १० । ८ । ३४ । ३० ये बुधका शीघ्रोच्च हुआ) १० । ८ । ३४ । ३० मेंसे हीन किया ११ । २५ । ४० । ४१ बुधका चेष्टाकेन्द्र हुआ—इसीप्रकार शेषग्रहोंका चेष्टाकेन्द्र जानना सूर्यके चेष्टाकेन्द्र २ । २२ । ३९ में १ राशी युक्तकरके अंशादिकोंको द्विगुणकिये ३ । १८ । ४५ । १८ सूर्यकी चेष्टारश्मि आई चंद्रका चेष्टाकेन्द्र ७ । १२ । २६ । १० छह राशीसे अधिक है अतएव १० घरा राशीमेंसे शेषा शेष ४ । १७ । ३३ । ५० हुवे इसीराशी ४ में १ मिलाया अंशादिकोंको द्विगुणकिये ५ । ३५ । ७ । ४० चंद्रकी चेष्टारश्मि आई एवं भौमादिक ग्रहोंकी चेष्टारश्मि समझना ॥ इति ।

अथ चैष्टारश्मिचक्रम् ।

सु.	च.	म.	जु.	ग.	शु.	श.	
		११	१०	३	१०	८	मध्यम ग्रहाः
		१२	१५	२	१५	२३	
		३९	३	४०	३	४४	
		४८	२१	१	२१	४६	
		११	१०	३	१	८	स्पष्ट ग्रह.
		६	१०	०	१२	२४	
		१४	४४	४३	२६	४८	
		५४	१८	१	८	२३	
		२२	२०	६	१९	१७	मध्य स्पष्ट योग.
		१८	२५	३	२७	१८	
		५४	४७	२३	२९	३३	
		४२	३९	२	२९	९	
		११	१०	३	९	८	मध्य स्पष्ट योगार्थ.
		९	१२	१	२८	२४	
		२७	५३	४१	४४	१६	
		२१	४९	३१	४४	३४	
		१०	१०	१०	७	१०	चलोच्च.
		१५	८	१५	२१	१५	
		३	३४	३	६	३	
		३१	३०	२१	२	२१	
२	७	११	१५	७	९	१	वेष्टा योग.
९	१२	५	२५	१३	२२	२०	
२२	२६	३६	४०	२१	२१	४६	
३९	१०	०	४१	५०	१८	४७	
३	५	१	१	५	३	२	वेष्टा रश्मि.
४८	३५	४८	८	३३	१५	४१	
४५	७	४८	३८	१६	१७	३३	
१८	४०	०	३८	२०	२४	३४	

उच्चरश्मिस्ताश्चन उदाहरण.

सूर्य १० । १६। ५३ । ३९ सूर्य-
की नीचराशी ६ । १० । ० । ० सूर्य-
मेंसे नीचको हीन करनेसे ६ छहराशीसे
अल्पशेष बचता है इसवास्ते सूर्यमेंसे नी-
चको हीन किया ४ । ६ । ५३ । ३९
इसकी राशी ४ में एक मिलाया अंशादि
कोंको दोगुणे किये ५ । १३ । ४७। १८
सूर्यकी उच्चरश्मि हुई इसीप्रकार शेष-
ग्रहोंकी उच्चरश्मि जानना ।

उच्चरश्मिचक्रम् ।

र	व	म	बु	गु	शु	श	ए
५	२	५	२	६	४	४	
१३	७	४३	८	५१	३०	५०	
४७	२०	३०	३१	२६	५३	२३	
१८	२०	१०	२४	०	१६	१३	

स्पष्टरश्मि उदाहरण.

सूर्यकी चेष्टारश्मि ३ । १८ । ४५ ।
 १८ सूर्यकी उच्चरश्मि ५ । १३ । ४७ ।
 १८ का योग किया ८ । ३२ । ३२ ।
 ३६ हुये इसको आ गकिया ४ । १६ ।

१६ । १८ आवे ये सूर्यकी स्पष्टरश्मि आई इसीप्रकार शेषग्रहोंकी स्पष्टरश्मि जानना. स्पष्टरश्मिका योग २० से अधिकहै इसकारण संपदावाच होगा ऐसा फल ममझना ॥ इति रश्मिसाधनम् ॥

अथ स्पष्टरश्मिचक्रम् ।

र	व	म	बु	गु	शु	श	ए
४	३	३	१	६	३	३	२७
१६	५१	४६	३८	१२	५३	४५	२३
१९	१४	९	३५	२१	४	५८	३८
१८	१	६	१	११	५०	२४	५१

अथायुर्दायानयनमाह ।

कलिकृत्यग्रहं तत्र द्विशतातिर्कशेषकाः ॥

समाः शेषाच्च मासाद्याद्वादशादिहतैः क्रमात् ॥ ३४ ॥

भाषाटीका--अत्र आयुर्दाय आनयनकी रीति कहतेहैं। ग्रहकी कैलो करके उसमें २०० दोसौका भागदेना लब्ध आवे उसके १२ बाराका भागदेना शेष बचे वह वर्ष जानना. तदनंतर कलाके दोसौका भाग देनेसे जो शेष बचेहै उनकी क्रमसे १२ । ३० । ६० गुणाकरके २०० दोसौका भागदेनेसे लब्ध आवे वे मासादिक जानना अर्थात् शेषको प्रथम १२ बारागुणाकरना २०० का भाग देना लब्ध आवे वह मास जानना शेष बचे उनको ३० तीसगुणाकरना २०० का भागदेना लब्ध दिन आवे फेर शेष बचे उनको ६० साठगुणाकरना २०० का भागदेना लब्ध घटी आवे शेषको फेर ६० साठगुणाकरना २०० का भागदेना लब्ध पल आवे ऐसे

१राशिको ३० तीसगुणाकरके अश्विदिना फेर उसको ६० साठगुणाकरके कला मिलानेसे होतीहै।

क्रमसे आवे जो वर्षमासादिक वह ग्रहकी वर्ष मास दिन घटी पल विपलात्मक मध्यायु समझना ॥ ३४ ॥ इसप्रकार लग्नसहित सूर्यादिग्रहोंकी मध्यायुसाधन करके स्पष्टायुसाधनके संस्कार आगे कहते हैं ।

स्थिरारिभे हरेऽयं वक्रचारं विना ग्रहः ॥

शुक्रार्कजान्यस्त्वस्तस्य अर्द्धं नीचक्षेपे दलम् ॥ ३५ ॥

भापाटीका—वक्रगति ग्रहके विना जो ग्रह स्थिरमैत्रीमें (नैसर्ग मैत्रीमें) शत्रु-राशिका होवे उस ग्रहकी आई हुई वर्षादि आयुमेंसे तृतीयांश (अपना तीसरा हिस्सा) हीन करगा और शुक्र शनिके विना अन्य (दूसरा) ग्रह अस्तका होवे तो उसकी आयुको आधी करना नीच राशिका ग्रह होवे तो उसकी आई हुई आयुका दल (अर्ध) करना ॥ ३५ ॥

वक्रोच्चगे तत्रिगुणं द्विनिघ्नं वर्गोत्तमस्वांशकभ्रिभागे ॥

द्वित्रिघ्नतायां त्रिगुणं सकृद्द्वै द्वित्रीलवोने द्विलवोनमायुः ॥ ३६ ॥

भापाटीका—वक्रगति ग्रह होवे वा उच्चराशिका होवे तो उस ग्रहकी वर्षादि आयुको त्रिगुण (३ तीनगुणी) करना और वर्गोत्तमी होवे वा स्वनवांशका होवे वा स्यराशिका होवे वा स्वद्रेष्काणका ग्रह होवे तो आईहुई वर्षादि आयुको द्विगुण (दोगुणी) करना और यदि जिस ग्रहकी वर्षादि आयुको द्विगुण करनेका और त्रिगुण करनेका दोनों योग आवे तो उस ग्रहकी आयुको पृथक् पृथक् २ दोगुणी और ३ तीनगुणी नहीं करना केवल एकही बार त्रिगुण (तीनगुणी) करना एवं ग्रहकी वर्षादि आयुमेंसे द्वितीयांश और तृतीयांश दोनों घटानेके योग आवे तो वर्षादिक आयुमेंसे केवल एकही बार द्वितीयांश (अपना अर्धभाग) हीन करना ॥ ३६ ॥

वामं व्ययात् सर्वदलत्रिपादं पंचाङ्गभागानशुभा हरन्ति ॥

संतोर्द्धमर्द्धं सवलम्बहूनामेकर्क्षगानामिति सत्यवाक्यम् ॥ ३७ ॥

भापाटीका—लग्नसे चारमें १२ स्थानको आदि ले सप्तम स्थानपर्यन्त उल्लटे

१ भागे श्लोक ३९ में कहा है—अथवा—जिस राशिका ग्रह होवे उसी राशिका नवशर्मि आवे उसे वर्गोत्तमी जानना ।

स्वामीगुरुज्ञवीक्षितयुताहोरावलोत्कटा भवति ॥ ४१ ॥

भाषाटीका—अथ लग्नका बल कहते हैं। लग्न अपने स्वीयसि अथवा बुधगुरुसे युक्त होवे वा दृष्ट होवे तो बलवान् होता है ॥ ४१ ॥ लोमशोक्तसप्तवर्गबलसारणीचक्रसमातिर्न दिया है उससेभी ग्रहोंका सप्तवर्ग बल जानना ॥ इत्यायुर्दापः ॥

उदाहरण.

सूर्य १० । १६ । ५३ । ३९ । की कला १९० । १३ । ३९ में २०० दो सौका भाग दिया लब्ध ९५ आये इनमें १२ वारिका भाग दिया शेष ११ रहे ये वर्ष हूये कलाके २०० का भाग देनेमें शेष १३ । ३९ वचे इनको १२ वारागुणे किये १६३ । ४८ हूये इनमें २०० भाग दिया लब्ध ० शून्य मात्र आये शेष १६३ । ४८ को ३० तीसगुणे किये ४९१४ । ० फेर २०० का भाग दिया लब्ध २४ दिन आये शेष ११४ । ० वचे इनको ६० साठगुणे किये ५८४० । ० हूये इन्में २०० का भाग दिया लब्ध ३४ घटी आई

कन्यायां बुधस्य तुहांशकेः सदा चिंतयन् ॥ २ ॥ परतत्रिकोणजातं पञ्चभिरेतैः स्वराशिनं परतः ॥ दशभिर्भागैर्नीवस्मत्रिकोणं धनुषि तत्परं स्वगृहम् ॥ ३ ॥ शुक्रस्य च तिपयोशात्रिकोणमपरं स्वभं तुलायां तु ॥ कुम्भे त्रिकोणं स्वगृहे रविनस्य रवेर्यथा सिद्धे ॥ ४ ॥ इति—सूर्य सिद्धराशिके २० वीस अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका २० अंशके उपरांत शेष १० अंशमें स्वराशिका होता है चन्द्र बुधभके तीन ३ अंशपर्यंत उच्चका ३ तीन अंशके नंतर शेष अंशमें मूलत्रिकोणका होता है, भीम मेघराशिके १२ अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका १२ के नंतर शेष अंशमें स्वराशिका होता है, बुध कन्याराशिके १५ पंद्रहा अंशपर्यंत उच्चका १५ पंद्रहा अंशके नंतर ५ पांच अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका ५ पांच अंशके नंतर शेष अंशमें (२० अंशके नंतर) स्वराशिका होता है, शुक्र धनराशिके १० अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका १० दश अंशके नंतर शेष अंशमें स्वराशिका होता है, एवं शुक्र तुला राशिके १५ अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका १५ पंद्रहा अंशके नंतर शेष अंशमें स्वराशिका होता है शनि कुंभराशिके २० वीस अंशपर्यंत मूलत्रिकोणराशिका २० अंशके नंतर शेष १० अंशमें स्वराशिका जानना—इति ।

र	ष	मं	कु	गु	शु	श	
मी	पू	मं	व.	ध.	शु	शु	राशयः
५	१	०	५	८	६	१०	
सू ३०	उ ३	मू. १३	उ. १५	सू १०	सू १५	सू ३०	अंशः
रव १०	सू २७	रव १८	सू. ५	रव २०	रव १५	रव १०	

हीन करनेका पूर्व कहा है वह हीन करना. शेष ग्रहोंकी आयुमेंसे उस स्थानका भाग हीन नहीं करना ऐसा सत्याचार्यका वचन है ॥ ३७ ॥

लग्ने बलढथे सहितं च वर्षैस्तुल्यैर्विलग्नस्य गृहैर्विधेयम् ॥

भागादिना भास्करसंगुणेन युक्तं दिनाद्यं भवति स्फुटं तत् ॥३८॥

भापाटीका—लग्न बलवान् होवे तो लग्नकी वर्षादि मध्यायुके वर्षके अंकमें लग्नकी राशीकी संख्याके समान (लग्न० राशीका होतो० शून्य९राशीका होतो० ९ नव ऐसे जिस राशीका हो उतनेही) वर्ष युक्त करना और लग्नके अंशादिक (अंशकला विकला) को १२ वारागुणा करके उसी वर्षादि मध्यायुके दिनादिकमें युक्त करना सो लग्नकी स्पष्टायु होवे ॥ ३८ ॥

और लग्न बलवान् नहीं होवे तो जो मध्यायु आवे वही स्पष्टायु समझना ।

चरभवनेष्वद्यंशाः स्थिरेषु मध्या द्विस्वभावेष्वन्त्याः वर्गोत्तमाः ३९

भापाटीका—अब वर्गोत्तमराशी कहते हैं चर(१।४।७।१०)राशियोंमें आष (प्रथम ३।२०) नवांशके अंश स्थिर (२।५।८।११) राशियोंमें मध्य (पांचमां १६।४०) नवांशके अंश द्विस्वभाव (३।६।९।१२) राशियोंमें अंत्य (नवमां ३०।०) नवमांशके अंश वर्गोत्तमांश होते हैं अर्थात् चरराशीका ग्रह प्रथम नवांशमें होवे तो वर्गोत्तमी होता है एवं स्थिर राशीका ग्रह पांचमें नवांश १६।४० में होवे तो वर्गोत्तमांशमें होता है और द्विस्वभाव राशीका ग्रह अंत्य नवांशमें (२६।४० के उपरान्त ३०।० पर्यंत नवम नवांशमें) होवे वह वर्गोत्तमांशमें होताह ॥ ३९ ॥

स्वर्क्षकेंद्रोत्तमांशस्थाः स्वांशमित्रांशकान्विताः ॥

परिपूर्णबलैर्युक्ताः स्वोच्चमूलत्रिकोणगाः ॥ ४० ॥

भापाटीका—अब ग्रहोंका बल कहते हैं। स्वराशीमें स्थित, केंद्र(१।४।७।१०) स्थानमें स्थित शुभग्रहोंके नवांशमें स्थित, स्वनवांशमें स्थित, मित्रनवांशयुक्त और अपनी उच्चराशी (श्लोक ३९ में कहा है) में स्थित और मूलत्रिकोणराशीमें स्थित ग्रह परिपूर्ण बलवान् होता है ॥ ४० ॥

१ आगे श्लोक ४१ में कहा है।

२ सारावल्याम्—विशतिरंशाः सिंह त्रिकोणमपरे स्वभवनमर्कस्य ॥ तच्च भागत्रितयं वृष-
इन्द्रोः स्वाभिकोणमर्कंशाः ॥ १ ॥ द्वादशभागा मेघे त्रिकोणमपरे स्वर्भे तु भौमस्य ॥ तच्चमघो

स्वामीगुरुज्ञवीक्षितयुताहोरावलोत्कटा भवति ॥ ४१ ॥

भाषाटीका—अब लग्नका बल कहते हैं। लग्न अपने स्वीमीसे अथवा बुधगुरुसे युक्त होये वा दृष्ट होये तो बलवान् होता है ॥ ४१ ॥ लोमशोक्तसप्तवर्गबलसारणीचक्रसमाप्तिमें दिया है उससेभी ग्रहोंका सप्तवर्ग बल जानना ॥ इत्यायुर्दायः ॥

उदाहरण.

सूर्य १० । १६ । ५३ । ३९ । की कला १९० । १३ । ३९ में २०० दो सौका भाग दिया लब्ध ९५ आये इनमें १२ बारेका भाग दिया शेष ११ रहे ये वर्ष हृषे कलाके २०० का भाग देनेसे शेष १३ । ३९ बचे इनको १२ बारागुणे किये १६३ । ४८ हुवे इनमें २०० भाग दिया लब्ध ० शून्य भाग आये शेष १६३ । ४८ को ३० तीसगुणे किये ४९१४ । ० फेर २०० का भाग दिया लब्ध २४ दिन आये शेष ११४ । ० बचे इनको ६० साठगुणे किये ५८४० । ० हुवे इनमें २०० का भाग दिया लब्ध ३४ घटी आई

कन्यायां बुधस्य तुल्लाशकेः सदा चित्तम् ॥ २ ॥ परतल्लिकोणजातं पञ्चमिरेशैः स्वराशिनं परतः ॥ दशभिर्भगिर्नीवस्य त्रिकोणं धनुषि तत्पर स्वगृहम् ॥ ३ ॥ शुक्रस्य च त्रिपयोशात्रिकोणमपरं स्वमं तुलायां तु ॥ कुम्भे त्रिकोणं स्वगृहे रविनस्य रवेर्यथा सिधे ॥ ४ ॥ इति—सूर्य सिंहराशिके २० वीस अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका २० अंशके उपरांत शेष १० अंशमें स्वगृही होता है चन्द्र वृषभके तीन ३ अंशपर्यंत उच्चका ३ तीन अंशके नंतर शेष अंशमें मूलत्रिकोणका होता है, मीम मेमराशिके १२ अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका १२ के नंतर शेष अंशमें स्वराशिका होता है, बुध कम्भाराशिके १५ पंदरा अंशपर्यंत उच्चका १५ पंदरा अंशके नंतर ५ पांच अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका ५ पांच अंशके नंतर शेष अंशमें (२० अंशके नंतर) स्वराशिका होता है, गुरु धनराशिके १० अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका १० दश अंशके नंतर शेष अंशमें स्वराशिका होता है, एवं शुक्र तुला राशिके १५ अंशपर्यंत मूलत्रिकोणका १५ पंदरा अंशके नंतर शेष अंशमें स्वराशिका होता है शनि कुमरा राशिके २० वीस अंशपर्यंत मूलत्रिकोणराशिका २० अंशके नंतर शेष १० अंशमें स्वराशिका जानना— इति ।

र	ब	म	पु	शु	शु	श	
मी ४	वृ १	म ०	व. ५	ध ८	शु ६	कु १०	राशयः
मू २० स्व १०	उ ३ मू २४	मू १३ स्व १८	उ. १५ मू. ५ स्व १०	मू १० स्व २०	मू १५ स्व १५	मू २० स्व १०	अंशः

शेष ४०।० वचे इनको फेर ६० साठगुणे किये २४००।० हुवे इनमें २०० का भाग दिया लब्ध १२ पल आई ऐसे क्रमसे ११।०।२४।३४। १२ वर्षादि सूर्यकी मध्यायु आई इसीप्रकार शेष चन्द्रादि ग्रहोंकी और लग्नकी वर्षादि आयु जानना—अब इसमें श्लोक ३५ के अनुसार सूर्य स्थिरमर्त्रीमें शत्रुकी राशीका है इसकारण सूर्यको वर्षादि ११।०।२४।३४।१२ आयु-

मध्यायुचक्रम् ।								मैसे अपना तृतीयांश (तीन-	
११	५	१०	९	३	०	७	४	म-	का भाग देके ३) ८ । ८।
०	९	१०	३	२	८	५	०	ध्या-	११।२४ घटाया ७।४।
२४	१७	१४	१९	१	२३	९	१५	यु	१६।२२।४८ सूर्यकी
३४	४०	५९	४४	२५	२	५	२७		स्पष्टायु हुई चंद्रमा वर्गोत्तमी
१२	१२	१२	३४	४८	३४	३४	०		है इसकारण श्लोक ३६ के
शुक्र	०	०	मंगल	०	०	०	०	अनुसार इसकी आयु ५।	
रा			रुध्र					९।१७।४०।१२	
श			वक्र					को द्विगुणकी ११।७।	
०	वर्गोत्त	०	वक्र	चन्द्र	चन्द्र	०	०	५।२०।२४ हुये इनमेंसे	
			वर्गोत्त	वर्गोत्त	वर्गोत्त			श्लोक ३७ के अनुसार	
	१ यु		२ यु	३ यु	२ यु			चन्द्र ९नवम स्थानमें स्थित	
				३ यु				है इसलिये ४ चतुर्थीश	
०	नवम	०	०	१५	०	१५	०	हीन करना परन्तु ये शुभ	
७	१०	१०	९	८	१	०	१५		
४	१	१०	०	१०	५	०	९		
१९	२०	१४	१९	३	१६	०	२७		
३३	३५	४०	४४	५५	४	०	१०		
४८	३१	१३	३४	५०	३८	०	०		

ग्रह हैं इस कारण वर्षादि आयुके आठका भाग देके १।५।१३।५५। १३ आयु हुवे अष्टमांशको हीन किया १०।१।२३।२५।२१ ये वर्षादि चंद्रकी स्पष्टायु आई सोमके श्लोक ३५।३६।३७ के अनुसार कोई संस्कारका योग नहीं है इसकारण जो मध्यायु १०।१०।१४।४९।१२ है वही स्पष्टायु जानना— बुध अस्तका है इसलिये बुधकी आयु ९।२।१९। ४४।२४।को आधी करके श्लोक ३६ के अनुसार ये स्वदेषकाणका है इनवास्ते दोनुगीकी दि ९।२।१९।४४।२४; ये बुधकी स्पष्टायु आई-

एवं गुरु वक्रगती है इसकी आयुको श्लोक ३६ के अनुसार ३ तीनगुणी करनेका और उच्चराशीका है इस कारण फेर ३ तीनगुणी करनेका और यही गुरु वर्षोत्तमांशका है इसलिये फेर २गुणी करनेका योग ३तीन प्राप्त हुये हैं अतएव "द्वित्रिघ्नतायां त्रिगुण सकृद्भै" इसके अनुसार गुरुकी वर्षादि आयु ३।२।१७।२५ । ४८को एकही वार ३ तीनगुणीकी ९ । ७।२२।१७।२४ हुई परंतु गुरु शुभग्रह है और ७ सप्तम स्थानमें स्थितहै इसकारण इसमें अपना वारमा हिस्सा ० । ९ । १९ । २१ । २७ हीन किया ८ । १० । २ । ५५ । ५७ ये गुरुकी स्पष्टायु हुई और शुक स्वद्रेष्काणका है इसलिये शुककी आयु ० । ८। २३।२।२४ को श्लोक ३६ के अनुसार द्विगुण करनेसे १।५।१६ । ४८ आये ये शुककी स्पष्टायु हुई एवं शनि वारमें स्थानमें स्थित है और यह अशुभ ग्रह है इसलिये इसकी आयु ५।९।५।२४ मेंसे सर्व (पूरि) आयु हीनकी शेष ०।०।०।०।० यह शनिकी स्पष्टायु हुई—वा लग्न बलवान् है इसलिये लग्नकी वर्षादि आयु ४।०।१५।२७ । ० के वर्षके ४अंक्रमें लग्नकी राशीकेसमान वर्ष ९ युक्त किये १३ वर्ष हुवे, शेषमासादिक ०।१५।२७।० में लग्नके अंसादिक २३ । २८। ३५ को वारामुणा करके आये हुये मासादि ९ । ११।४३ । ० युक्त किये १३।९।२७।१० । ० ये वर्षादिक लग्नकी स्पष्टायु हुई ॥ इत्यायुर्दायः ॥ स्पष्टायुयोग ६१ । ९ । ० । ३२।३०

अथ स्पष्टांशायुवक्रम् ।								
र	ब	म	धु	गु	शु	श	रु	ए
७	१०	१०	९	८	१	०	१२	६१
४	१	१०	२	१०	५	०	९	९
१६	२३	१४	१९	२	१६	०	२७	०
२२	२५	४९	४४	५५	४	०	१०	३२
४८	२१	१२	२४	५७	४८	०	०	३०

दशासाधनमाह.

तत्रादौ विंशोत्तरी दशा ।

रवेः ६ पडिन्दोर्दश १० सप्त ७ भ्रुभुवो
 ग्रनेऽवो १८ गोर्धिपणस्य षोडश १६

शनेर्नवाब्जा १९ नगभूमिता १७ विदो

नगा ७ स्तुकेतोरनलात्रस्याः २० कवेः ॥ ४२ ॥

भापाटीका—अथ दशासधन कहते हैं । जिसमें प्रथम विंशोत्तरी कहते हैं
रुद्रिका नक्षत्रको आदिले क्रमसे प्रथम सूर्यकी ६ छह वर्षकी दशा फेर चंद्रकी
१० वर्षकी मंगलकी ७ वर्षकी राहुकी १८ वर्षकी गुरुकी १६ वर्षकी शनिकी
१९ वर्षकी बुधकी १७ वर्षकी केतुकी ७ वर्षकी शुक्रकी २० वर्षकी दशा
जानना ॥ ४२ ॥

विंशोत्तरीदशाचक्रम् ।								
सू. ५	म. १०	म. ७	ग. १८	गु. १६	श. १९	बु. १७	क. ७	रु. २०
हृ	रो	मृ	आ	पुन	पुष्य	आ	म	पू
उत्तर	ह	चि	स्वा	वि	श	ज्ये	म	पू
ह	श	ध	श	प	उ	र	ज	भ.

अष्टोत्तरीदशा ।

रवेः ६ षडिन्दोस्तिथयो १५ ऽष्ट ८ भूमिवो

नगेन्दवो १७ ज्ञस्य शनेर्दिशो १० गुरोः ॥

नवेन्दवो १९ गोरवयः १२ समा सिते

धराश्विनो २१ वेदद्वुताशभे शिवात् ॥ ४३ ॥

भापाटीका—अष्टोत्तरीदशाके वर्षादि मान कहते हैं । आर्द्रानक्षत्रको आदिले
क्रमसे प्रथम चार नक्षत्र (आ०पु०पु०आ०) की सूर्यकी ६ वर्षकी दशा फेर तीन
नक्षत्र (म. पू. उ.) की चंद्रकी १५ वर्षकी फेर चार नक्षत्र (ह. चि. स्वा
वि.) की शौमकी ८ वर्षकी फेर तीन नक्षत्र (अ. ज्ये. मू.) की बुधकी १७
वर्षकी फेर चार नक्षत्र (पू. उ. ऽभि. श्र.) की शनिकी १० वर्षकी फेर तीन
नक्षत्र (ध. श. पू.) की गुरुकी १९ वर्षकी तदनंतर चार नक्षत्र (उ. रे. अ.
ध.) की राहुकी १२ वर्षकी तदनंतर तीन नक्षत्र (रु. रो. मृ.) की शुक्रकी
२१ वर्षकी अष्टोत्तरी दशा जानना ॥ ४३ ॥

अष्टोत्तरीदशा.							
र.	चं.	मं.	बु.	श.	गु.	रा.	सु.
६	१५	८	१७	१०	१९	१२	२१
आ.	म	ह.	ज.	पू.	ध.	उ.	सु.
पु.	पू.	वि.	ज्ये.	उ.	श.	रे.	री.
पु.	उ.	स्वा.	मू.	प्रमि.	पू.	न.	मू.
आ		वि.	श.	श.	भ.	भ.	

अथ योगिनी दशा ।

जनुर्भे त्रियुक्तेऽष्टतष्टे दशा मंगला पिंगला धान्यका भामरी च ॥
 ततो भद्रिकोल्का च सिद्धा क्रमात्संकटासन्निपिद्धाःसमेकैकवृद्धाः॥४४॥
 भाषाटीका--अथ योगिनी दशा कहते हैं। जन्म नक्षत्रकी संख्यामें तीन मिलाना
 आठका भाग देना एकको आदि ले शेष बचे तो क्रमसे १ मंगला २ पिंगला ३
 धान्या ४ भामरी ५ भद्रिका ६ उल्का ७ सिद्धा ८ संकटा दशा एक एक वर्ष
 बढ़ती हुई एक श्रेष्ठ एक नेष्ट इस क्रमसे जानना ॥ अर्थात् मंगला एक १ वर्षकी
 श्रेष्ठ, पिंगला २ वर्षकी नेष्ट, धान्या ३ वर्षकी श्रेष्ठ, भामरी ४ वर्षकी नेष्ट, भद्रिका
 ५ वर्षकी श्रेष्ठ, उल्का ६ वर्षकी नेष्ट, सिद्धा ७ वर्षकी श्रेष्ठ, संकटा ८ वर्षकी
 नेष्ट जानना ॥ ४४ ॥

योगिनीदशा.							
म.	वि.	धा.	भा.	भ.	उ.	सि.	सु.
चं.	र.	गु.	मं.	बु.	श.	शु.	रा.
१	२	३	४	५	६	७	८
आ.	पु.	पु.	अ.	भ.	क.	री.	मू.
वि.	स्वा.	वि.	शु.	म.	पू.	उ.	ह.
श.	ध.	श.	पू.भा.	ज्ये.	मू.	पू.भा.	उ.श.
			उ.भा.	रे.			

शुक्रेकेकस्य होरायां दिवा विंशोत्तरी दशा ॥

कृष्णे चन्द्रस्य होरायां रात्राषष्टोत्तरी मता ॥ ४५ ॥

अन्यथा योगिनी कार्या सदा कार्या महादशा ॥

भाषाटीका—अब दशाके योग कहते हैं। शुक्लपक्षका जन्म होवे और लग्नमें सूर्यकी होरा होवे तो विंशोत्तरी दशा करना एवं कृष्णपक्षमें जन्म होवे और लग्नमें चंद्रकी होवे रात्रिसमयमें जन्म हुवा होवे तो अष्टोत्तरी दशा करना ॥ ४५ ॥ इन दोनों योगोंका संभव नहीं होवे तो योगिनी दशा करना और महादशा सदा (सर्वदा) करना ॥

अथ दशाभुक्तभोग्यालयनमाह ।

चन्द्रस्य लिप्ता खाभ्रैर्भै ८०० लब्धाः स्युर्गततारकाः ॥ ४६ ॥

शेषा हताः स्वपाकाब्देर्हारिणात्ताः समादिकाः ॥

गता दशा ता पाकाब्दे अनिता भोग्यसंज्ञिता ॥ ४७ ॥

भाषाटीका—अब दशाके भुक्त भोग्य लानकी रीति कहते हैं। चंद्रमाकी कला करना आठसौका ८०० भाग देना लग्न आवे वह गत पक्षत्र जानना शेष रहे कला उसको अपनी दशाके वर्षसे (विंशोत्तरीके भुक्त भोग्य करना होवे तो श्लोक ४२ के अनुसार कृत्तिकाको आदिले गिननेसे जन्मनक्षत्र जिस ग्रहकी दशामें आया होवे उस दशामें जन्म हुवा ऐसा जानना। जिस ग्रहकी दशामें जन्म हुवा उसके दशाके वर्ष जितने हों उतने वर्षसे और योगिनीके भुक्त भोग्य करना होवे तो श्लोक ४४ के अनुसार जिस दशामें जन्म हुवा होवे उसके वर्षसे अष्टोत्तरी करना होवे तो श्लोक ४३ के अनुसार जिस ग्रहकी दशामें जन्म होवे उसको जितने वर्षकी दशा होवे उतने वर्षसे) गुणी करना हरका ८०० भाग देना लग्न आवे वह वर्ष जानना शेष बचे उनको १२ चारागुणे करना और ८०० आठसौका भाग देना लग्न मास आवे शेषको ३० तीसगुणे करना ८०० आठसौका भाग देना लग्न दिन आवे शेष बचे उनको ६० साठगुणे करना फेर ८०० आठसौका भाग देना लग्न आवे वह घटी जानना शेष बचे उसको फेर ६० साठ गुणा करना ८००का भाग देना लग्न आवे वह पल जानना ऐसे आवे जो वर्षादिक वह गतदशा (भुक्तदशा) होवे उस भुक्तदशाको दशाके वर्षमेंसे हीन करना (सोधना) शेष बचे वह भोग्य दशा समझना ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

१. विंशोत्तरी और योगिनीसे कुछ भिन्न रीति है इसकारण जहाजके भुक्त भाग्य लानकी रीति अलग भागे लिखा है ।

विंशोत्तरी दशाका उदाहरण ।

स्पष्ट चन्द्रमा ५ । २९ । १९ । ४९ इसकी कला १०७५९ । ४९ इसके ८०० आठसौका भागदिया लब्ध १३ आयि ये गतनक्षत्र हतत हुआ शेष कला ३५९ । ४९ बची इसको श्लोक ४२ के अनुसार लुत्तिकाको आदि ले गिनेसे जन्मनक्षत्र चिन्ना भौमकी दशामें आया इसलिये भौमके दशाके वर्ष ७ सातसे गुणे किये २५१८ । ४३ हुवे इनमें ८०० आठसौका भागदिया लब्ध ३ वर्ष आयि शेष ११८ । ४३ बचे इनको १२ धारागुणे किये १४२४ । ३६ हुवे इनमें ८०० आठसौका भागदिया लब्ध एक नास आया शेष ६२४ । ३६ को ३० तीसगुणे किये १८७३८ । ० हुवे ८०० आठसौका भागदिया लब्ध २३ दिन आयि शेष ३३८ । ० बचे इनको ६० साठगुणे किये २०२८० । ० हुवे इनमें ८०० आठसौका भागदिया लब्ध २५ घटी आई शेष २८० । ० को ६० साठगुणे किये १६८०० । ० हुवे फेर इनमें ८०० आठसौका भागदिया लब्ध २१ पल आई शेष ० शून्य बची—इनमकार वर्षादि ३।१।२३।२५।२१ भौमकी भुक्त दशा आई इसको दशाके वर्ष ७ मेंसे घटाई शेष ३ । १० । ६ । ३४ ३९ बची यह भागकी भोग्य दशा हुई ।

विंशोत्तरीदशायन्त्रम.						
भा	म	ग	घ	च	प	
७	७	१८	१६	१९	१७	
३	३	२१	३०	५६		वर्षादि
१	१०	१०	१०	१०		
२३	६	६	६	६		
२५	४	४	३४	३५		
२१	१९	२९	३९	३९		
१९०८	१९२	९५०	९६	९८०		सप्त
११३	१७२५	१८१५	१८०	१८०		शर.
१०	८	८	८	८		
१६	३३	३३	२३	२३		उत्तीर्णादि
५३	२८	२८	२८	२८		
३९	१८	१८	१८	१८		

योगिनी दशाका उदाहरण ।

जन्म नक्षत्रकी संख्या १४ में ३ तीन मिलिये १७ हुये आठका भाग दिव

शेष १ बचा इसलिये १ पंचली मंगला दशा वर्ष १ क्षीमे जन्म हुआ इसके वर्ष १ एकसे चंद्रमाकी कला १०७५९ । ४९ के आठसौका भाग देनेसे शेष बचे ३५९ । ४९ इनको गुणे किये ३५९ । ४९ हुये इनमें ८०० आठसौका भाग दिया लब्ध ० शून्य वर्ष आया शेष ३५९ । ४९ को क्रमसे १२ । ३० । ६० । ६० । गुणेकके ८००का भाग देके विंशोत्तरीवत् मात्तादिक लाये ये योगिनी मंगलाकी मुक्त दशा हुई ० । ५ । ११ । ५५ । ३ इसको मंगलाके वर्ष १ से हीन किया शेष ० । ६ । १८ । ४ । ५७ ये भोग्य दशा आई ।

योगिनीदशाचक्रम्.									
मं. भु.	सं. भो.	वि.	पा.	म्र.	म.	द.	सि.	शं.	
सं.	सं.	र	गु.	मं.	पु.	श.	गु.	रा.	
१	१	२	३	४	५	६	७	८	
०	०	२	५	९	१४	२०	२७	३५	
५	६	६	६	६	६	६	६	६	मयो.
११	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	गठ.
५३	४	४	४	४	४	४	४	४	वर्षा.
३	५७	५७	५७	५७	५७	५७	५७	५७	
१९२८	१९२९	१९३१	१९३४	१९३८	१९४३	१९४९	१९५६	१९६४	संगत्.
१७९३	१७९४	१७९६	१७९९	१८०३	१८०८	१८१४	१८२१	१८२९	शक.
१०	५	५	५	५	५	५	५	५	
१६	४	४	४	४	४	४	४	४	दशा-
५३	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	५८	योगि.
३९	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	
	५	२	२	२	२	२	२	२	फलम्.

अष्टोत्तरीदशा बनानेकी रीति कहते हैं ।

प्रथम चंद्रमाकी कला करना उसमें ८०० आठसौका भाग देना, लब्ध थाये यह गत नक्षत्र जानना शेष कला बचे उसको श्लो० ४३ के अनुसार जिस ग्रहकी दशामें जन्म हुआ होवे उस ग्रहके दशाके वर्षोंसे गुणनकरके आठसौ ८०० का भाग देके विंशोत्तरी दशावत् वर्षादि मुक्त दशा लाना तदनंतर उस मुक्त दशामें जितने नक्षत्रकी दशा हो उतनेका (चार नक्षत्रकी हो तो ४ चारका तीन ३ की होतो ३ तीनका) भाग देके वर्षादिक ५ फल लाना

आये वह एक नक्षत्रकी भुक्तदशा समझना फेर जितने नक्षत्रकी दशा होवे उसमेंसे जितनी संख्याके नक्षत्र गत होवे उतनी संख्यासे (१ एक गत होतो १ से २ वो होतो २ दोसे ३ हो तो ३तीनसे) जितने वर्षकी दशा होवे उन वर्षोंको गुणे करना और उसमें चार नक्षत्रकी दशा हो तो ४ का तीनकी होतो ३ तीनका भाग देना आवे जो वर्ष मास वह उपर आई हुई एक नक्षत्रकी भुक्तदशाके वर्षमासमें मिलाना सो स्पष्ट भुक्त दशा होवे उस भुक्तदशाको दशाके वर्षमेंसे हीन करना भोग्य दशा होवे परंतु चंद्रमाकी कला १५२०० पंदरा हजार दोसौसे अधिक होवे तो चंद्रमाकी कलामेंसे १५२०० पंदरा हजार दोसौ घटा देना शेष कला बचे

शनिदशानक्षत्रगुणव्यंशायक-				
१ पा	३ पा	५ पा	७ पा	नक्षत्र
८००	६००	२५३	७४६	भुवण्ड
०	०	२०	४०	शुक्रा
२ व	२ व	२ व	२ व	दशा
६ मा	६ मा	६ मा	६ मा	मा

उसमेंसे क्रमसे नीचे लिखे हुये कोष्टकमें जो नक्षत्रोंके ध्रुवके खंड हैं वे शोधना (हीन करना) जितने खंड निकले उतने निकाला जो खंड नहीं निकले वह अशुद्ध खंड समझना शेष बचे कला उसको ३० तीस-गुणी करना और अशुद्ध सण्डका भाग देके मास

दिन घटा पलात्मक चार फल लाना यदि मास १२ बारासे अधिक होवे तो मासमें १२ बारका भाग देना लब्ध आवे वह वर्ष शेष मासादि समझना ऐसे आये हुये वर्षादिकमें जितनी संख्याके खंड निकले होवे उतनीही प्रत्येक संख्याके २ दो वर्ष ६ मास मिलाना (अर्थात् एक खंड निकला होतो २ वर्ष ६ मास दो खंड निकले हो तो ५ वर्ष तीन खंड निकले हो तो ७ वर्ष ६ मास) आवे वह शनिकी भुक्त दशा समझना उसको अपने दशाके वर्ष १० मेंसे घटानेसे भोग्य दशा होवेगा. यह रीति केवल चंद्रमाकी कला १५२०० पंदरा हजार दोसौसे १७६०० सतरा हजार छः सौ पर्यंत होवे वहांतकही करना शेषमें नहीं करना अष्टोत्तरीदशाके भुक्त भोग्य होवे इति ।

अष्टोत्तरीदशा उदाहरण-

स्पष्टचंद्रमा ५ । २९ । १९ । ४९ इसकी कला १०७५९ । ४९ हुई इसमें ८०० आठसौका भाग दिया लब्ध १३ गत नक्षत्र आया शेष ३५९ । ४९ बचे इनको श्लोक ४३ के अनुसार हस्तको आदि ले चार नक्षत्रकी भौमकी दशामें जन्म-नक्षत्र चित्रा मिलता है इसलिये भौमकी दशाके वर्ष ८ आठसे गुणकिये २८।७८

३२ हुवे इनमें ८०० आठसौका भाग देके विंशोत्तरीदशावत् वर्षादि ३ । ७ । ५ ।
 २५ । २४ लाये इनमें भौमदशा ४ चार नक्षत्रकी है इसलिये चारका भाग दिया लब्ध
 वर्षादि ० । १० । २३ । ५१ । २१ आयेये एक नक्षत्रकी भुक्त दशा हुई तदनन्तर यह
 चार नक्षत्रकी दशा है इसमेंसे १ एक हस्त नक्षत्र गत है इसकारण १ एकसे दशाके
 वर्ष ८ को गुणे किये ८ हुवे इनमें ४ चारका भाग दिया लब्ध २ वर्ष आये ये
 एक नक्षत्रकी ऊपर आई हुई भुक्त दशा ० । १० । २३ । ५१ । २१ के वर्ष ० में युक्त
 किये तो वर्षादिक २ । १० । २३ । ५१ । २१ भौमकी स्पष्ट भुक्त दशा हुई इसको
 भौमके दशाके वर्ष ८ मेंसे घटाये शेष ५ । १ । ६ । ८ । ३९ भोग्यदशा हुई ।

शनिकी दशाका कल्पित उदाहरण.

शनिकी अष्टोत्तरीदशासाधन अभिजितनक्षत्रहोनेके कारण मित्ररीतिसे किया जा-
 ता है उसके बतानेकी युक्ति प्रथम कहीही है परंतु बालकोंके सुबोधार्थ उसका
 एक कल्पित उदाहरण कहते हैं, स्पष्टचंद्र ९ । १६ । ४० । ० इनकी कला-
 १७०२०० । ० सतराहजार दोसौ है यह कला पंद्राहजार दोसौ १५२०० । ०
 में अधिक है इसकारण चंद्रकी कला १७२०० मेंसे १५२०० । ० पंद्राहजार दोसौ
 घटादिये शेष २००० । ० कला चबौइसमेंसे पूर्वापाठाके ध्रुवके खंडके अंक ८०० । ०
 आठसौ घटाये शेष १२०० । ० बचे इसमेंसे फेर उत्तरापाठाके खंडके अंक ६००
 छसौ घटाये शेष ६०० । ० बचे इसमेंसे फेर अभिजितके खंडके अंक २५३ । २०
 घटाये ३४६ । ४० शेष बचे इसमेंसे ४ चतुर्थ खंड भ्रवणके अंक ७४६ । ४०
 नहीं निकलते हैं, इसलिये ये अशुद्धखंड हुआ शेष कला ३४६ । ४० को ३० तीस-
 गुणा करनेसे १०४०० । ० हुवे इनमें अशुद्धखंड ७४६ । ४० का भाग देके मा-
 सादि चार फल जाना है परंतु ये दोनुं भाज्य भाजक कलादिक हैं इसलिये
 सर्वाणित किये भाज्य ६२४००० भाजक ४४८०० सर्वाणित हुवे भाज्य
 ६२४००० में भाजक ४४८०० का भाग देके मास दिन घटी पलात्मक
 चार फल लाये १३ । २७ । ५१ । २५ आये— मास १३ वारासे
 अधिक है इसकारण १३ में १२ वाराका भाग दिया लब्ध १ वर्ष शेष १ मास
 हुआ ऐसे वर्षादिक १ । १ । २७ । ५१ । २५ आये इनमें पूर्वापाठा उत्तरापाठा

और अभिहित इन तीन नक्षत्रोंके ध्रुवखंडे कलामेंसे सूर्यहै इसलिये ७सातवर्षदृष्टः
मास मिलाये सोवर्षादि ८ । ७ । २७ । ५१ । २५ शनिकी मुक्तदशा आई—
इसको दशाके वर्ष १०मेंसे तीन की शेष १ । ४ । २ । ८ । ३५ वर्षादि प्रोग्य
दशा हुई—इति अष्टोत्तरी दशा उदाहरणम् ।

अष्टोत्तरीदशाचक्रम्.						
म. प्र.	मं. नं.	पु.	शु.	ग.	र.	
८	८	१७	१०	१९	१२	
२	५	२२	३२	५१	६३	
१०	१	१	१	१	१	वयोग
२३	६	६	६	६	६	
५१	८	८	८	८	८	तवर्षादि
२१	३९	३९	३९	३९	३९	
१९२८	१९३३	१९५०	१९६०	१९७२	१९९१	सात
१५१३	१७९८	१८१५	१८२५	१८४४	१८५६	षट्.
१०	११	११	११	११	११	
१६	२३	२३	२३	२३	२३	ततीर्णादि.
५३	२	२	२	२	२	
३९	१८	१८	१८	१८	१८	

अथांतर्दशासाधनमाह ।

दशा दशाहता कार्या स्वस्वमानेन भाजिता ॥

लब्धयंतर्दशा ज्ञेया वर्षाद्याः क्रमज्ञो बुधेः ॥ ४८ ॥

भापाटीका—अव अंतर्दशा बनानेकी युक्ति कहते हैं, दशाके वर्षको
दशाके वर्षसे गुणन करना और अपनी अपनी दशाके मानका भागदेना
लब्ध वर्षमासादिक आवे यह क्रमसे अपनी अपनी दशामें पंडित लोगोंने
अंतर्दशा जानना अर्थात्, विशोचरी महादशामें जिसग्रहमें अंतर्दशाचक्र
बनाना होवे उसग्रहके दशाके वर्षको विशोचरीके ९ नवही ग्रहोंके
दशाके वर्षसे क्रमसे गुणन करना और विशोचरी महादशाके मानका (१२०
एकसौ बीसका) भाग देना एवं अष्टोत्तरीमें जिस ग्रहमें अंतर्दशाचक्र बनाना
होवे उसग्रहके दशाके वर्षको अष्टोत्तरीके ८ आठहीग्रहोंके दशाके वर्षसे
क्रमसे गुणन करना और अष्टोत्तरीके मानका (१०८ एकसौ आठका) भाग

देना ऐसेही योगिनी दशामें जिस दशामें अंतर्दशाचक्र बनाना होवे उसदशाके वर्षको योगिनीके आठहो दशाके वर्षसे क्रमसे गुणन करना और योगिनी दशाके भागका (३६ छत्तीसका) भाग देना ऐसे जिसदशामें अंतर्दशा करना होवे उसका जो भाग होवे उसीका भाग देके क्रमसे वर्ष मासादि लाना आवे वह अपनी २ दशामें अपनी २ अंतर्दशा जानना ॥ ४८ ॥

उदाहरण ।

जैसे विंशोत्तरी सूर्य महादशामें अंतर्दशाचक्र बनाना है सूर्यमहादशाके वर्ष ६ है इस महादशाके वर्ष ६ को सूर्य दशाके वर्ष ६ से गुणन किये ३६ हुवे इनमें विंशोत्तरी दशाके मान १२० का भाग दिया लब्ध ० वर्ष शेष ३६ को १२ वारागुणे किये ४३२ हुवे १२० का भाग दिया लब्ध ३ मास आये शेष ७२ वचे इनको ३० तीसगुणे किये २१६० हुवे इनमें फिर १२० का भाग दिया लब्ध १८ दिन आये शेष ० वची इसको ६० गुणी करके १२० का भाग दिया लब्ध ० । ० घटी पल आई ऐसे वर्षादिक ० । ३ । १८ । ० । ० सूर्य महादशामें सूर्यकी अंतर्दशा आई—फेर सूर्य दशाके वर्ष ६ को चंद्रमहादशाके वर्ष १० से गुणेकिये ६० हुवे इनमें १२० एकसौ बीसका भाग देके वर्षादिक क्रमसे लाये ० । ६ । ० । ० ये सूर्य महादशामें चंद्रकी अंतर्दशा आई—एव दशाके वर्ष ६ को भौमदशाके वर्ष ७ सातसे गुणे किये ४२ हुवे १२० एकसौ बीसका भाग देके वर्षादिक लाये ० । ४ । ६ । ० । ० सूर्यमें भौमकी अंतर्दशा आई ऐसेही फेर सूर्य महादशाके वर्ष ६ को राहु दशाके वर्ष १८ अठारसे गुणन करनेसे १०८ आये इनमें दशाके मान १२० का भाग दिया लब्ध ० । १० । २४ । ० । ० सूर्य महादशामें राहुकी अंतर्दशा आई इसीप्रकार दशाके वर्ष ६ को गुरुदशाके वर्ष १६ से गुणके १२० का भाग देनेसे ० । ९ । १८ । ० । ० वर्षादिक सूर्यमें गुरुकी तथा शनीके वर्ष १९ से दशाके वर्ष ६ को गुणन करके दशाके मान १२० का भाग देनेसे वर्षादि ० । ११ । १२ । ० । ० शनिकी अंतर्दशा तथा बुधके वर्ष १७ से दशाके वर्ष ६ को गुणन करके १२० का भाग देनेसे ० । १० । ६ । ० । ० सूर्यमें बुधकी अंतर्दशा तथा दशाके वर्ष ६ को केतुकी दशाके वर्ष ७ गुणके १२० का भाग देनेसे ० । ४ । ६ । ० । ० केतकी ऐसेही दशाके वर्ष ६ को शुक्र महादशाके वर्ष २० से गुणन करके

भाद्रिकामध्येतर्दशा.								दलकामध्येतर्दशा.								
भ.	उ.	सि.	मं.	मं.	पि.	घा.	आ.	उ.	सि.	स.	मं.	पि.	घा.	आ.	भ.	
८	१०	११	१३	१	२	५	६	१०	१५	१६	२	५	६	८	१०	मा.
१०	०	२०	१०	२०	१०	०	२०	०	०	०	०	०	०	०	०	दि.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	
सिद्धामध्येतर्दशा.								संकटामध्येतर्दशा.								
सि.	सं.	म.	पि.	घा.	आ.	भ.	उ.	सं.	मं.	पि.	घा.	आ.	भ.	उ.	सि.	
१६	१८	२	५	७	९	११	१५	२१	२	५	८	१०	१३	१६	१८	मा.
२०	२०	२०	२०	०	२०	२०	०	१०	२०	१०	०	२०	१०	०	२०	दि.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	घ.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.

अथांतर्दशामध्ये विदज्ञानयनप्रकारमाह .

अन्तर्दशाया दिवसाः स्वस्ववर्षैः क्रमाद्भूताः ॥

स्वमानाद्द्वैर्दशा प्राप्ता विदज्ञा दिवसादिका ॥ ४९ ॥

भाषाटीका—अथ विंशोत्तर्यादि दशाकी अंतर्दशामें विदज्ञा करनेका प्रकार कहते हैं। अंतर्दशाके दिनोंको अपने अपने वर्षोंसे (विंशोत्तरीकी अंतर्दशाके दिनोंको विंशोत्तरीके सूर्यादि ग्रहोंके वर्षसे अष्टोत्तरीकी अंतर्दशाके दिनोंको अष्टोत्तरीके सूर्यादि ग्रहोंके वर्षसे योगिनीकी अंतर्दशाके दिनोंको योगिनीकी मंगलादि दशाके वर्षोंसे) क्रमसे गुणन करना और अपने अपने दशामानके वर्षोंका (विंशोत्तरीकी अंतर्दशामें विदज्ञासाधनमें विंशोत्तरीके मानके १५० एकसौ बीसका एवं अष्टोत्तरीमें १०८ का योगिनीमें ३६ का) भागदेना लब्ध आवे वह दिवसादिक (दिनादिक) विदज्ञा जानना ॥ ४९ ॥

शुक्रमध्ये शुधांतरं तन्मध्ये विदशा.										शुक्रमध्ये केवतंतरं तन्मध्ये विदशा.									
सु	ग	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु	
३	१	४	१	२	१	४	३	४	०	१	०	०	०	१	१	१	१	१	
२५	१०	१६	१०	८	१०	२	१८	९	१९	१६	१८	१९	२०	१४	२३	१०	१०	मा.	
३६	२६	०	४८	०	२६	२४	४८	१२	३६	०	४८	०	३६	२४	४८	१२	३६	दि.	
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.	
शुक्रमध्ये भृशंतरं तन्मध्ये विदशा.										शुक्रमध्ये रक्षंतरं तन्मध्ये विदशा.									
सु	ग	च	म	रा	सु	श	क	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु			
५	१	२	१	४	४	५	४	१	०	५	०	१	१	१	१	०	१		
१०	१८	२०	२६	२४	८	२	१६	२६	१४	२४	१६	१३	८	१५	१०	१६	१८		
०	०	०	०	०	०	०	०	०	३४	०	४८	१२	२४	३६	४८	०	०		
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
शुक्रमध्ये चंद्रांतरं तन्मध्ये विदशा.										शुक्रमध्ये भौगांतरं तन्मध्ये विदशा.									
च	म	रा	सु	श	क	शु	र	म	रा	सु	श	क	शु	र	च	म	रा		
१	०	२	२	२	२	०	२	०	१	१	१	१	१	०	१	०	०		
१०	२८	१२	४	१६	८	२८	२०	१४	१९	२०	१४	२३	१०	१९	२६	१६	२८		
०	०	०	०	०	०	०	०	३६	२४	४८	१२	३६	३६	०	४८	०	०		
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
शुक्रमध्ये राक्षंतरं तन्मध्ये विदशा.										शनिमध्ये शम्भंतरं तन्मध्ये विदशा.									
र	सु	श	क	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु	र	च	म	रा	सु		
४	३	४	२	१	४	१	२	१	५	५	२	६	१	३	४	५	४		
९	२५	१६	४	२०	२४	१३	१३	२०	२१	३	०	२४	०	३	३	१२	२४		
३६	१२	४८	२४	२४	०	१२	०	२४	१८	२५	१०	३०	९	१५	१०	२०	२४		
०	०	०	०	०	०	०	०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०		
शनिमध्ये शुधांतरं तन्मध्ये विदशा.										शनिमध्ये केवत तन्मध्ये विदशा.									
क	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु		
४	१	५	१	२	१	४	४	५	०	२	०	१	०	१	१	२	१		
१०	२६	११	१८	२०	२६	२५	९	३	२३	६	१९	३	२३	२९	२३	३	२६		
१६	३१	३०	३०	४५	३१	२१	१२	२५	१६	३०	५०	१५	२६	५१	१२	१०	३१		
३०	३०	०	०	०	३०	०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०		
शनिमध्ये शुक्रांतरं तन्मध्ये विदशा.										शनिमध्ये सुधांतरं तन्मध्ये विदशा.									
शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु	र	च	म	रा	सु	श	क	शु			
६	१	३	५	५	६	५	२	०	०	५	०	१	१	२	०	१			
१०	२०	५	६	२१	३	३	६	१०	२८	१९	२१	१५	२४	२	१	१०			
०	०	०	३०	०	३०	३०	३०	६	३०	५०	१८	३६	९	२०	५०	३०			
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०			

शुक्रमध्ये रव्यंतरं तन्मध्ये विदशा ।									शुक्रमध्ये चंद्रांतरं तन्मध्ये विदशा ।									
र	चं	मं	रा	शु	श	बु	के	शु	चं	मं	रा	शु	श	बु	के	शु	र	
०	१	०	१	१	१	१	०	२	१	१	२	२	३	२	१	३	१	मा.
१८	०	२१	२४	१८	१७	२१	२१	०	२०	५	०	२०	५	२५	५	१०	०	दि.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.
शुक्रमध्ये भौमांतरं तन्मध्ये विदशा ।									शुक्रमध्ये राहंतरं तन्मध्ये विदशा ।									
मं	रा	शु	श	बु	के	शु	र	चं	रा	शु	श	बु	के	शु	र	चं	मं	
०	२	१	२	१	०	२	०	१	५	५	५	५	२	६	१	३	२	मा.
२४	३	२६	६	२९	२४	१०	२१	५	१२	२४	२१	३	३	०	२४	०	३	दि.
३०	०	०	३०	३०	३०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.
शुक्रमध्ये सुर्वंतरं तन्मध्ये विदशा ।									शुक्रमध्ये शन्यंतरं तन्मध्ये विदशा ।									
शु	श	बु	के	शु	र	चं	मं	रा	श	बु	के	शु	र	चं	मं	रा	शु	
४	५	४	१	५	१	२	१	४	६	५	२	६	१	३	३	५	५	मा.
८	२	१६	२६	१०	२८	३०	२६	२४	०	११	६	१०	२७	५	६	२१	२	दि.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	३०	३०	३०	०	०	०	३०	०	०	प.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.
शुक्रमध्ये स्मिन्त्यांतरं तन्मध्ये विदशा ।									शुक्रमध्ये वेत्यंतरं तन्मध्ये विदशा ।									
बु	के	शु	र	चं	मं	रा	शु	श	के	शु	र	चं	मं	रा	शु	श	बु	
४	१	५	१	२	१	५	४	५	०	२	०	१	०	३	१	२	१	मा.
२४	२९	३०	२१	२५	२९	३	१६	११	२४	१०	२१	५	२४	३	२६	६	२९	दि.
३०	३०	०	०	०	३०	०	०	३०	३०	०	०	०	३०	०	३०	३०	३०	प.
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	प.

इति विंशोत्तरीमध्ये सर्वेषां ग्रहाणामंतर्दशामध्ये विदशा—एवं अष्टोत्तरीदीनामपिज्ञेया

उर्ध्वं स्थाप्यो जन्मशाकः शकाचो जन्मोत्पन्नः पद्मिनीप्राणनाथः ।

तद्वर्षाद्यंतर्दशाब्दादियुक्तं तस्मिन्शाके स्पष्टसूर्यो दशातिः॥५०॥इतिदशा

भाषाटीका—अत्र भुक्त भोग्यदशा अंतर्दशा विदशामें जन्मका शक और स्पष्टसूर्य जोडनेकी रीती कहते हैं ऊपर जन्मका शक लिखना और शकके नीचे जन्मसमयका स्पष्टसूर्य लिखना उसमें वर्षादिक भोग्यदशा युक्त करनेसे भोग्यदशाके उत्कर्ण समयका शक और सूर्य होनाहै ऐसेही दशाके आरंभका शक

और सूर्य अंतर्दशामें युक्त करनेसे अंतर्दशाके उत्तीर्ण समयका शक और सूर्य होता है और अंतर्दशाके आरंभका शक और सूर्य विदशामें युक्त करनेसे विदशाके उत्तीर्ण समयका शक और सूर्य होता है

उदाहरण ।

स्पष्ट है विंशोत्तरी योगिनी अष्टोत्तरी दशाके चक्रमें शक और सूर्य युक्त किया है उनचक्रसे समझना ।

इति दशांतर्दशाविदशानयनप्रकारः ।

अथागाम्यव्दसाधनम् ।

सौरवर्षदिनाद्येन हतेनाब्दाः कतुल्यजः ॥

जन्मोत्थद्युगणेनाढ्या ईज्याद्र्पमुखे गणः ॥ ५१ ॥

भापाटीका—अथ आगामि वर्षसाधन कहते हैं दिनादिक सौरवर्ष ३६५ । १५।३१।३० से गतवर्षोंको गुणन करना और उसमें जन्मसमयका बर्हातुल्यका साधयव अहर्गण युक्त करना गुरुवारकों आदिले वर्षके आरंभसमयका साधयव (वर्षप्रवेशकी इष्टपटी पल विपल सहित) अहर्गण होवे ॥ ५१ ॥

विश्वनाथः ।

गणोद्युक्तियुक्त्वाक्षिगोंगांशुक्तः त्रिपट्टभक्त आसावमैशुक्त
ऊर्ध्वः॥खरामैदता सैकशेषं तिथिःस्यात्फलं मासवृन्दं ततोऽथो
द्विनिघ्नात् ॥ ५२ ॥ रसागान्वितस्वेभनेत्राङ्क १२८ लब्धाविही
नादगाङ्गा ५७ तभागोन ऊर्ध्वः ॥ हतो भानुभिः १२ शेषकं यात
मासागताब्दाः फलंसेपुखेर्शं ११०५ शकःस्यात् ॥ ५३ ॥

भापाटीका—अहर्गणकों नीचे लिखके उसमें ३ तीन मिलाना और २ दो जगे लिखना एक जगे स्थापन किये उसमें ६१२ छः से बानवेका भाग देना लब्ध

१ इत्यनुत्पत्ता अहर्गण बर्नांतरी युक्ति भागें अंक ५४ में कही है ।

२ जन्मसमयकी इष्टपटी पल विपल सहित

३ अहर्गणके सातवा भाग देना शेष० बचे सो गुरुवार १ बचे तो शुक्रवार २ बचे तो शनिवार इसप्रकारके गुरुवारों आदि छे शेषबचे उद्यपर्यंत गिननेसे वर्षप्रवेशका शक होता है ।

आवे वह दूसरीजगे लिखे हैं उसमें युक्त करना और उसके ६३ तिरसठका भागदेना लब्ध आवे वह ऊनाह जानना—ऊनाहको ऊपर लिखे हुवे अहर्गणमें युक्त करना और ३० तीसका भागदेना शेष बचे उनमें १ एक मिलाना सो शुक्र ष प्रतिपदाको आदिले वर्षभवेशकी तिथि होवें और लब्ध आवे वह मास गण जानना—फेर मासगणको नीचे लिखना और उसको दो गुणा करना ५२ फेर उसमें ६६ छाछठ मिलाके दो जगे लिखना एक जगे ९२८ नोसो अट्टाईसका भागदेना लब्ध आवे वह दूसरी जगे लिखे हुवेमेंसे हीन करना शेष बचे उसके ६७ सतसठका भाग देना लब्ध आवे वह ऊपर लिखे हुवे मासगणमेंसे निकालना और उसमें १२ वाराका भागदेना शेष बचे वह चैत्रशुक्ल प्रतिपदाको आदिले गतमास जानना और लब्ध आवे वह गताब्द समूह जानना उनगताब्द समूहमें ११०५ इग्यारासो पांच मिलाना सो वर्षभवेशका शालिवाहन शक होवै ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

गणेशदेवज्ञः ।

विश्वेन्द्रम्यरुणैर्युक्तः १२३११३ ग्रहलाघव जो गणः । चक्रं नृपखाध्याढ्यं ४०१६ ब्रह्मतुल्योगणो भवेत् ॥ ५४ ॥

इत्यागाम्यद्भ्रमवेशः ।

भापाटीका—अब ग्रहलाघवके अहर्गणपर ब्रह्मतुल्यका अहर्गण साधनकरनेकी युक्ति गणेशदेवज्ञ कहते हैं ग्रहलाघवके अहर्गणमें १२३११३ मिलाके फेर उसमें चक्रमें ४०१६ को गुणन करके मिलाना सो ब्रह्मतुल्यका अहर्गण होवै ॥ ५४ ॥

उदाहरण ।

ग्रहलाघवका अहर्गण ४०३९ में १२३११३ मिलाये १२७१५२ हुवे इनमें ४०१६ को चक्र ३१ से गुणन करनेसे १२४४५६ आवे इनको युक्तकिये २५१६४८ हुवे ये ब्रह्मतुल्यका अहर्गण हुवा इनके नीचे जन्मसमयकी इष्टघटी ५६ पल ४८ विपल १८ लिखनेमे २५१६४८।५६।४८।१८सावयव ब्रह्मतुल्यका अहर्गण हुवा ऐसे प्रथम ब्रह्मतुल्यका अहर्गण साधन किया अब आगामि वर्ष ३१ मा साधन करना है उसका उदाहरण ये है दिना-

दिक सौर वर्ष ३६५।१५।३१।३० से गताद्वसंख्या ३० को गुणन किये १०९५७।४५।४५।० हुवे इनमें जन्मसमयका सावयव ब्रह्मतुल्यका अहर्गण २५१६४८।५६।४८।१८ युक्त किया २६२६०६।४२।३३।१८ ये वर्षा-रंभसमयका सावयव अहर्गण हुवा अहर्गण २६२६०६ में ७ सातका भाग दिया शेष १ एक बच्चा गुरुवारको आदिले गिननेसे शुक्रवार आया इसलिये शुक्रवारके दिन इष्ट घटी ४२ पल ३३ विपल १८ से वर्ष ३१ इकतीसमां प्रवेश होगा परंतु किस शकके कोनसे मासकी कोनतिथीमें प्रवेश होगा इसका निश्चय हानिके वास्ते आगे उदाहरण श्लोक ५२।५३ का लिखते हैं—

अहर्गण २६२६०६ को नीचे लिखा २६२६०६ इसमें ३ तीन मिलाये २६२६०९ हुवे इनको दो जगे लिखे २६२६०९ इसमें ६९२ छः सो बान-वेका भाग दिया लब्ध ३७९ आये इनको दूसरी जगे लिखे हुवे २६२६०९ में युक्त किये २६२९८८ हुवे इनमें ६३ तिरसठका भागदिया लब्ध ४१७४ ऊनाह आये इनको अहर्गण २६२६०६ में युक्त किये २६६७८० हुवे इसके ३० तीसका भाग दिया शेष २० बचे इनमें १ एक युक्त किया २१ हुवे ये वर्ष प्रवेशकी तिथी हुई अर्थात् २१ इकईसमी तिथिके दिन वर्षप्रवेश होगा २१ इकईसमी तिथी शुक प्रतिपदाको आदिले गिननेसे कृष्णपक्षकी ६ पष्ठीको आती है इसलिये कृष्णपक्षकी उठके दिन वर्षप्रवेश होगा । और ३० का भाग देनेसे लब्ध ८८९२ आये ये मासगण हुवा इसको नीचे लिखा ८८९२ दो गुणा किया १७७८४ इसमें ६६ छांछट मिलाये १७८५० हुवे इनको दो जगे लिखे १७८५० इसमें ९२८ नौ सो अठईसका भागदिया लब्ध १९आये ये दूसरी जगे लिखे १७८५० में हीनकिये शेष १७८३१ बचे इनकी ६७ सतसठका भागदिया लब्ध २६६ आये इनको मासगणमें ८८९२ में से घटाये शेष ८६२६ बचे इसके १२ चारका भागदिया शेष १० बचे इसलिये चैत्र शुक १ प्रतिपदाको आदिले गिननेसे माघ शुक प्रतिपदातक गत १० मास हुवे और माघशुक १ प्रतिपदाके आगे ११ माघमास वर्षप्रवेशका मास हुवा और लब्ध चारका भाग देनेसे आये ७१८ इनमें ११०५ युक्त किये १८२३ ये वर्ष प्रवेशका शालिवाहनशक हुवा—अर्थात्—शके १८२३ में—अमांत माघ

कृष्ण ६ पत्री शुक्रवारको श्रीसूर्योदयात् इष्टघट्यादि ४२।३३।१८ में ३१ इकतीसमां वर्षप्रवेश होगा. ऐसेही आभीष्ट गताब्दके सर्व आगामिवर्ष साधन करना ॥ इत्यागाम्यब्दप्रवेशः ।

विद्यालये मालवसंज्ञदेशे रत्नावतीरम्यनिवासवासी ॥

औदुम्बरः पाठकवंशजातः सुपूज्यविद्यान्वितनन्दरामः ॥५५ ॥

तत्पौत्रमन्त्रशास्त्रज्ञरेवाशङ्करसूनुता ॥

महादेवेन रचिता पत्रीमार्गे प्रदीपिका ॥ ५६ ॥

मावस्य शुक्लपञ्चम्यां शोके माझ्छर्कैर्मिते ॥

संपूर्णा भार्गवे चारे पत्रीभार्गप्रदीपिका ॥ ५७ ॥

भाषाटीका—विद्याकास्थान ऐसे मालवसंज्ञकदेशमें अतिरमणीय रत्नावती नगरी (रतलाम शहर) में निवास करनेवाले औदुम्बर ज्ञातीय पाठकवंशमें उत्पन्न उत्तम विद्यायुक्त नन्दरामजी हुये ॥ ५५ ॥ उनके पौत्र मोतीरामजीके पुत्र मन्त्रशास्त्रके जानने वाले रेवाशंकरजी हुये, उनके पुत्र महादेव ज्योतिर्विद्ने पत्रीमार्गप्रदीपिका नाम ग्रन्थ बनाया ॥ ५६ ॥ वह पत्रीमार्गप्रदीपिका शालिवाहन शके १७९५ सतरासे पंचाणवेशमें माघ शुक्ल पंचमी ज्ञुवारकेदिन संपूर्ण हुई ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहादेवकृतपत्रीमार्गप्रदीपिका संपूर्णा ॥

मार्गशीर्षसिते पक्षे द्वादश्यां गुरुचामरे ॥ कक्षपटभूमिते शाके कृतेऽय विवृति र्भया ॥ १ ॥

इति श्रीज्योतिर्विद्विरश्रीमन्महादेवकृतपत्रीमार्गप्रदीपिकायां तदात्मज श्रीनिवास ज्योतिर्विद्विरचितासोदाहरणभाषाटीका समाप्तमगमत् ॥

१ कटपयवर्गभनीरिहपिडाविरसरेरकाः ॥ नात्रि च शेष गून्य तथा स्वरे केवले कवितम् ॥ १ ॥ इस प्राचीन कारिकाके बचनानुसार म-के ५ अ-के ९ छ-के ७ क-को १ ऐसे मा झ छ क के अको का अद्धाना नामतो गति इस क्रमसे १७९५ सतरासे पंचानवे होते है-

अथ लोमशोक्तं सप्तवर्गबलचक्रम्.						
स्थ.	प्रमिष	पित्र	स्व	शत्रु	शत्रु	
२०	१८	१५	१०	७	६	
५	४	३	२	१	१	गुह.
०	३०	४५	३०	४५	१५	
२	१	१	१	०	०	होरा.
०	४८	३०	०	४२	३०	
३	२	२	२	१	०	द्रव्या.
०	४२	१५	३०	३	४५	
२	२	१	१	०	०	सप्त.
३०	१५	५२	१५	५२	३७	
		॥		॥	॥	
४	४	३	२	१	१	नवां.
३०	३	२२	१५	३५	७	
		॥		॥	॥	
२	१	१	१	०	०	द्वाद.
०	४८	३०	०	४२	३०	
१	०	०	०	०	०	त्रिंशत्.
०	५४	४५	३०	२१	१५	

दशवर्गसंज्ञा.

१	३	४	५	६	७	८	९	१०
पतिमातृ	श्वस्र	गोपुत्र	शिंहासन	पात्तवर्ग	द्वयलोकांश	द्वयलोकांश	शेषवत्	वेतिर्पात्र
चरकारकाः ।								
भाम	भमात्प	धाता	माता	पिता	पुत्र	प्राति	पत्नी	

सर्वे प्रदोमे अधिकं भद्राका हो यद् भामकारकं तस्यै अल्पभद्रं भद्राकेः कल्पयेत्कारकं गानना.
इति पञ्जीमार्गप्रदीपिका ।

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ

भापाटीका सहितं

श्रीमन्महादेवदैवज्ञविरचितं

वपदापकम् ।

नत्वा गुरुपदाभोजहेरम्बं शिवशारदम् ॥

वर्षदीपकग्रन्थस्य नृभापाविवृतिं लघुम् ॥ १ ॥

कुर्वे वै श्रीनिवासोऽहं बालानां सुखहेतवे ॥

यद्भोनें ममाज्ञानाद्विबुधाश्च क्षमन्तु तत् ॥ २ ॥

भापाकार विघ्नविनाशार्थं गुरु गणपतीको नमस्काररूप मंगलाचरण करके
भापारचनाके प्रयोजनपूर्वक क्षमापन मांगता है

श्रीगुरु (महादेवजी) के चरणकमलको हेरम्ब (गजानन) को शङ्कर और
शारदा (सरस्वति) को नमस्कार करके मैं श्रीनिवासशर्मा वर्षदीपकग्रन्थकी
बालकोंको सुखसे घोष होनेके लिये लघु (छोटीसी) भापाटीका करताहूँ, इसमें
यदि मेरे अज्ञानसे जो कुछ क्षति रही हो उसे पंडितलोग सारम्बार क्षमा करें,
यह प्रार्थना है ॥ १ ॥ २ ॥

प्रथम शिष्टाचारपरिपालनार्थं और निर्विघ्नतासे ग्रन्थपरिसमाप्त्यर्थं ग्रन्थकर्ता
स्वैष्टदेवको नमस्काररूप मंगलाचरण करते हैं ॥

श्रीगणेशं गुरुं नत्वा शुद्धां श्रीभुवनेश्वरीम् ॥

महादेवं महादेवः कुरुते वर्षदीपकम् ॥ १ ॥

भापाटीका—श्रीगणेशजीको गुरुजीको शुद्धस्फटिकसदृश निर्मलस्वरूपा श्री-
भुवनेश्वरीजीको और शंकरको नमस्कार करके महादेव ज्योतिर्वित् वर्षदीपक
(वर्षके गणितभागका प्रकाश करनेवाला दीपक) नाम ग्रन्थ करे हैं ॥ १ ॥

प्रतिवर्षं जन्मग्रहोदयात्पूर्वं जानीयात् ॥ २ ॥

भापाटीका--वर्षवर्षके प्रतिजन्मके इष्ट वार यह लग्नादि प्रथम जानना
(हरवर्ष बनानेके समय जन्माक्षरमें लिखेहुवे जन्मका वार इष्टघटी स्पष्टसूर्य लग्न
आदि पहले जानके वर्षके गणितका आरम्भ करना) ॥ २ ॥

सौरवर्षारंभाच्छकप्रवृत्तिर्वेदितव्या ॥ ३ ॥

भापाटीका—सौरवर्षके आरंभसे (मेघसंक्रांति जिस दिन प्रवेश होवे उस दिनसे) शककी प्रवृत्ति जानना ॥ तात्पर्य यह है कि चैत्रशुद्ध, प्रतिपदासे “ मघोः सितादीर्दिनमासवर्षपुगादिकानां युगपत्प्रवृत्तिः ” इत्यादि वचनोंसे जो मि-सम्बत् शककी प्रवृत्ति होती है तथापि “ वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरात् ” इस वचनसे जबतक मेघसंक्रांति प्रवेश न होवे तबतक शकप्रवेश नहीं होता इस कारण मेघसंक्रांतिके प्रवेशके प्रथम और चैत्रशुद्ध १ प्रतिपदाके अन्तरका वर्ष करना हो तो पिछाडीके शकसे करना ॥ जैसे सम्बत् १९५५ में मेघसंक्रांति वैशाखकृष्ण ६ पटी भीमवारके दिन प्रवेश हुई है उसी दिनसे १८२० का शक प्रवेश हुआ इसलिये वर्षसाधनमें वैशाखकृष्ण ६ पट्टिके पहले शके ॥ १८१९ ॥ ही मानके वर्ष करना ॥ ३ ॥

इष्टशके जनुः शकहीने गताब्दाः ॥ ४ ॥

भापाटीका—अर्थात्शकमेंने (जिस शकका वर्ष करना हो उस शकमेंसे) जन्मसमयका शक हीन करनेसे शेष बचे वह गताब्द (गतवर्ष) होवे ॥ ४ ॥

जन्मार्कतुल्योको यत्समये वर्षप्रवेशस्तत्रैव ॥ ५ ॥

भापाटीका—जन्मसमयके सूयके समान (बरोबर) सूर्य जिसदिन जिस समय आवे उसदिन उससमयही वर्षप्रवेश होता है ॥ ५ ॥

याताब्दाः सप्ताधिकसहस्रहताः स्वाध्रे भासा जन्मवारादि

युता वर्षप्रवेशवारादिवोधकाः ॥ ६ ॥

भापाटीका—गताब्दोंको (गतवर्षोंको) १००७ एक हजारसातसे गुणे करना ८०० आठसेका भागदेना लब्ध आये हूवे वार घटी पल विपलात्मक चार फलमें जन्मसमयके वारादिक (वार इष्ट घटी पल विपल) युक्त करना वर्षप्रवेशके वारादिक (वार इष्ट घटी पल विपल) का बोधहोवे अर्थात् (गत वर्षोंको १००७ एक हजार सात गुणे करके ८०० आठसेका भागदेना लब्ध आये वह वार जानना शेष बचे उनको ६० साठ गुणे करना और ८०० का भाग देना लब्ध घटी आवे शेष बचे उनको ६० साठ गुणे करना ८०० का भाग देना

१६ अंशके समान अंश और वर्ष प्रवेश का वार बुध अमांत माघरूप्य १४ के दिन मिलता है इसलिये सम्बत १९५६ शके १८२१ प्रवर्तमान्ये अमांत माघरूप्य १४ चतुर्दशी बुधवारके दिन श्री सूर्योदयात् घट्यादि इष्ट ११ १३० । १८ समयमें वर्ष २९ प्रवेश हुवा गताब्द २८

इति श्रीज्योतिर्विद्वरश्रीमन्महादेवकृतवर्षदीपकाख्यतामिन्द्रयथेतद्रज
श्रीनिवाहनिरचितायांसोदाहरणभाषात्र्याख्यायामब्दप्रवेशोघ्यायः
प्रथमः ॥ १ ॥

इष्टवारादिषु पातितगतपङ्क्तिवारादिषु शेषो दिनाद्ये धनम् ॥ १ ॥

भापाटीका—अपने इष्ट वारादिकमेंसे पिछाडीकी गई हुई समीपकी पंक्ति (अवधी) के वारादिक (वार इष्ट घटी पल) हीन करनेसे शेष बचे वह दिनादिक धन चालक होवे ॥ १ ॥

आगामि पङ्क्तिवारादिषु पातितेष्टवारादिषु शेषो दिनाद्यन्वणम् ॥ २ ॥

भापाटीका आगेकी पङ्क्तिके वारादिक (वार इष्टघटी पल) मेंसे पिछाडीके अपने इष्ट वारादिक हीन करनेसे शेष बचे वह दिनादिक ऋण चालक होवे ॥ २ ॥ (अवधीके वारादिकमेंसे अपने वारादिक हीन करनेसे ऋण और अपने वारादिकमेंसे अवधीके वारादिक घटागेसे धन चालक होता है)

दिनाद्ये गतित्रे पठ्यातेशादिस्तेन पङ्क्तिस्थग्रहे संस्कृते स्पष्टः
स्वगो वक्ते तु वैपरीत्यं संस्कृतौ ॥ ३ ॥

भापाटीका—दिनादिक चालकको गतिसे गुणन करना ६० साठका भाग देना आषे जो अंशादिकफल (अंश कला विकलात्मक ३ तीन फल) उनका पङ्क्ति (अवधी) के ग्रहमें संस्कार करनेसे (चालक धन हो तो युक्त और ऋण हो तो हीन करनेसे) स्पष्ट ग्रह होषे, और ग्रह वक्रगती होषे तो उन्ही अंशादिक फलोंका विपरीत संस्कार करना अर्थात् चालक धन हो तो ऋण और ऋण हो तो धन करना ॥ ३ ॥

गतर्शनाद्यः पष्टिशुद्धाः प्रथक् स्थाप्याः ॥ ४ ॥

भापाटीका—गत नक्षत्र (जिस नक्षत्रमें वर्ष प्रवेश हो वह इष्ट नक्षत्र इस्के पीछेका गयाहुवा गत नक्षत्र) को घटी पलोंका साठमेंसे शोधकर दोनमें लिखना ४ ॥

अथ जन्माङ्कम्.			
१२५	१०	५	६
१	७	३	४
२	४	५	६

जन्म पत्रका वर्षपत्र अभीष्टशक १८२१ का करणा है इतलिये शके १८२१ मेंसे जन्मशक १७९३ घटाया २८ शेष बचे गताब्द हुवे इनको १००७ से गुणे किये २८१९६ हुवे इनमें ८०० आठसेका भाग दिया लब्ध ३५ वार आये शेष १९६ बचे इनको ६० साठ गुणे किये ११७६० हुवे फेर इनमें ८०० आठसेका भाग दिया लब्ध १४ घटी आई शेष ५५० बचे इनको फेर ६० साठ गुणे किये ३३६०० हुवे ८०० का भाग दिया लब्ध पल ४२ आई शेष ० बची इस्को ६० गुणी करनेसे ० हुई ८०० का भाग दिया लब्ध ० शून्य विपल आई ० ऐसे आठसेका भाग देके लब्ध वार ३५ घटी १४ पल ४२ विपलात्मकचारफल आये इन्में जन्म समयके तौमवारके ३ इष्टघटी ५६ पल ४८ विपल १८ मिलाये ३९ । ११ । ३० । १८ हुवे वार ७ रातसे अधिक है अतः वार ३९ में सातका भाग दिया शेष ४ । ११ । ३० । १८ ये वर्ष प्रवेशके वार घटी पल विपल हुवे.

तिथि साधन ।

गताब्द २८ को ११ गुणे किये ३०८ हुवे इनको दो जगे लिखे ३०८ एक जगे १७० का भाग दिया लब्ध १ एक आया ये ३०८ में युक्त किया ३०९ हुवे इनमें रुष्णपक्षकी ४ चतुर्थीका जन्म है इससे शुरु प्रतिपदासे ४ पर्यंत गिननेसे जन्मतिथि १९ हुई ये मिलाये ३२८ हुवे इनमें ३० तीसका भाग दिया शेष २८ बचे ये वर्ष प्रवेशकी तिथि हुई शुरुप्रतिपदाको आदि ले गिननेसे २८ अठारसमी रुष्णपक्षकी १३ त्रयोदशी आई परंतु त्रयोदशीके दिनवर्ष प्रवेशका वार बुध नहि मिलता है इस कारण इममें १ एक तिथि युक्त करनेसे १४ चतुर्दशी हुई एवं तिथि निश्चय होनेके नंतर जन्म समयके स्पष्ट सूर्यकी १० राशी

१ रविवारसे वार गिने जाते हैं ।

१६ अंशके समान अंश और वर्ष प्रवेश का वार शुभ अमांत माघकृष्ण १४ के दिन मिलता है इसलिये सम्बत १९५६ शके १८२१ प्रवर्तमान्ये अमांत माघकृष्ण १४ चतुर्दशी शुभवारके दिन श्री गुर्योदयात् घट्यादि इष्ट ११ । ३० । १८ समयमें वर्ष २९ प्रवेश हुवा गताब्द २८

इति श्रीन्योतिर्विद्वरथमिन्महादेवकृतवर्षदीपकाख्यतानिःशेषेत्तद्वहन
श्रीनिवासविरचितायांसोदाहरणभाषाव्याख्यायामश्वमेशाध्यायः

प्रथमः ॥ १ ॥

इष्टवारादिषु पातितगतपङ्क्तिवारादिषु शेषो दिनाद्यो धनम् ॥ १ ॥

भापाटीका—अपने इष्ट वारादिकमेंसे पिछाठीकी गई हुई समीपकी पंक्ति (अवधी) के वारादिक (वार इष्ट घटी पल) हीन करनेसे शेष बचे वह दिनादिक धन चालक होवे ॥ १ ॥

आगामि पङ्क्तिवारादिषु पातितेष्टवारादिषु शेषो दिनाद्यत्रयणम् ॥ २ ॥

भापाटीका आगेकी पङ्क्तिके वारादिक (वार इष्टघटी पल) मेंसे पिछाठीके अपने इष्ट वारादिक हीन करनेसे शेष बचे वह दिनादिक ऋण चालक होवे ॥ २ ॥ (अवधीके वारादिकमेंसे अपने वारादिक हीन करनेसे ऋण और अपने वारादिकमेंसे अवधीके वारादिक घटानेसे धन चालक होता है)

दिनाद्ये गतिध्रे पष्ट्याप्तेशादिस्तेन पङ्क्तिस्थग्रहे संस्कृते स्पष्टः

खगो वक्रेतु वैपरीत्यं संस्कृतौ ॥ ३ ॥

भापाटीका—दिनादिक चालक को गतिसे गुणन करना ६० साठका भाग देना आवे जो अंशादिकफल (अंश कला विकलात्मक ३ तीन फल) उनका पाङ्के (अवधी) के ग्रहमें संस्कार करनेसे (चालक धन हो तो युक्त और ऋण हो तो हीन करनेसे) स्पष्ट ग्रह होवे, और ग्रह वक्रगती होवे तो उन्ही अंशादिक फलोंका विपरीत संस्कार करना अर्थात् चालक धन हो तो ऋण और ऋण हो तो धन करना ॥ ३ ॥

गतर्शनाड्यः पष्टिशुद्धाः प्रथक् स्थाप्याः ॥ ४ ॥

भापाटीका—गत नक्षत्र (जिस नक्षत्रमें वर्ष प्रवेश हो वह इष्ट नक्षत्र इसके पीछेका गयाहुवा गत नक्षत्र) को घटी पलोंको साठमेंसे शोधकर दो जगे लिखना ४ ॥

एकत्रेष्टघट्याब्धाभयातम् ॥ ५ ॥

भापाटीका—एक जगे इष्ट घटी पलयुक्त करना जयात होवे ॥ ५ ॥

इतरत्रेष्टर्क्षघट्याब्धाभभोगः ॥ ६ ॥

भापाटीका—दूसरी जगे इष्टनक्षत्र (इष्ट समयमें वर्तमान नक्षत्र) की घटी पलयुक्त करना भभोग होवे ॥ ६ ॥

पष्टिघ्नं भयातं भभोगेनाप्तं स्पष्टं भयातम् ॥ ७ ॥

भापाटीका—जयातको साठ ६० गुणा करना भभोगका भाग देना लब्ध घट्यादिक स्पष्ट जयात होवे (जयातको साठ गुणा करके भभोगका भाग देना लब्ध घटी आवे शेष बचे उनको ६० साठ गुणा करके फेर भभोगका भाग देना लब्ध पल आवे शेष बचे उनको साठगुणे करना फिर भभोगका भाग देना लब्ध विपल आवे ऐसे घट्यादिक फल तीन आवे वह स्पष्ट जयात जानना) ॥ ७ ॥

गतर्क्षसंख्या पष्टिघ्ना भयातान्विता द्विघ्ना नवाप्तोऽशादिरिदोः ॥ ८ ॥

भापाटीका—साठगुणी की हुई गत नक्षत्रकी संख्यामें स्पष्ट जयात युक्त करके द्विगुण (दोगुणा) करना और नवका भाग देना लब्ध आवे जो अंशादिक फल ३५-ह अंशादिक स्पष्ट चंद्रहोवे गत नक्षत्रकी संख्याको ६० साठ गुणी करके उसमें स्पष्ट जयात मिलाना और उसको दोगुणी करना उसको नव ९ का भाग देना लब्ध अंश आवे शेष बचे उनको साठगुणे करना नीचेकी पल मिला ना फेर ९ नवका भाग देना लब्ध कला आवे शेष बचे उनको फेर साठगुणे करना नीचे लिखी विपल मिलाना और ९ नवका भाग देना लब्ध आवे वह विकला जानना ऐसे अंश कला विकलात्मक फल तीन आवे वह स्पष्ट अंशादि चंद्र होवे अंशमें तीसका भाग देना लब्ध राशी शेष अंश समझना ॥ ८ ॥

स्रष्टाष्टभभोगेन भक्ता अंशात्मिका गतिः ॥ ९ ॥

भापाटीका—आठसौ ८०० भभोगका भाग देना लब्ध आवे फल तीन वह अंशादिक चंद्रकी स्पष्ट गति होवे (अंशको ६० साठ गुणे करके कला मिलानेसे कलादिकगती होवे) ॥ ९ ॥

जनुरुदयभादिषु भांकमात्रे गताब्दाकयोगेऽर्कभक्ते मुन्था ॥ १० ॥

भाषाटीका—राश्वदिक (राशि अंश कला विकलात्मक) जन्म लग्नकी केवल राशिः अंक मेंही गताइसख्याका अंक युक्त करना १२ वाराका भाग देना शेष बचे वह मुन्था जानना ॥ १० ॥

सूर्येकांशभोगकाले मुन्था पंचकला भुनक्ति ॥ ११ ॥

भाषाटीका—सूर्यके एक अंशके भोगसमयमें मुन्था पांच कला भोगतीहै (प्रतिदिन मुन्था ५ पांच कला चलतीहै) ॥ ११ ॥

उदाहरण-

अर्मांत माघ कृष्ण १४ चतुर्दशी बुधवारके दिन इष्ट ११।३०।१८। सेवर्ष प्रवेश हुवा इसके समीपकी पंक्ति (अवधि) पंचांगमें उसी दिन इष्ट २२ । १ फी है यह वर्षप्रवेशसमयसे आगेकी है इसलिये सूत्रके अनुसार अवधीके वारादिक ४ । २२ । १ मेंसे वर्षप्रवेशके इष्ट वारादिक ४ । ११ । ३० घटाये शेष ० । १० । ३१ बचे ये दिनादिक क्रम चालक हुवा— इस दिनादिक चालक ० । १० । ३१ को सूर्यकी गति

	६०	१९
६० । १९ से गोमूत्रिका लिखके गुणन किया सो ये आये		
	नंबर १ ०	० ४ नंबर
इनमें नंबर ६ के अंकमें ६० साठका भाग देके लब्ध ९ आये २ ६००		१९० ५
उनको नंबर पांचके अंकोंमें युक्त करके नंबर पांचके ३ १८६०		५८९ ६
अंकोंको नंबर ३ तीनके अंकमें और नंबर ४ चारके अंकोंको नंबर २ दोके		
६०	१९	
नंबर १ ०	अंकोंमें मिलाये सो ये हुये फिर नंबर ३ तीनके अंकमें ६०	
२ ६००	साठका भाग दिया लब्ध ३४ आये इनको नंबर दोके अंकोंमें	
३२०५९	मिलाये ६३४ हुये इनमें ६० साठका भाग दिया लब्ध १०	
	कला आई शेष ३४ विकला रही फिर कला १० में ६० साठ	
	का भाग दिया लब्ध ० अंश आया ऐसे साठका भाग देनेसे अंगादिक ० ।	
	१० । ३४ फल आये इनको अवधीमें स्थित सूर्य १० । १७ । ४ । ७ में	
	क्रम किये १० । १६ । ५३ । ३३ शेष बचे ये स्पष्ट सूर्य हुवा इमीप्रकार	

शेष सर्व ग्रह किये परंतु राहु वक्रगती है इसकारण राहुकी गति ३ । ११ से चालक ० । १० । ३१ को उक्त रीतिसे गुणन करके ६० साठका भाग देके आये हुये ० । ० । ३४ अंशादिक फलोंका अवधीमें स्थित राहु ७ । २३ । ४० । ४० में विपरीत संस्कार किया अर्थात् चालक ऋण हैं इसकारण धन किया ७ । २३ । ४३ । १४ राहु स्पष्ट हुवा ।

स्पष्ट चन्द्र साधन

वर्षप्रवेशके दिन धनिष्ठाघटका दिक ३७ । ५६ है—वर्ष प्रवेश धनिष्ठा नक्षत्र में हुवा है अतएव धनिष्ठा इष्टनक्षत्र और श्रवण गतनक्षत्र हुआ—गतनक्षत्र श्रवण की घटी ४१ पल ५१ को मूत्र ४ के अनुसार ६० साठ घटीमेंसे हीन किया १८ । ९ शेष बचे इनकी दो जगे लिखे १८ । ९ एक जगे इष्टघटी ११ । ३०

युक्त की २९ । ३९ भयात हुवा दूसरी जगे इष्ट १८ ११ इष्ट. २९ भया-
९ ३० घटी. ३९ त.

नक्षत्र धनिष्ठाकी घटी ३७ पल ५६ मिलाई ५६
५ भोग हुवा— भयातको ६० साठ गुणा करके १८ ३७ इष्टनक्षत्र. ५६ भोग-
९ ५६ घटी. ५ ग.

भोगका भाग देना है परंतु भयात भोग दोनों घट्यादिक है अतःप्रथम इन को सर्वांगित किये भयात १७७९ भोग ३३६५ हुवे तदनंतर भयात १७७९ को ६० साठ गुणा किया १०६७४० हुवे इनमें भोग ३३६५ का भाग दिया लब्ध ३१ घटी आई शेष २४२५ बचे इनको ६० साठ गुणे किये १४५५०० हुवे भोग ३३६५ का भाग दिया लब्ध ४३ पल हुई शेष ८०५ बचे उनको ६० साठ गुणे किये ४८३०० हुवे इनमें फेर ३३६५ का भाग दिया लब्ध १४ विपल आई ऐसे घट्यादिक ३१ । ४३ । १४ स्पष्ट भयात हुआ तदनंतर अश्विनीसे गत नक्षत्र श्रवण पर्यंत गिननेसे २२ संख्या आई ये गत नक्षत्रकी संख्या आई इसको ६० साठ गुणीकी १३२० हुई इसमें स्पष्ट भयात ३१ । ४३ । १४ युक्त किया १३५१ । ४३ । १४ हुवे इनको २ द्विगुण किये २७०३ । २६ । २८ हुवे इनमें ९ नवका भाग दिया लब्ध ३०० अंश आये शेष ३ बचे इनको ६० साठ गुणे किये १८० हुवे इनमें नीचेके पल के अंक २६ मिलाये २०६ हुवे इनमें नवका भाग दिया लब्ध २२ कला आई शेष ८ बचे इनको ६० साठ गुणे किये ४८० हुवे विपलके अंक २८

मिलाये ५०८ हुवे ९ का भाग दिया ५६ विकला आई शेष ९ का भाग देके उक्तरीतिमे अंशादिक फल ३ लाये ३००।२२।५६ ये अंशादिक स्पष्ट चंद्र हुवा अंशमें ३० तीसका भाग दिया लब्ध १० राशी शेष अंश०बचे इसप्रकार स्पष्ट-चंद्र १०।०।२२।५६ राश्यादिक हुवा ।

गतिसाधन ।

आठसौ ८००।० में मभोग ५६।५ का भाग दिया परंतु दोनु घट्यादिक है इसलिये दोनोंको प्रथम सवर्णित किये भाज्य ४८००० भाजक ३३६५ हुवे भाज्यमें भाजकका भाग दिया लब्ध अंशादिक १४।१५।५२ चंद्रकी स्पष्ट गति हुई अंश १४ को ६० साठगुणे करके १५ मिलानसे ८५५।५२ कलादिक गति हुई.

मुंथासाधन ।

जन्मलग्न ९।२३।२८।२९ की राशी ९ के अंकमें गताब्द संख्या २८ युक्त किये ३७।२३।२८।२९ हुवे १२ वाराका भाग दिया शेष १।२३।२८।२९ मुंथा हुई गती ५।०

अथ स्पष्टाः ग्रहाः सलवा० ।										
सु.	चं.	म.	बु.	गु.	शु.	श.	रा.	क.	मृ.	
१०	१०	१०	११	७	११	८	७	१	१	
१६	०	७	१	१८	२५	९	२३	२३	२२	
५३	२२	३१	३५	५६	०	५४	४१	४१	२८	
३९	५६	३६	८	५५	४८	५९	१३	१३	२९	
६०	८५५	४८	७५	५	७१	४	३५	३५	५	
१९	५२	५०	३२	३२	३२	९	११	११	०	

नागर्शा गोङ्कवस्त्रास्त्रिदन्ताः क्रमोत्क्रमा मेपादीनां लंकोदयपलानि ॥ १२ ॥

भाषाटीका—नाग कहिये ८ वक्ष कहिये ०७ ऐसे २७८ गो कहिये ९ अंक कहिये ९ दस कहिये ० ऐसे २९९ त्रि कहिये तीन ३ दंत कहिये ३२ ऐसे ३२३ ये क्रमसे और उत्क्रम (उलट्टे) से मेपादिक राशियोंके लंकोदय पल जानना ॥ १२ ॥

शेष सर्व ग्रह किये परंतु राहु वक्रगती है इसकारण राहुकी गति ३ । ११ में चालक ० । १० । ३१ को उक्त रीतिसे गुणन करके ६० साठका भाग देके आये हुये ० । ० । ३४ अंशादिक फलोंका अन्धीमें स्थित राहु ७ । २३ । ४० । ४० में विपरीत संस्कार किया अर्थात् चालक ऋण हैं इसकारण धन किया ७ । २३ । ४३ । १४ राहु स्पष्ट हुवा ।

स्पष्ट चन्द्र साधन

वर्षप्रवेशके दिन धनिष्ठाघट्या दिक ३७ । ५६ है—वर्ष प्रवेश धनिष्ठा नक्षत्र में हुवा है अतएव धनिष्ठा इष्टनक्षत्र और श्रवण गतनक्षत्र हुवा—गतनक्षत्र श्रवण की घटी ४१ पल ५१ को मूत्र ४ के अनुसार ६० साठ घटीमेंसे हीन किया १८ । ९ शेष बचे इनको दो जगे लिखे १८ । ९ एक जगे इष्टघटी ११ । ३०

युक्त की २९ । ३९ भयात हुवा दूसरी जगे इष्ट नक्षत्र धनिष्ठाकी घटी ३७ पल ५६ मिलाई ५६ ५ भोग हुवा— भयातको ६० साठ गुणा करके

१८	३९ इष्ट.	३९ भया-
९	३० घटी.	३९ त.
१८	३७ इष्टनक्षत्र.	५६ भोग-
९	५६ घटी.	५ ग.

भोगका भाग देना है परंतु भयात भोग दोनों घट्यादिक है अतःप्रथम इन को स्वर्णित किये भयात १७७९ भोग ३३६५ हुवे तदनंतर भयात १७७९ को ६० साठ गुणा किया १०६७४० हुवे इनमें भोग ३३६५ का भाग दिया लब्ध ३१ घटी आई शेष २४२५ बचे इनको ६० साठ गुणे किये १४५५०० हुवे भोग ३३६५ का भाग दिया लब्ध ४३ पल हुई शेष ८०५ बचे उनको ६० साठ गुणे किये ४८३०० हुवे इनमें फेर ३३६५ का भाग दिया लब्ध १४ विपल आई ऐसे घट्यादिक ३१ । ४३ । १४ स्पष्ट भयात हुआ तदनंतर अश्विनीसे गत नक्षत्र श्रवण पर्यंत गिननेसे २२ संख्या आई ये गत नक्षत्रकी संख्या आई इसकी ६० साठ गुणीकी १३२० हुई इसमें स्पष्ट भयात ३१ । ४३ । १४ युक्त किया १३५३ । ४३ । १४ हुवे इनको २ दिगुण किये २७०३ । २६ । २८ हुवे इनमें ९ नवका भाग दिया लब्ध ३०० अंश आये शेष ३ बचे इनको ६० साठ गुणे किये १८० हुवे इनमें नीचेके पल के अंक २६ मिलाये २०६ हुवे इनमें नवका भाग दिया लब्ध २२ कला आई शेष ८ बचे इनको ६० साठ गुणे किये ४८० हुवे विपलके अंक २८

लंकोदयोकी पलादिकगतिता चक्र.											
मे.०	वृ.१	मि. २	क. ३	सि ४	क. ५	तु ६	वृ. ७	घ. ८	म. ९	कु १०	मी. ११
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	९	१०	१०	९	९	९	९	१०	१०	९	९
१६	५८	४६	४६	५८	१६	१६	५८	४६	४६	५८	१६
रतलामशहरके स्वदेशोदयोकी पलादिकगतिता चक्र.											
मे.०	वृ.१	मि. २	क. ३	सि ४	क. ५	तु ६	वृ. ७	घ. ८	म. ९	कु.१०	मी.११
०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	८	२०	११	११	१०	१०	११	११	१०	८	७
३४	३६	१२	२०	२०	५८	५८	२०	२०	१२	३६	३४

शके वेदेवेदाध्युनेऽयनांशकला ॥ १५ ॥

भापाटीका—शकमसे ४४४ चारसे च्मालिस हीन करना शेष बचे वह अयनांशकला होती है (कलाके ६० साठका भाग देना लब्ध अंश शेष कला समझना) ॥ १५ ॥
उदाहरण ।

जैसे शके १८२१ का अयनांश करना है अतः शके १८२१ मसे ४४४ चारसे च्मालिस हीन किये १३७७ ये अयनांश कला दुई इसके ६० का भाग दिया लब्ध २२ अंश शेष ५७ कला बची यह अंशादिक अयनांश हुआ ॥ १५ ॥

अयनांशहीने चक्रांशोऽवशिष्टांशाधस्ताच्छून्यत्रयं लेख्यम् ॥ १६ ॥

भापाटीका—अयनांशको चक्रांश (३६० अंशों) मसे हीन करना शेष बचे हुवे अंशके नीचे तीन शून्य लिखना ॥ १६ ॥

तत्तस्मिंश्चिंशदंशकोष्टकेषु मेपादिगतियोगे भावाक्षपत्रे ॥ १७ ॥

भापाटीका—तदनंतर तीसरे अंशके कोष्ठक्रमे लंकोदय और स्वदेशोदयकी मेपादिक राशियोंकी पलादिक गति क्रमसे (प्रथम मेपकी तदनंतर वृषभकी फेर मिथुन कर्क सिंह इस क्रमसे चारहों राशियोंकी पलादिक गती) युन करना भावपत्र और लग्नपत्र होवे अर्थात् लंकोदयोंकी मेपादिक राशियोंकी पलादिक गति युक्त करनेसे भावपत्र और स्वदेशोदयकी मेपादिक राशियोंकी गति क्रमसे युक्त करनेसे लग्नपत्र होना है ॥ १७ ॥
उदाहरण ।

प्रथम तीसरेसाठ ३६० कोष्टकेके दो चक्र बनाना उनके दक्षिण तरफ मेपादि १२ बाराराशी लिखना ऊपर० शून्यकी आदि ले २९ गुनतीमपथन अंश लिखना तदनंतर अयनांश हीन करना ३६० तीसरेसाठ अंशमसे और जो शेष बचे उस कोष्ठके तीसका भाग देना लब्धगांश शेष अंश बचेंगे उस राशी

लग्नपत्रं रत्नपुरे पलभा ६ । अयनांश २३ । ० । ० चरखंड २१ । ४१ । १७

रा.	मं.	मू.	मि.	मं.	मि.	मं.	मि.	मं.	मि.	मं.	मि.	मं.	मि.	मं.	मि.
०	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
६	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
९	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
१२	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
१५	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
१८	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
२१	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
२४	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
२७	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
३०	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
३३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
३६	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
३९	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
४२	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
४५	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
४८	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
५१	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
५४	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
५७	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
६०	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
६३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
६६	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
६९	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
७२	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
७५	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
७८	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
८१	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
८४	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
८७	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
९०	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
९३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
९६	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
९९	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३

भानुभांशं लग्नपत्रकोष्ठकमिष्टान्वितं तस्थूनकोष्ठं भांशं
 भानुकलाद्यन्वितं तत इष्टाल्पकोष्ठांतरेल्प्यकोष्ठांतरेणात्-
 मंशादिफलं पूर्वत्र योजितं लग्नं भवेत् ॥ १८ ॥

भापाटीका—सूर्यकी राशी अंश प्रमाण लग्नपत्रके कोष्टकमें इष्ट घटी पल विपल युक्त करना (उससे इष्ट युक्त किये हुये कोष्टकसे) अल्पकोष्टकके राशी अंश लेना (जिस कोष्टकमें इष्ट युक्त किये हुये कोष्टकसे किञ्चित् न्यून अंक मिले उसके सामने जो राशी और ऊपर जो अंश होवे वे अंश लेना) राशी अंशके नीचे स्पष्ट सूर्यकी कलाधिकला युक्त करना तदनंतर इष्ट युक्त किये हुये कोष्टक और अल्प कोष्टकके अन्तर करे इष्टयुक्त कोष्टकमेंसे अल्पकोष्टकको हीन करे शेष बचे उसमें अल्पकोष्टक और उसके आगेका ऐष्य कोष्टकका अंतर करके भाग देना लब्ध आवेशो अंशादिक फल ३ तीन वह प्रथम आवेश हुये राश्यादिकमें युक्त करना लग्न स्पष्ट होवे ॥ १८ ॥

लग्नपत्रस्थभानुभांशजकोष्टं स्वाधःस्थितसप्तमकोष्टकाद्धीनं
दिनमानम् ॥ १९ ॥

भापाटीका—सूर्यकी राशी अंशप्रमाण लग्नपत्रमें जो कोष्टक है उसको अपने नीचेके सातमें कोष्टकमेंसे हीन करना शेष बचे वह दिनमान जानना ॥ १९ ॥

तच्चपष्टिशुद्धं रात्रिमानम् ॥ २० ॥

भापाटीका—दिनमानको ६० साठमेंसे शोधना रात्रिमान होवे ॥ २० ॥

सूर्योदयादिष्टे रात्र्यर्द्धयुते तुर्यभावेष्टम् ॥ २१ ॥

भापाटीका—सूर्योदयात् घट्यादिक इष्ट समयमें रात्र्यर्द्ध (रात्रिमानका अर्द्ध) युक्त करना चतुर्थ भावका इष्ट होवे ॥ २१ ॥

एतदादाय भावपत्रतो लग्नवच्चतुर्थभावसाधनम् ॥ २२ ॥

भापाटीका—इसप्रकार चतुर्थ भावका इष्ट लाकरके भावपत्रेपर लग्नसाधनकी रीतिके अनुसार (जैसे लग्न लगने है उसी तरहसे) चतुर्थ भावका साधन करना ॥ २२ ॥

लग्नशोधिततुर्यपष्टांशो लग्ने पञ्चवारं योज्यस्ततस्तपष्टांशोरूपाच्छु-
द्धस्तुर्ये पंचवारं योजितश्चेद्भग्न्यादयस्तसंधयः पद्भवाः ॥ २३ ॥

भापाटीका—लग्न निकले हुये चतुर्थ भावके पष्टांशको (चतुर्थ भावमेंसे लग्नको हीन करना शेष बचे राश्यादिक उसकी राशीके अंकमें ६ छका भाग देना लब्ध राशी आवेशोप बचे उनको तीस ३० गुणे करके नीचेके अंश मिलाना ६ छका भाग देना सप्तअंश आवेशोप बचे उनको ६० साठगुणे करके नीचेकी कला मिलाना फेर ६

छका भाग देना लब्ध कला आवे शेषबचे उनको ६० साठ गुणेकरके विकला मिलाना फेर ६ छका भाग देना लब्ध विकला आवे शेष बचे उनको फिर ६० साठ गुणेकरके ६ छका भाग देना लब्ध आवे वह प्रतिविकला जानना—ऐसे ६ छका भाग देनेसे राश्यादिक फल आवे वह पठांश होता है उस पठांशको लगमें पांचवार युक्त करना तदनंतर फिर उस पठांशको एकराशिमेंसे (१।०।०।०।०) शोधके चतुर्थ भावमें पांचवार मिलावे तो लगको आदिले संधीसहित ६ छ भाव होवे ॥ २३ ॥

एते पद्भोनाः शेषाः पद्भावाः ॥ २४ ॥

भापाटीका—इन छही भावोंमेंसे छः छः राशी हीन करनेसे शेष रहे हुवे छहों भाव होवे ॥ २४ ॥

ग्रहःस्वाधिष्ठितभावारम्भसंधितो न्यूनो गतभावोत्थं
तादृग्विरामसंध्यधिक उत्तरभावोत्थं फलं प्रयच्छति ॥ २५ ॥

भापाटीका—ग्रह जिस भावमें स्थित होवे उस भावकी आरंभ (पहलेकी) संधिसे न्यून (कमती) हो तो गतभावजनित (पीछेके भावका) फल देवे तैसे ही विराम (आगेकी) संधिसे अधिक हो तो उत्तर (आगेके) भावजनित फलको देवे ॥ २५ ॥

ग्रहसंध्यंतरं नखद्यं भावसंध्यंतरेणात्तं फलं विशेषकाः ॥ २६ ॥

भापाटीका—ग्रहसंधिके अंतरको (ग्रह जिस भावमें स्थित होवे उस भावसे कमती हो तो आरंभसंधिके साथ और भावसे ग्रह अधिक हो तो विराम (आगेकी) संधिके साथ अन्तर करके) बीसगुणा करना और भावसंधिके अन्तरका (जिस संधिसे ग्रहका अंतर किया है उसी संधिसे भावके साथ अंतरकरके) भाग देना फल आवे वह विशेषका जानना और यदि ग्रह आरंभसंधिसे न्यून हो वा विराम संधिसे अधिक हो तो जिस भाव और संधिके बीचमें ग्रह होवे उस भाव और संधिका अंतर करके ग्रह संधिके अंतरमें भाग देना अर्थात् आरंभसंधिसे ग्रह न्यून हो तो पहलेके भाव और संधिसे अंतर करना और ग्रह आगेकी संधिसे अधिक हो तो आगेके भावसे संधिका अंतर करके बीसगुणेकिये हुवे ग्रह संधिके अंतरमें भाग देना फल विशेषका होवे ॥ २६ ॥

इति ग्रहभावाध्यायः ।

उदाहरण ।

स्पष्टसूर्य १०।१६।५३।३९ है इसकी राशी १० अंश १६ के प्रमाण लग्नपत्रमें कोष्टक देखा ५७।२१।६ है इसमें इष्ट घट्यादि ११।३०।१८ मिलाया ६८।५१ २४ हुवे घटीका अंक ६० साठसे अधिक है अतः साठका भाग दिया शेष ८।५१।२४ रहे यह इष्ट युक्त किया हुआ लग्नपत्रका कोष्टक हुआ इस इष्टयुक्त कोष्टकसे अल्पकोष्टक लग्नपत्रमें ८।४५।४८ एक १ राशी ११ ग्यारा अंशके कोष्टकमें मिलताहै इस कारण १ वृषराशी ११ अंश लिये इसके नीचे सूर्यकी कला ५३ विकला ३९ युक्त किया १।११।५३।३९ हुआ तदनंतर इष्टयुक्त कोष्टक ८।५१।२४ और अल्पकोष्टक ८।४५।४८का अंतर किया ०।५।३६। हुआ इसमें अल्पकोष्टक ८।४५।४८ और ऐष्य कोष्टक ८।५६।० के अंतर ०।१०।१२ का भाग दिया परंतु भाज्य भाजक दोनों पलादिक हैं अतएव इनको सवर्णित किये भाज्य ३३६ भाजक ६१२ हुवे भाज्य में भाजकका भाग दिया लब्ध ०शून्य अंश आया शेष बचे ३३६ को ६० साठगुणे किये २०१६० हुवे इनमें फिर ६१२ भाजकका भाग दिया लब्ध ३२ कला आई शेष ५७६ बचे इनको ६० साठगुणे किये ३४५६० हुवे इनमें भाजकका (६१२) भाग दिया लब्ध ५६ विकला आई ऐसे अंशादिक ०।३२।५६ फल तीन आये इनको प्रथम आये हुवे राश्यादिक १।११।५३।३९ में युक्त किये १।१२।२६।३५ हुवे ये राश्यादिक स्पष्ट लग्न हुआ ।

दिनमानसाधन ।

सूर्यकी राशी १० अंश १६ प्रमाण लग्नपत्रका कोष्टक ५७।२१।६ को अपने नीचेके सातमें कोष्टक २६।९।४२ मेंसे हीन किया २८।४८।३६ दिनमान हुआ ।

रात्रिमानसाधन ।

दिनमान २८।४८।३६ को ६० साठमेंसे शोधा ३१।११।२४ रात्रिमान हुआ इसको आधा किया १५।३५।४२ रात्र्यर्द्ध हुआ ।

चतुर्थमास इष्टसाधन ।

सूर्योदयात् इष्ट ११।३०।१८ में रात्र्यर्द्ध १५।३५।४२ युक्त किया २७।६।० चतुर्थ मासका इष्ट हुआ ।

चतुर्थभावसाधन ।

स्पष्टसूर्य १०।१६।५३।३९ की राशी १० अंश १६ प्रमाण भावपत्रका कोटक ५६।४५।२४ में चतुर्थभावका इष्ट २७।६।० मिलाया ८३।५१।२४ हुवे वटी ६० साठसे अधिक है ६० साठका भाग दिया शेष २३।५१।२४ बचे यह इष्टयुक्त कोटक हुवा इससे न्यून कोटक भावपत्रमें २३।४२।२० तीन राशी २७ अंशमें मिलता है इसलिये राशी ३ अंश २७ लिये. इसके नीचे कला विकलाके स्थानमें सूर्यकी कला ५३ विकला ३९ युक्त की ३।२७।५३।३९ हुवे नंतर इष्टयुक्त कोटक २३।५१।२४ और अल्प कोटक २३।४२।२० का अंतर किया ०।९।४ हुवा इसमें अल्पकोटक २३।४२।२० और उसके आगेका ऐप्य कोटक २३।५२।१८ का अंतर ०।९।५८ का भाग दिया परन्तु भाज्य भाजक दोनों पलादिक हैं अतएव दोनोंको प्रथम सर्वाणित किये भाज्य ५४४ भाजक ५९८ हुवा भाज्य ५४४ में भाजक ५९८ का भाग दिया लब्ध ० अंश आया शेष ५४४ को ६० साठगुणे किये ३२५४ हुवे इनमें भाजक ५९८ का भाग दिया लब्ध ५४ कला आई शेष ३४८ बचे इनको ६० साठगुणे किये २०८८० हुवे इनमें भाजक ५९८ का भाग दिया लब्ध ३४ विकला आई ऐसे अंशादिक ०।५४।३४ फल तीन आये इनको प्रथम आये हुवे राश्यादिक ३।२७।५३।३९ में युक्त किये ३।२८।४८।१३ हुवे ये चतुर्थ भाव स्पष्ट हुवा.

भावसाधनका उदाहरण ।

लग्नस्पष्ट १।१२।२६।३५ की चतुर्थ भाव ३।२८।४८।१३ मेंसे शोधा २।१६।२१।३८ शेष बचे इसकी राशिके २ अंकमें ६ छका भाग दिया लब्ध ० राशी शेष २ को ३० तीसगुणे किये ६० हुवे इनमें नीचेके १६ अंश मिलाये ७६ हुवे इनके ६ छका भाग दिया लब्ध १२ अंश आये शेष ४ बचे इनको ६० साठगुणे किये २४ हुवे कलाके अंक २१ युक्त किये २६१ हुवे फिर ६ का भाग दिया लब्ध ४३ कला आई शेष ३ बचे उनको ६० साठगुणे किये १८० हुवे इनमें विकलाके अंक ३८ मिलाये २१८ हुवे फिर ६ छका भाग दिया लब्ध ३६ विकला आई शेष २ बचे इनको फिर ६० साठगुणे किये १२० हुवे ६ छका भाग दिया लब्ध २० प्रतिविकला आई ऐसे छका भाग देके ०।१२।४३।३६।

२० फल पांच लाये ये पठांश आया इसको लग्न १।१२।२२।३५ में युक्त किये १।२५।१०।११।२० द्वितीय भावकी आरंभ संधि हुई इसमें पठांश ०।१२। ४३।३६।३५ युक्त किया २।७।५३।४७।४० द्वितीय भाव हुआ द्वितीय भावमें फिर पठांश ०।१२।४३।३६।२० मिलाया २।२०।३७।२४।० तृतीय भावकी आरंभ और द्वितीय भावकी विराम संधि हुई इसमें फिर पठांश युक्त किया ३।३। २१।०।२० तृतीय भाव हुआ इसमें फिर पठांश ०।१२।४३।३६।२० युक्त किया ३।१६।४।३६।४० तृतीय भावकी विराम और चतुर्थ भावकी आरंभ संधि हुई ऐसे लग्नमें पठांश पांचवार युक्त किया फिर पठांश ०।१२।४३। ३६।२० को एक राशी १।०।०।०।० मेंसे शेष ०।१७।१६।२३। ४० शेष बचे इनकी चतुर्थ भावमें पांचवार युक्त किया लग्नादिक संधिसहित ६ छः भाव हुवे इन छः भावोंमेंसे ६ छः छः राशी घटाई शेषके ६ भाव हुवे-

ससंध्यां द्वा दशभावाः ।

१	स.	२	म.	३	स.	४	स.	५	सं.	६	.
१	१	२	२	३	३	४	४	५	५	६	६
१२	२५	७	२०	३	१६	२८	१६	३	२०	७	२५
२६	१०	५३	३७	२१	४	४८	४	२१	३७	५३	१०
३५	११	४७	२५	०	१६	१३	१६	०	२५	४७	११
०	५०	४८	०	२०	४०	०	४०	२०	०	४०	२०
७	स.	८	स.	९	स.	१०	सं.	११	सं.	१२	.
७	७	८	८	९	९	९	१०	११	११	०	०
१२	२५	७	२०	३	१६	२८	१६	३	२०	७	२५
२६	१०	५३	३७	२१	४	४८	४	२१	३७	५३	१०
३५	११	४७	२५	०	१६	१३	१६	०	२५	४७	११

वर्षाङ्गचक्रम्



चलितचक्रम्



भावमें जो जो राशी आवे ये चलितमें लिखना मंतर ग्रह लिखना वहां सूर्य वर्षकुंडलिमें १० दशम भावमें स्थित है दशम भावकी विरामसंधिसे १०। १६।४ से सूर्य अधिक है इसलिये ये ११ ग्यारहमें भावका फल देगा एवं

शुक ११ में भावमें स्थित है ११ ग्यारहमें भावकी विरामसंधि ११ । २० से शुक ११ । २५ अधिक है अतएव शुक १२ में भावका फल देगा ऐसे सर्वग्रह जानना ।

विंशोपकानयन उदाहरण ।

सूर्य १० । १६ । ५३ । ३९ और दशम भावकी विरामसंधि १० । १६ । ४ । ३६ का अंतर किया ० । ० । ४९ । ३ हुआ इसको बीस २० गुणा किया १६ । २१ । ० हुवे इनमें सूर्य दशम भावकी विरामसंधि और ग्यारहमें भावके बीचमें है इस लिये दशमभावकी विरामसंधि १० । १६ । ४ । ३६ और ग्यारहमा भाव ११ । ३ । २१ । ० के अंतर १७ । १६ । २४ का भाग दिया—परंतु दोनों भाज्य भाजक अंशादिक हैं इसलिये इनको प्रथम सर्वाङ्गित किये भाज्य ५८८६० भाजक ६२१८४ हुवे भाज्य ५८८६० में भाजक ६२१८४ का भाग दिया लब्ध ० शून्य विश्वा आये शेष ५८८६० को ६० साठगुणे किये ३५३१६०० हुवे भाजक भावसंध्यंतर ६२१८४ का भाग दिया लब्ध ५७ प्रतिविश्वा आये ये सूर्यके विंशोपका हुवे इसीप्रकार सब ग्रहोंके विंशोपका जानना ॥

विंशोपकाः ।										
सु.	बं.	मं.	बु.	शु.	शु.	श.	रा.	के.	मुं.	
०	१८	९	१७	९	७	१६	२	२	३	
५७	१०	५४	५७	४६	७	४९	१९	१९	३९	

इति श्रीज्योतिर्विद्वरधीमन्महाद्वन्द्वनवर्षीयकारयतागिकग्रंथेत्तदज्ञ नथीनिवास-
विरचितायां सोदाहरणभाषाज्याख्यायां ग्रहभावा साधनाध्यागो
द्वितीयः ॥ २ ॥

वकाच्छज्ञचन्द्रांज्ञसितारेज्यार्किर्भदेज्यामेपाद्यधिपाः ॥ १ ॥

भापाटीका—शक कहिये मंगल अच्छ क० शुक ज्ञ क० बुध चंद्र क० चंद्र अर्क क० सूर्य ज्ञ क० बुध सित क० शुक आर क० मंगल इज्य क० गुरु अर्की क० शनि मंद क० शनि इज्य क० गुरु मेपादिक राशियोंके क्रमसे स्वामी जानना ॥ १ ॥

मेपादिराशियोंके स्वामी.													
मे.	बु.	मि.	क.	सि.	फ.	शु.	शु.	प.	म.	कु.	मी.	राशि.	
०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		
म.	शु.	बु.	च.	सु.	बु.	शु.	मं.	गु.	श.	श.	गु.	स्वामी.	

मेपगोनक्रकन्याकर्कान्त्यतुलादिवाकराद्युच्चक्षादशमतृतीयाष्टा
विंशपञ्चदशपंचमसप्तविंशविंशाःक्रमेण परमोच्चभागाः ॥ २ ॥

भाषाटीका—मेप कहिये मेप गो क० वृषज नक्र क० मकर कन्या क० कन्या
कर्क क० कर्क अंत्य क० मीन और तुला ये सूर्यादिक ग्रहोंकी क्रमसे उच्चराशी
होवे अर्थात् मेपका सूर्य वृषभका चंद्र मकरा मंगल कन्याकका बुध कर्कका गुरु मीन
का शुक्र तुलाका शनि उच्चको जानना और दशमक० १० तृतीयक० ३ अष्टा
विंशक० २८ पञ्चदश क० १५ पंचमक० ५ सप्तविंशक० २७ विंशक० २०
क्रमसे परमउच्चके अंश जानना अर्थात् ऊपर कहीहुई राशी और इन अंशोंके
सूर्यादि ग्रह हो तो परम उच्चके जानना जैसे सूर्य मेपके दश अंशका है ये परम
उच्चका हुआ इसी प्रकार चंद्र वृषभके तीन अंशका परम उच्चका मंगल मकरके
२८ अठारह अंशका बुध कन्याके १५ पंद्रह अंशका गुरु कर्कके पांच ५
अंशका शुक्र मीनके २७ सत्तर अंशका शनि तुलाके २० बीस अंशका परम
उच्चका जानना ॥ २ ॥

स्वोच्चसप्तमक्षास्तथांशाःक्रमशो नीचक्षाः परमनीचभागाः ॥ ३ ॥

भाषाटीका—सूर्यादिग्रहोंकी अपनी उच्चराशिसे सातमी राशी और अंश क्रमसे
नीच राशी और परमनीचके अंश होवे ॥ ३ ॥

उच्चनीचराशिचक्रम् ।							
र	ग	मं	बु	गु	शु	श	रा
०	१	९	५	३	११	६	१
१०	३	२८	१५	५	२७	२०	१
६७	४	११	९	५	०		
१०	३	२८	१५	५	२७	२०	१

मेपेऽङ्गाङ्गाष्टपंचेपवो गुरुशुक्र ज्ञागर्कजानां हद्दांशाः ॥ ४ ॥

भाषाटीका—मेपराशिमैं अंग ६ अंग ६ अष्ट ८ पंच ५ इपु ५ इन अंशोंके
क्रमसे गुरु शुक्र बुध मंगल शनी हद्दाके स्वामी जानना ॥ अर्थात् मेपराशिके ६
छ अंशपर्यंत हद्दाका स्वामी गुरु होता है उसके आगेके ६ छह अंशका स्वामी
शुक्र उसके आगेके ८ अंशका स्वामी बुध उसके आगेके ५ पांच अंशका स्वामी
मंगल उसके आगेके ५ अंशका स्वामी शनि इसीप्रकार बारहों राशियोंके हद्दा-
यके स्वामी समझना ॥ ४ ॥

वृषेष्टांगेभशरात्रयः सितज्ञेज्यमन्दाराणाम् ॥ ५ ॥

भापाटीका—वृषभराशिमें अष्ट ८ अंग ६ इम ८ शर ५ अग्नि ३ इन अंशोंके यथाक्रम शुक्र बुध गुरु शनि मंगल हद्दाके स्वामी जानना ॥ ५ ॥

द्वेद्वेङ्गाशरात्रयज्ञांशांशुक्रेज्यारमन्दानाम् ॥ ६ ॥

भापाटीका—मिथुन राशिमें अंग ६ अंग ६ शर ५ अग्नि ७ अंग ६ इन अंशोंके क्रमसे बुध शुक्र गुरु मंगल शनी हद्दाके स्वामी जानना ॥ ६ ॥

कर्केद्वङ्गाङ्गनगाध्यंशाभौमाच्छज्ञेज्यार्कीणाम् ॥ ७ ॥

भापाटीका—कर्कराशिमें अग्नि ७ अंग ६ अंग ६ नग ७ अग्नि ४ इन अंशोंके क्रमसे भौम शुक्र बुध गुरु शनि हद्दाके स्वामी जानना ॥ ७ ॥

सिंहेऽङ्गेष्वद्वङ्गाङ्गांशा ईज्यसितार्कीणाराणाम् ॥ ८ ॥

भापाटीका—सिंहराशिमें अंग ६ इपु ५ अग्नि ७ अंग ६ अंग ६ इन अंशोंके क्रमसे गुरु शुक्र शनि बुध मंगल हद्दाके स्वामी जानना ॥ ८ ॥

कन्यायां नगाद्याध्यगाक्ष्यंशा ज्ञाच्छेज्यारार्कीणाम् ॥ ९ ॥

भापाटीका—कन्याराशिमें नग ७ आशा क० १० अग्नि ४ अंग ७ अक्षि २ इन अंशोंके क्रमसे बुध शुक्र गुरु मंगल शनि हद्दाके स्वामी जानना ॥ ९ ॥

तुलेऽङ्गाएनगाध्यक्ष्यंशामन्दज्ञेज्यसिताराणाम् ॥ १० ॥

भापाटीका—तुलराशिमें अंग ६ अष्ट ८ नग ७ अग्नि ७ अक्षि २ इन अंशोंके क्रमसे शनि बुध गुरु शुक्र मंगल हद्दाके स्वामी जानना ॥ १० ॥

कीटे सप्तध्यष्टशराङ्गांशावक्राच्छज्ञेज्यार्कीणाम् ॥ ११ ॥

भापाटीका—वृश्चिक राशिमें सप्त ७ अग्नि ४ अष्ट ८ शर ५ अंग ६ इन अंशोंके यथाक्रम मंगल शुक्र बुध गुरु शनि हद्दाके स्वामी जानना ॥ ११ ॥

चापेकेष्वग्निशराध्यंशा ईज्यसितज्ञारमन्दानाम् ॥ १२ ॥

भापाटीका—धनराशिमें अर्क १२ इपु ५ अग्नि ४ शर ५ अग्नि ४ इन अंशोंके क्रमसे गुरु शुक्र बुध मंगल शनि हद्दाके स्वामी जानना ॥ १२ ॥

नक्रे नगनगाध्यष्टवेदांशाज्ञेज्याच्छार्कीवक्राणाम् ॥ १३ ॥

भापाटीका—मकरराशिमें नग ७ नग ७ अग्नि ४ अष्ट ८ वेद ४ इन अंशोंके क्रमसे बुध गुरु शुक्र शनि मंगल हद्दाके स्वामी जानना ॥ १३ ॥

घटे नंगागाद्रिपञ्चपवः शुक्रज्ञेय्यारमन्दानाम् ॥ १४ ॥

भापाटीका—कुंभराशिमं नग ७ अंग ६ अद्रि ७ पंच ५ इपु५ इन अंशोंके यथाक्रम शुक्र बुध गुरु मंगल शनि हृद्वाके स्वामी जानना ॥ १४ ॥

झपेकीन्ध्यग्न्यङ्गाक्ष्यंशाः सितेज्यज्ञाराकीणाम् ॥ १५ ॥

भापाटीका—मीनराशिमं अर्क १२ अद्रि ४ अग्नि ३ अंक ९ अक्षि २ इन अंशोंके क्रमसे शुक्र गुरु बुध मंगल शनि हृद्वाके स्वामी जानना ॥ १५ ॥

हृद्वाचक्रम् ।

मं.	गु.	मि.	क.	सि.	फ.	शु.	बु.	मं.	गु.	फु.	मी.	
०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
६ ग	८ बु	६ मि	७ मं	६ गु	७ बु	६ श	७ म	१० गु	७ बु	७ गु	१२ बु	भद्रस्वामी.
६ मं	६ गु	६ बु	६ मि	५ गु	१० बु	८ श	४ गु	५ गु	७ गु	६ बु	७ गु	भद्रस्वामी.
१०	१४	१२	१३	११	१७	१४	११	१०	१८	१३	१६	
८ गु	८ गु	५ गु	६ बु	७ मं	८ गु	७ गु	८ श	५ बु	५ गु	७ गु	६ बु	अंधस्वामी.
२०	२३	१७	१९	१८	२१	२१	१९	२१	१८	२०	१९	
५ मं	५ श	७ म	७ गु	६ बु	७ म	७ बु	५ गु	५ म	८ श	५ म	५ मं	भद्रस्वामी.
२५	२५	२४	२६	२४	२८	२८	२४	२६	२६	२५	२८	
५ मं	३ म	६ श	४ श	६ म	२ श	२ मं	६ श	४ श	४ मं	५ श	२ श	भद्रस्वामी.
३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	३०	

ग्रहे प्रथमद्रेष्काणगं तद्राशौ वह्नियोगे मध्यद्रेष्काणगे तद्राशौ सैके-
न्त्यद्रेष्काणगे रसयोगे तद्राशौ मुनिभक्ते शेषेऽर्काद्याःपतयः ॥ १६ ॥

भापाटीका—ग्रह प्रथमद्रेष्काणमें हो तो उसकी राशीके अंक्रमे ३तीन मिलाना और मध्यद्रेष्काणमें हो तो उसकी राशीमें (१) एक युक्तकरना एवं अन्य (तीसरे) द्रेष्काणमें हो तो उसकी राशीमें ६ छ युक्तकरना नंतर उस राशीके ७ सातका भागदेना शेष १ बचे तो सूर्य २ बचे तो चन्द्र ३ तीन बचे तो मंगल ४ बचे तो बुध ५ बचे तो गुरु ६ बचे तो शुक्र ७ बचेतो शनि द्रेष्काणका स्वामी होताहै ॥ १६ ॥

द्रेष्काणचक्रम् ।

मं.	गु.	मि.	क.	सि.	फ.	शु.	बु.	मं.	गु.	फु.	मी.	
०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	
मं.	गु.	गु.	मं.	गु.	मं.	गु.	मं.	गु.	गु.	मं.	गु.	अंश.
र.	मं.	मं.	गु.	गु.	मं.	गु.	र.	मं.	गु.	गु.	गु.	अंश.
गु.	मं.	र.	मं.	मं.	गु.	गु.	गु.	मं.	र.	मं.	मं.	अंश.

द्विपर्वत-१ द्रेष्काण १० अंशका हाता ह १० द्वा अंशपर्यंत प्रथमद्रेष्काण १० सं २० अंशपर्यंत मध्यद्रेष्काण २० सं ३० अंशपर्यंत अंत्यद्रेष्काणहोता है।

मेपासिंहचापेषु मेपाद्या वृषकन्यानकेषु मृगाद्या युग्मतुला-

कुंभेषु तुलाद्याः कर्कालिमीनेषु कर्काद्या नवांशाः ॥ १७ ॥

भाषाटीका—मेप १ सिंह ५५न९ राशीमें मेपराशीको आदिले वृष२ कन्या ६ मकर १० राशीमें मकरराशीको आदिले मिथुन ३ तुला७ कुंभ११ राशीमें तुला राशीको आदिले कर्क ४ वृश्चिक ८ मीन १२ राशीमें कर्कराशीको आदिले नवांशविभाग की संख्यापर्यंत गिननेसे नवांश होता है—अर्थात् (जितनी संख्याके नवांशविभागमें होवे उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी नवांशका स्वामी होता है) ॥ १७ ॥

नवांशविभागचक्रम् ।									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	नवांश वि.
३	६	१०	१३	१६	२०	२३	२६	३०	अश.
२०	५०	०	२०	५०	०	२०	५०	०	कला

नवांशसारिणीचक्रम् ।													
मे	वृ	मि	क.	सि	क	तु	वृ	ध	म.	कुं	मी	अश	कला
०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		
१	१०	७	४	१	१०	७	४	१	१०	७	४	६	२०
२	११	८	५	२	११	८	५	२	११	८	५	६	४०
३	१२	९	६	३	१२	९	६	३	१२	९	६	१०	०
४	१	१०	७	४	१	१०	७	४	१	१०	७	१३	२०
५	२	११	८	५	२	११	८	५	२	११	८	१६	४०
६	३	१२	९	६	३	१२	९	६	३	१२	९	२०	०
७	४	१	१०	७	४	१	१०	७	४	१	१०	२३	२०
८	५	२	११	८	५	२	११	८	५	२	११	२६	४०
९	६	३	१२	९	६	३	१२	९	६	३	१२	३०	०

श्लोचद्वयैष्काणनवांशाः पञ्चवर्गाः ॥ १८ ॥

१ एकराशीके ९ नव भागको नवांश कहतेहैं एक नवांशविभाग ३ तीन अंश २० कलाका होता है ।

भापाटीका—ग्रह (राशिकेस्वामी) उच्च. हृद्वा. द्रेष्काण और नवांश पंचवर्ग होते हैं । अर्थात् प्रथम ग्रहोंके राशीके स्वामी नंतर उच्च तदनंतर हृद्वा द्रेष्काण नवांश लिखनेसे पंचवर्ग होता है ॥ १८ ॥

यो ग्रहो यस्य व्यापत्रिकोणान्यतमगः समुह्यत् ॥ १९ ॥

भापाटीका—जो ग्रह जिस ग्रहसे तीसरे ३ म्यारहमें ११ नवमें ९ पांचमें ५ स्थानोंमें से किसी स्थानमें स्थित होवे वह उस ग्रहके मित्र होता है ॥ १९ ॥

केन्द्रगस्तथा शत्रुः ॥ २० ॥ शेषस्थानस्थः समः ॥ २१ ॥

भापाटीका—और जो ग्रह जिसग्रहसे केन्द्र (१ । ४ । ७ । १०) स्थानोंमें से कोई भी स्थानमें स्थित होवे वह उसग्रहके शत्रु होता है ॥ २० ॥ शेष २ । ६ । ८ । १२ दूसरे छठे आठमें बारमें स्थानोंमें से कोई भी स्थानमें जिस ग्रहसे जो ग्रह स्थित होवे वह उसके सम होता है ॥ २१ ॥ इसप्रकार मैत्री चक्र बनाके उसके (मैत्रीचक्रके) अनुसार पंचवर्गमें आये हुवे ग्रहोंके नीचे मित्र सम शत्रु लिखना तदनंतर बल लिखना उसकी रीति कहते हैं ।

स्वगृहेत्रिंशत्तवाः सुहृद्रे सार्द्धद्वाविंशतिः

समभे तिथयः शत्रुभे सार्द्धसप्तवलम् ॥ २२ ॥

भापाटीका—ग्रह स्वगृही (स्वराशीका) हो तो ३० तीस अंश मित्र राशीका हो तो २२ । ३० साडेबावीस अंश समराशीमें १५ पंद्रह अंश शत्रुराशी में हो तो ७ । ३० सड़िसात अंश बल ज नना ॥ २२ ॥

यथा भवेत्पङ्कभालपंतथानाचलेटांतरेतद्भागसुस्वोच्चवलम् ॥ २३ ॥

भापाटीका—ग्रह और उसके नीचका अंतर जैसे होसके वैसे छः राशीसे अल्प करना (ग्रहमेंसे नीचको हीन करनेसे ६ छः राशीसे अल्प शेष बचे तो ग्रहमेंसे नीचको हीन करना और अधिक बचते होवे तो नीचमेंसे ग्रहको हीन करना) शेष राश्यंक अन्तरके अंश करके (राशीको ३० गुणीकरके अंश मिलाके) उसमें ९ नवका भागदेना लब्ध उच्चबल होवे ॥ २३ ॥

स्वहृदायां तिथ्यंशा मित्रहृदायां सपादैका दशसमहृदायां
सार्द्धसप्त शत्रुहृदायां पादोनवेदांशा वलम् ॥ २४ ॥

भापाटीका—ग्रह स्वराशीकी हदामें हो तो १५ पंद्रा अंश मित्र ग्रहकी हदामें ११।१५ सवा ग्यारा अंश समग्रहकी हदामें ७।३० साडेसात अंश शत्रु ग्रहकी हदामें हो तो ३।४५ (पौनेचार अंश) बल जानना ॥ २४ ॥

स्वद्रेष्काणे दश मित्रद्रेष्काणे सार्द्धनगाः समद्रेष्काणे पञ्च शत्रुद्रेष्काणे सार्द्धयमा अंशा बलम् ॥ २५ ॥

भापाटीका—ग्रह स्वराशीके द्रेष्काणमें हो तो १० दश अंश मित्रग्रहके द्रेष्काणमें हो तो ७।३० साडेसात अंश समग्रहके द्रेष्काणमें ५ पांच अंश शत्रुग्रहके द्रेष्काणमें हो तो २।३० अर्द्ध अंश बल जानना ॥ २५ ॥

स्वनवांशे पञ्च मित्रांशे पादोनवेदाः समांशे सार्धयमा रिष्वंशे सपादैको बलम् ॥ २६ ॥

भापाटीका—ग्रह—स्वराशीके नवांशमें हो तो ५ पांच अंश मित्रनवांशमें ३।४५ पौनेचार अंश समनवांशमें हो तो २।३० अर्द्ध अंश शत्रुनवांशमें हो तो १।१५ (सवा) अंश बल जानना ॥ २६ ॥

पंचवर्गबलकोटकम् ।					
	स्व.	मित्र	सम	शत्रु	
स्व.	३० ०	२२ ३०	१५ ०	७ ३०	गृह
दशा.	१५ ०	११ १५	७ ३०	३ ४५	हदा
द्रेष्का.	१० ०	७ ३०	५ ०	३ ३०	द्रेष्काण
नवां.	५ ०	३ ४५	२ ३०	१ १५	नवांश

पंचवर्गबलैक्यवेदोद्धृते लब्धं विशेषकात्मकं बलम् ॥ २७ ॥

भापाटीका—पंचवर्गके बलके ऐक्य (योग) में ४ चारका भाग देना लब्ध आवे वह विश्वात्मक बल होवे ॥ २७ ॥

पहलपोऽहपवली रव्याधिकः पूर्णवली ॥ २८ ॥

भाषाटीका—आयाहुवा विश्वात्मक बल ६ छःसे अल्प होवे, तो अल्पबली और १२ वारासे अधिक हो तो पूर्णबली ६ छःसे अधिक वारासे न्यून हो तो मध्यबली होता है ॥ २८ ॥

उदाहरण ।

सूर्य १०।१६।५३।३९ कुंभराशिका है इसका स्वामी शनि गृहका स्वामी आया एवं सूर्यका उच्च०।१०हृदा—सूर्य कुंभराशिके २हृदांशमें (प्रथम७अंश फिर ६अंश मिलानेसे १३ होते हैं इससे अधिक अंश है सूर्य इसलिये दो अंश गये और तीसरे ७अंशमें हुआ) है इसका स्वामी गुरु है ये सूर्यकी हृदाका स्वामी हुआ—

द्रेष्काण—सूर्य मध्यद्रेष्काणमें है इसकी राशी १० में १ एक युक्त किया ११ हुवे सातका भागदिया ४ शेषबचे सूर्यको आदिले क्रमसे ४ बुध द्रेष्काणका स्वामी हुआ—नवांश—सूर्य कुंभराशिके ६ छठे नवांशविभागमें है (१६।४० से अधिक है) अतएव तुलाराशिसि नवांश विभागसंख्या ६ पर्यंत गिननेसे मीनराशी आई इसका स्वामी गुरु सूर्यके नवांशका स्वामी आया ऐसे ही सर्वग्रहके पंचवर्ग जानना—

बृहत्पंचवर्गचक्रम्.							
सु.	बु.	मं.	गु.	शु.	शु.	शु.	
सु.	बु.	मं.	गु.	शु.	शु.	शु.	स्वगृह.
०	१	९	५	६	११	६	उच्च.
१०	६	२८	१५	५	२७	२०	
सु.	बु.	गु.	शु.	शु.	मं.	सु.	दश.
सु.	बु.	सं.	सं.	बु.	मं.	सु.	
सु.	बु.	सं.	सं.	बु.	मं.	सु.	द्रेष्काण
सु.	बु.	गु.	शु.	शु.	शु.	शु.	नवांश

मैत्रीचक्रम्.							
र.	बु.	मं.	गु.	गु.	गु.	शु.	
र.	बु.	मं.	गु.	गु.	गु.	शु.	मित्र.
र.	बु.	मं.	र.अं.	बु.	र.बु.	गु.	सम.
र.अं.	र.बु.	र.मं.	र.गु.	र.शु.	गु.	शु.	शत्रु.

मैत्रीसाधन उदाहरण.

सूर्यसे ११ स्थानमें शनि स्थित है यह सूर्यके मित्र हुआ एवं सूर्य से १ स्थानमें चन्द्र मंगल १० स्थानमें गुरु स्थित है ये सूर्यके शत्रु हुवे और २ स्थानमें बुध शुक्र स्थित है वे सम हुवे—इसीप्रकार सर्वग्रहोंके मित्र शत्रु समझना ।

बलसाधन उदाहरण.

सूर्यके गृहका स्वामी शनी सूर्यका मित्र है इसलिये गृहमें सूर्यके नीचे २२। ३० अंश बल लिखा उच्चबल सूर्य १०।१६।५३।३९ नीचे ६।१०।०।० सूर्य मेंसे नीचे हीन किया ४।६।५३।३९ शेष बचे इसके अंश किये १२६।५३।३९ हवे नवका भाग दिया लब्ध १४ आये शेष ० शून्य बची इस्को साठ गुणी की इस्में ५३ कला मिलाई ५३ हुए नवका भागदिया लब्ध ५ आये सूर्यका उच्चबल १४।५ हुआ—हदा—हदाका स्वामी गुरु सूर्यके शत्रु है अतः हदाका शत्रु-बल ३।४५ सूर्यके नीचे हदामें लिखा—द्रेष्काण—सूर्यके द्रेष्काणका स्वामी बुध सूर्यके सम है इसलिये द्रेष्काणमें समका बल ५।० प्राप्त हुआ—

नवांश—सूर्यके नवांशका स्वामी गुरु सूर्यके शत्रु है अतएव नवांशमें सूर्यके नीचे शत्रु नवांश बल १ । १५ लिखा ये पंचवर्ग बल हुआ इन पाचोंका योग किया ४६।३५ पंचवर्गबलैक्य हुआ इस्में ४ चारका भाग दिया लब्ध ११ । ३८।४५ आये ये सूर्यका विशेषकात्मक बल हुआ यहबल ६ से अधिक और १२वारासे न्यून है अतः मध्यमबल जानना एवं शेष चंद्रादिसर्वग्रहोंका आया

पंचवर्गबलचक्रम् ।							
र	ब	म	बु	शु	शु	शु	शु
२२	२३	२२	२२	७	२२	१५	गृह
२०	२०	२०	२०	२०	३०	०	
१४	९	१८	१	५	१९	१४	उच्च
५	४२	५६	२९	७	५७	२७	
२	७	७	२	११	७	७	हदा
५५	३०	३०	४५	१५	६०	३०	
५	५	५	२	२	५	२	द्रेष्का
०	०	०	२०	३०	०	३०	
१	२	१	२	५	१	१	नवां.
१५	३०	१५	३०	०	१५	१५	
४६	४७	५५	२२	३१	५६	४०	योग.
३५	१२	११	३४	२२	२	४२	

विंशोपकात्मकबलम् ।						
र.	मं.	सु.	गु.	शु.	श.	
११	११	१३	८	७	१४	१०
३८	४८	४७	११	५०	०	१०
४५	०	४५	०	३०	३०	३०
म.	म.	पु.	म.	म.	पु.	म.

चन्द्रार्करेज्याः परस्परं मित्राणि शेषाश्च ॥ २९ ॥

भाषाटीका—अब अन्य आचार्यके मतकी स्थिरमैत्री लिखते हैं ॥ चंद्र, सूर्य, मंगल, गुरु, ये परस्पर मित्र जानना और शेष रहे बुध—शुक्र—शनि ये परस्पर मित्र जानना ॥ २९ ॥

इतरथा रिपवः ॥ ३० ॥

भाषाटीका—ऊपर कहेहुये मित्रग्रहसे शेष रहे वे शत्रु होंगे ॥ ३० ॥

स्थिरमैत्रीचक्रम् ।							
र.	मं.	सु.	गु.	शु.	श.		
मं. मं.	रं. मं.	रं. मं.	सु.	रं. मं.	सु.	शु.	
शु.	गु.	गु.	श.	मं.	श.	गु.	मित्र.
गु. शु.	गु. शु.	गु. शु.	रं. मं.	गु. शु.	रं. मं.	रं. मं.	
श.	श.	श.	मं. गु.	श.	मं. गु.	मं. गु.	

इस स्थिरमैत्रीके मित्रशत्रुके अनुसार पंचवर्गबल लानेकी रीति कहेतेहैं—

स्वस्वाधिकारबलार्द्धे मित्रक्षे बलं तदर्धे शत्रुभे शेषं प्राग्बदित्येके ॥ ३१ ॥

भाषाटीका—ग्रह ३० हद्दा १५ द्रेष्काण १० नवांश ५ के कहेहुये अपने अपने स्वराशीके बलको स्वराशीगत ग्रहमें यथावस्थित (ग्रहमें ३० हद्दा में १५ द्रेष्काणमें १० नवांशमें ५) ही जानना और अपने अपने स्वका आधा आधा बल मित्रराशिगत ग्रहमें और मित्रराशिगत ग्रहका आधा आधा बल शत्रुराशिगत ग्रहमें जानना अर्थात् स्वमें पूरा मित्रमें स्वका आधा शत्रुमें मित्रका आधा लिखना जैसे ग्रहमें स्वराशीका ३० अंश बल है उसका आधा १५ मित्र

तीसरेमें गुरु चौथेमें बुध पांचवेमें शुक समराशीमें विपरीत (१ शु. २ बुध. ३ गुरु: ४ शनि. ५ मंगल.) पंचमांशके स्वामी होते हैं ॥ ३८ ॥

विपमर्क्षे मेपाद्याः समभे तुलाद्याः षष्ठांशाः ॥ ३९ ॥

भाषाटीका—विपमराशीमें मेपराशीको आदिले समराशीमें तुलाराशीको आदिले गिननेसे षष्ठांशके स्वामी होतेहैं ॥ ३९ ॥

ओजभे स्वभाद्या युग्मर्क्षे तत्सप्तमर्क्षाद्याः सप्तमांशाः ॥ ४० ॥

भाषाटीका—विपम राशीमें अपनी राशीको आदिले समराशीमें अपनी राशीसे जो सातमी राशी हो उसको आदिले सप्तमांश विभागकी संख्यापर्यंत गिनने से जो राशी आवे उसके स्वामी सप्तमांशके स्वामी होवे (ग्रह जितनी संख्या के सप्तमांशविभागमें होवे उतनी संख्यापर्यंत विपम राशिमें अपनी राशीसे, सममें सातमी राशीसे गिनना सप्तमांश होवे) ॥ ४० ॥

चरभेऽजाद्याः स्थिरभे चापाद्या उभयभे सिंहाद्या अष्टमांशाः ॥ ४१ ॥

भाषाटीका—चर (१ । ४ । ७ । १०) राशीमें मेपराशीको आदिले स्थिर (२ । ५ । ८ । ११) राशीमें धनराशीको आदिले द्विस्वभाव (३ । ६ । ९ । १२) राशीमें सिंहराशीको आदिले जितनी संख्याके अष्टमांश विभागमें ग्रह होवे उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी अष्टमांशका स्वामी होवे ॥ ४१ ॥

१ एकराशीके ६ छटे भागको कहते है—एक षष्ठांश ५ पांच अंशका होता है—

२ एक राशीके ७ हिस्सेको कहते हैं एक सप्तमांश विभाग ४ अंश १७ कलाका होता है ।

३ एकराशीके ८ आठ भागको कहते है—एक अष्टमांश विभाग ३ अंश ४५ कलाका होता है ।

सप्तमांशविभाग.

१	२	३	४	५	६	७
४	८	१२	१७	२१	२५	३०
१७	३४	५१	६	२५	४२	०
८	१७	२५	३४	४२	५०	०

अष्टमांशविभाग.

१	२	३	४	५	६	७	८	अंश
३	७	११	१५	१८	२२	२६	३०	अष्ट
४५	३०	१५	०	४५	३०	१५	०	कला

भादयोऽर्काशांता द्वादश वर्गाः ॥ ३२ ॥

भापाटीका—स्वग्रहको आदिले द्वादशांशपर्यंत (स्वग्रह १ होरा २ द्रेष्काण ३ चतुर्थांश ४ पंचमांश ५ षष्ठांश ६ सप्तमांश ७ अष्टमांश ८ नवमांश ९ दशमांश १० एकादशांश ११ द्वादशांश १२) द्वादशवर्ग हेवे ॥ ३२ ॥

भाद्यधिपाः प्राग्बत् ॥ ३३ ॥

भापाटीका—राशियोंके स्वामी प्रथम कहे समान जानना ॥ ३३ ॥

विपमर्क्षे सूर्यशाशिनोः समर्क्षे व्यत्ययेन होरा ॥ ३४ ॥

भापाटीका—विपमराशीमें प्रथम सूर्य—दूसरी चन्द्रकी होरा होवे और सम-राशीमें विपरीत (प्रथम चन्द्र द्वितीय सूर्यकी) होरा होवे ॥ ३४ ॥

स्वेषु नवर्क्षेऽत्र द्रेष्काणपाः ॥ ३५ ॥

भापाटीका—प्रथम द्रेष्काणमें अपनी राशिका स्वामी दूसरे (मध्य) द्रेष्काणमें अपनी राशीसे पांचमी राशिका स्वामी तृतीय (तीसरे) द्रेष्काणमें अपनी राशीसे नवमी राशिका स्वामी द्रेष्काणका स्वामी जानना ॥ ३५ ॥

केचित्प्राग्बत् ॥ ३६ ॥

भापाटीका—केईक आचार्य जो पंचवर्गमें प्रथम द्रेष्काण कहाहै वही करना ऐसा कहतेहैं ॥ ३६ ॥

स्वर्क्षजकेद्रेशा वेदांशपाः ॥ ३७ ॥

भापाटीका—अपनी राशीसे प्रथम चतुर्थांशमें अपनी राशीका स्वामी दूसरेमें ४ चौथी राशीका स्वामी तीसरेमें ७ सातमी राशीका स्वामी चौथेमें १० दशमी राशीका स्वामी चतुर्थराशिका स्वामी होवे ॥ ३७ ॥

ओजर्क्षेभौमार्कीज्यज्ञसिताः समर्क्षे प्रतिलोमतः शरांशपाः ॥ ३८ ॥

भापाटीका—विपम (एकी) राशीमें प्रथम पंचमांशमें त्रैम दूसरेमें शनि

१ पंदरा १५ अंशकी २ एक होरा होती है (० अंशसे १५ अंशतक प्रथम होरा १५ अंशसे ३० अंशपर्यंत दूसरी होरा हेवे—) २ दशअंशका १ द्रेष्काण होता है ।

३ एकराशीके ४ भागको कहते हैं एक चतुर्थांश विभाग ५ अंश ३० तीस कलाका होता है—

४ एकराशीके ५ पांचवें भागको कहते हैं— एक पंचमांश ६ छह अंशका होता है—

चतुर्थांशविभाग ० ।				
१	२	३	४	
७	१५	२२	३०	अंश.
३०	०	३०	०	कला.

तीसरेमें गुरु चौथेमें बुध पांचवेमें शुक्र समराशीमें विपरीत (१ शु. २ बुध. ३ गुरु. ४ शनि. ५ मंगल.) पंचमांशके स्वामी होते हैं ॥ ३८ ॥

विपमर्क्षे मेघाद्याः समभे तुलाद्याः षष्ठांशाः ॥ ३९ ॥

भाषाटीका—विपमराशीमें मेघराशीको आदिले समराशीमें तुलाराशीको आदिले गिननेसे षष्ठांशके स्वामी होते हैं ॥ ३९ ॥

ओजभे स्वभाद्या युग्मर्क्षे तत्सप्तमर्क्षाद्याः सप्तमांशाः ॥ ४० ॥

भाषाटीका—विपम राशीमें अपनी राशीको आदिले समराशीमें अपनी राशीसे जो सातमी राशी हो उसको आदिले सप्तमांश विभागकी संख्यापर्यंत गिनने से जो राशी आवे उसके स्वामी सप्तमांशके स्वामी होवे (ग्रह जितनी संख्या के सप्तमांशविभागमें होवे उतनी संख्यापर्यंत विपम राशीमें अपनी राशीसे, सममें सातमी राशीसे गिनना सप्तमांश होवे) ॥ ४० ॥

चरभेऽजाद्याः स्थिरभे चापाद्या उभयभे सिंहाद्या अष्टमांशाः ॥ ४१ ॥

भाषाटीका—चर (१ । ४ । ७ । १०) राशीमें मेघराशीको आदिले स्थिर (२ । ५ । ८ । ११) राशीमें धनराशीको आदिले द्विस्वभाव (३ । ६ । ९ । १२) राशीमें सिंहराशीको आदिले जितनी संख्याके अष्टमांश विभागमें ग्रह होवे उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी अष्टमांशका स्वामी होवे ॥ ४१ ॥

१ एकराशीके ६ छटे भागको कहते हैं—एक षष्ठांश ५ पांच अंशका होता है—

२ एक राशीके ७ हिस्सेको कहते हैं एक सप्तमांश विभाग ७ अंश १७ कलाका होता है ।

३ एकराशीके ८ आठ भागको कहते हैं—एक अष्टमांश विभाग ३ अंश ४५ कलाका होता है ।

अष्टमांशविभाग.							
१	२	३	४	५	६	७	८
३	७	११	१५	१८	२२	२६	३०
४५	३०	१५	०	४५	३०	१५	०

सप्तमांशविभाग.							
१	२	३	४	५	६	७	८
४	८	१२	१७	२१	२५	३०	३५
१७	३४	५१	६८	८५	१०२	१२०	१३७
८	१७	२५	३४	४२	५०	५९	६७

भादयोऽर्काशांता द्वादश वर्गाः ॥ ३२ ॥

भापाटीका—स्वगृहको आदिले द्वादशांशपर्यंत (स्वगृह १ होरा २ द्रेष्काण ३ चतुर्थांश ४ पंचमांश ५ षष्ठांश ६ सप्तमांश ७ अष्टमांश ८ नवमांश ९ दशमांश १० एकादशांश ११ द्वादशांश १२) द्वादशवर्ग होवे ॥ ३२ ॥

भाद्यविषाः प्राग्वत् ॥ ३३ ॥

भापाटीका—राशियोंके स्वामी प्रथम कहे समान जानना ॥ ३३ ॥

विषमर्क्षे सूर्यशशिनोः समर्क्षे व्यत्ययेन होरा ॥ ३४ ॥

भापाटीका—विषमराशीमें प्रथम सूर्य—दूसरी चन्द्रकी होरा होवे और सम-राशीमें विपरीत (प्रथम चन्द्र द्वितीय सूर्यकी) होरा होवे ॥ ३४ ॥

स्वेषु नवर्क्षेणा द्रेष्काणपाः ॥ ३५ ॥

भापाटीका—प्रथम द्रेष्काणमें अपनी राशिका स्वामी दूसरे (मध्य) द्रेष्काणमें अपनी राशीसे पांचमी राशिका स्वामी तृतीय (तीसरे) द्रेष्काणमें अपनी राशीसे नवमी राशिका स्वामी द्रेष्काणका स्वामी जानना ॥ ३५ ॥

केचित्प्राग्वत् ॥ ३६ ॥

भापाटीका—केईक आचार्य जो पंचवर्गमें प्रथम द्रेष्काण कहाहै वही करना ऐसा कहतेहैं ॥ ३६ ॥

स्वर्क्षजकेद्रेशा वेदांशपाः ॥ ३७ ॥

भापाटीका—अपनी राशीसे प्रथम चतुर्थांशमें अपनी राशीका स्वामी दूसरेमें ४ चौथी राशीका स्वामी तीसरेमें ७ सातमी राशीका स्वामी चौथेमें १० दशमी राशीका स्वामी चतुर्थांशका स्वामी होवे ॥ ३७ ॥

ओजर्क्षेभौमार्क्यज्ञसिताः समर्क्षे प्रतिष्ठीमतः शरांशपाः ॥ ३८ ॥

भापाटीका—विषम (एकी) राशीमें प्रथम पंचमांशमें भौम दूसरेमें शनि

१ अंश २५ अंशकी १ एक होरा होती है (० अंशसे १५ अंशतक प्रथम होरा १५ अंशसे ३० अंशपर्यंत दूसरी होरा होवे—) २ दशअंशका १ द्रेष्काण होता है ।

३ एकराशीके ४ चार भागमें बंटा है एक चतुर्थांश विभाग ७ अंश ३० तीस कलाका होता है—

४ एकराशीके ५ पांचमें भागमें बंटा है— एक पंचमांश ६ छह अंशका होता है—

चतुर्थांशविभाग ० ।				
१	२	३	४	
७	१५	२२	३०	अंश.
३०	०	३०	०	कला.

तीसरेमें गुरु चौथेमें बुध पांचवेमें शुक्र समराशीमें विपरीत (१ शु. २ बुध. ३ गुरु. ४ शनि. ५ मंगल.) पंचमांशके स्वामी होते हैं ॥ ३८ ॥

विपमक्षे मेपाद्याः समभे तुलाद्याः षष्टांशाः ॥ ३९ ॥

भापाटीका—विपमराशीमें मेपराशीको आदिले समराशीमें तुलाराशीको आदिले गिननेसे षष्टांशके स्वामी होतेहैं ॥ ३९ ॥

ओजभे स्वभाद्या युग्मक्षे तत्सप्तमक्षाद्याः सप्तमांशाः ॥ ४० ॥

भापाटीका—विपम राशीमें अपनी राशीको आदिले समराशीमें अपनी राशीसे जो सातमी राशी हो उसको आदिले सप्तमांश विभागकी संख्यापर्यंत गिनने से जो राशी आवे उसके स्वामी सप्तमांशके स्वामी होवे (ग्रह जितनी संख्या के सप्तमांशविभागमें होवे उतनी संख्यापर्यंत विपम राशीमें अपनी राशीसे, सममें सातमी राशीसे गिनना सप्तमांश होवे) ॥ ४० ॥

चरभेऽजाद्याः स्थिरभे चापाद्या उभयभे सिंहाद्या अष्टमांशाः ॥ ४१ ॥

भापाटीका—चर (१ । ४ । ७ । १०) राशीमें मेपराशीको आदिले स्थिर (२ । ५ । ८ । ११) राशीमें धनराशीको आदिले द्विस्वभाव (३ । ६ । ९ । १२) राशीमें सिंहराशीको आदिले जितनी संख्याके अष्टमांश विभागमें ग्रह होवे उतनी संख्यापर्यंत गिननेसे जो राशी आवे उसका स्वामी अष्टमांशका स्वामी होवे ॥ ४१ ॥

१ एकराशीके ६ छठे भागको कहते है—एक षष्टांश ५ पांच अंशका होताहै—

२ एक राशीके ७ हिस्सेको कहते हैं एक सप्तमांश विभाग ४ अंश १७ कलाका होता है ।

३ एकराशीके ८ आठ भागको कहते है—एक अष्टमांश विभाग ३ अंश ४५ कलाका होता है ।

सप्तमांशविभाग.

१	२	३	४	५	६	७
४	८	१२	१७	२१	२५	३०
१७	३४	५१	६	२५	४०	०
८	१७	२५	३४	४२	५०	०

अष्टमांशविभाग.

१	२	३	४	५	६	७	८	अंश
३	७	११	१५	१८	२२	२६	३०	अंश
४५	३०	१५	०	५५	३०	१५	०	कला

वर्गेशे स्वर्क्षे विंशतिमिन्नक्षेत्रिथयः

समर्क्षे दशरिपुभे पंच बलम् ॥ ४६ ॥

भापाटीका—द्वादशवर्गके वर्गका स्वामी स्वराशीका हो तो वीस २० अंश
मिन्नराशीका हो तो १५ पंदरा अंश समराशीका हो तो १० दश अंश

शत्रुराशीका हो तो ५ पांच अंश बल जानना ॥ ४६ ॥

स्व	मि.	स	श.
२०	१५	१०	५
०	०	०	०

द्वादशवर्गजबलैक्येऽर्कभक्ते विशोपकाः ॥ ४७ ॥

भापाटीका—द्वादशवर्गके बलके योगमें बारा १२ का भाग देना लब्ध
विशोपकात्मक बल होवे ॥ ४७ ॥

उदाहरण ।

सूर्य १०।१६।१३।३९ की राशी कुंभका स्वामी शनी सूर्यके गृहका
स्वामी हुवा—होरा—सूर्य विपमराशीकी दूसरी होरामें है इसका स्वामी चंद्र
होराका स्वामी हुवा—द्रेष्काण—सूर्य मध्यद्रेष्काणमें है इस कारण अपनी राशी
११ कुंभसे पांचमी राशी ३ मिथुनका स्वामी बुध द्रेष्काणका स्वामी आया—
एवं सूर्य तृतीय चतुर्थांश विभागमें है इसलिये अपनी राशी ११ से सातमी
राशी ५ सिंहका स्वामी सूर्य सूर्यके चतुर्थांशका स्वामी हुवा— पांचमांश—
विपमराशिस्थित सूर्य तीसरे पांचमांशविभागमें है अतएव विपमराशीमें
तीसरे पांचमांशका स्वामी गुरु सूर्यके पांचमांशका स्वामी हुवा—एवं सूर्य ४ चौथे
पठंशमें है और विपमराशीका है इसलिये मेपराशीसे पठंशविभागकी संख्या ४
चार पर्यंत गिना कर्कशी आई इसका स्वामी चंद्र सूर्यके पठंशका स्वामी हुवा
एवं सप्तमांशविभागमें सूर्य ४ चतुर्थ संख्याके विभागमें स्थित है यह विपमराशी
गत है इसवास्ते अपनी राशी ११ कुंभसे ४ चार पर्यंत गिननेसे ४ चौथी वृषभ
राशी आई इसका स्वामी शुक्र सूर्यके सप्तमांशका स्वामी हुवा—एवं अष्टमांश—
विभागमें सूर्य ५ पांचमें अष्टमांशमें स्थित है और स्थिर राशी ११ का है अतः
धनराशीको आदिले ५ पांच संख्यापर्यंत गिननेसे मेपराशि आई इसका स्वामी
शमी सूर्यके अष्टमांशका स्वामी हुवा—नवांशके स्वामी लानेकी युक्ती प्रथम कही
है उसी रीतिके समान नवांश विभागमें ६ छठे नवांशमें सूर्य स्थित है इस कारण

तुलराशी (३।७।११ के नवांश ७ तुलसे गिनना) से ६ संख्यापर्यंत गिननेसे १२ मीनराशी आइ इसका स्वामी गुरु सूर्यके नवांशका स्वामी हुवा—सूर्य १० । १६ । ५३ । ३९ को दशांश करना है इस कारण १० दसगुणा किया १०० । १६० । ५३० । ३९० हुवा—विकला कला साठसे अधिक हैं इससे विकला (३९०) में साठका भाग दिया लब्ध ६ कलामें कला (५३६) के साठका भाग दे लब्ध ८ अंशमें युक्तकिये अंश तीससे अधिक हैं इसलिये अंश (१६८) में ३० तीसका भाग दिया लब्ध ५ पांच राशीके अंक १०० में युक्त किया १०५ हुये राशी (१०५) में १२ बाराका भाग दिया शेष ९ । १८ । ५६ । ३० राश्यादिक बचा ये सूर्यका दशांश हुवा इसकी राशी १० का स्वामी शनी सूर्यके दशांशका स्वामी हुवा एवं एकादशांशमें सूर्य १० । १६ । ५३ । ३९ को ११ ग्यारा गुणा किया ११० । १७६ । ५८३ । ४२९ हुवा विकला कलामें साठका अंशमें तीसका राशीमें १२ बाराका क्रमसे भाग देनेसे शेष बचे ८ । ५ । ५० । ९ यह सूर्यका एकादशांश स्पष्टहुवा इसकी राशी ९ धनका स्वामी गुरु सूर्यके एकादशांशका स्वामी हुवा—एवं अपनी राशी ११ कुम्भसे सूर्य ७ सातमें द्वादशांशमें है इसलिये ७ सातसंख्यापर्यंत गिननेसे ५ सिंह राशी आई इसका स्वामी सूर्य सूर्यके द्वादशांशका स्वामी हुवा—इस प्रकार सूर्यके द्वादशवर्ग हुये ऐसेही शेष ग्रहोंके तथा भावोंके और सहमादिकोंके द्वादशवर्ग जानना—सूर्यके द्वादशवर्गमें स्वराशिके वर्ग २ भिन्नके २ शुभग्रहके ७ वर्ग हैं इनका योग किया ११ ग्यारा होते हैं इसकारण सूर्य शुभफल देगा—ऐसेही सर्वग्रहोंके शुभाशुभफल समझना—

द्वादशवर्गवलवदाहरण ।

सूर्यके—ग्रह (राशी) का स्वामी शनी सूर्यके मित्र है इसकारण १५ । ० पंधराका बलग्रहमें प्राप्त हुवा एवं होरामें सूर्यकी होराका स्वामी चन्द्र सूर्यका शत्रु है अतः ५।० बल प्राप्त हुवा—एवं द्रेष्काणमें द्रेष्काणपती बुधका समराशीका बल १-।० चतुर्थीरामें चतुर्थीशक्ति सूर्यका स्वका २०।० बल पंचमांशमें पंचमांशके स्वामी गुरुका शत्रुका ५ । ० बल षष्ठांशमें षष्ठांशके स्वामी चन्द्रका शत्रु-राशीका बल ५ । ० सप्तमांशमें, सप्तमांशके स्वामी शुक्रका समराशीका १०।०

स्वभे ज्ञातं कलानां मित्रभे पंचाशत् शत्रुभे पञ्चविंशतिः ॥ ४८ ॥

भापाटीका—स्वराशीमें १०० सो कला मित्रराशीमें ५० पचाश कला शत्रु-
राशीमें २५पचीस कला स्थिर मैत्रीके मित्रशत्रुवशात् द्वादशवर्ग बल जानना ४८ ॥

स्व	मि.	श.	
१००	५०	२५	कला.
०	०	०	

तदैक्ये पाष्टिभक्ते विंशोपका इत्येके ॥ ४९ ॥

भापाटीका—स्थिरमैत्रीके मित्रशत्रुवशात् लायेहुवे द्वादशवर्गके बलके ऐक्य
(योग) में ६० साठका भाग देना लब्ध आवे वह विंशोपकात्मक बल होवे
ऐसा कितनेक आचार्यका मत है ॥ ४९ ॥

उदाहरण ।

द्वादशवर्गमें सूर्यकी राशीका स्वामी शनि स्थिर मैत्रीमें सूर्यका शत्रु है
इसलिये सूर्यके नीचे गृहमें २५।० कला बल लिखा—एवं होराका स्वामी चंद्र मित्र
है सूर्यके इसकारण ५० कला बल होरामें लिखा—द्रेष्काणका स्वामी बुध शत्रु है
सबब शत्रुका २५ कला बल द्रेष्काणमें चतुर्थांशमें सूर्य स्वराशीका है अतः स्वका
१०० कला बल—एवं पंचमांशमें—पंचमांशका स्वामी गुरु मित्र है अतएव मित्रका
५० कला बल और षष्ठांशका स्वामी चंद्रभी मित्र है इसलिये षष्ठांशमेंभी ५०
कला बल लिखा और सप्तमांशका स्वामी शत्रु है अतः सप्तमांशमें शत्रुका २५
कला बल अष्टमांशका स्वामी शौम मित्र है इसलिये अष्टमांशमें मित्रका ५०
कला बल नवांशका स्वामी गुरुमित्र है सबब नवांशमें मित्रका बल ५० कला और
दशांशका स्वामी शनि सूर्यके शत्रु है इसवास्ते दशांशमें शत्रुका २५ कला बल
लिखा और एकादशांशका स्वामी गुरु मित्र तथा द्वादशांशका स्वामी सूर्य स्वका है
इसलिये एकादशांशमें मित्रका ५० कला बल और द्वादशांशमें स्वका १००
कला बल लिखा ये द्वादशवर्ग बल हुवा इसका योग किया ६०० आवे ६०
साठका भाग दिया लब्ध १०।० विंशोपकात्मक सूर्यका द्वादशवर्ग बल हुवा
ऐसेही शेष चन्द्रादिग्रहोंका द्वादशवर्गबल जानना—इति ॥

अथ दृष्टिसाधनमाह ।

पश्योनदृश्येद्विदिग्भशेषे तद्विनांशा अर्धास्तियिशु-
द्धास्तथा व्यंकशेषे भोग्यांशा एव वेदाष्टशेषे च सार्द्धा
अंशाः पञ्चवेदतः शुद्धास्तथैव तर्काभ्रशेषैशाद्विधाः
पष्टिशुद्धाः कलाद्यादृष्टिरन्यक्षै तदभावः ॥ १ ॥

इति दृष्टेरध्यायः ।

भापाटीका—पश्यग्रहको हीन करना दृश्यग्रहमेंसे दो २ राशी १० दशराशी शेष बचे तो राशीके विना अंशोंको आधे करना और १५ पंद्रहमेंसे शोधना तैसेही तीन ३ राशी ९ नवराशी शेष बचे तो अंशोंको तीसमेंसे शोधना—एवं ४ चार राशी ८ आठराशी शेष बचे तो राशी विना अंशोंको ढेढे (अंशोंको आधे करके उन्ही अंशोंमें मिलाया) करना और ४५ पैंतालीसमेंसे शोधना इसीप्रकार ६ छःराशी ० शून्यराशी शेष बचे तो राशीविना अंशोंको दोगुणे करना ६० साठमेंसे शोधना कलादिक दृष्टि होवे और इन उक्तराशियोंसे अन्यराशी शेष बचे तो दृष्टिका अभाव (दृष्टिनहीं) जानना ॥ १ ॥

दृष्टिचक्रम्.							
२	१०	३	९	४	८	०	६
अंशा- ज्ज्वा	अंशा- ज्ज्वा	अंशा- ३०	अंशा- ३०	अंशा- ४५	अंशा- ४५	अंशा- ६०	अंशा- ६०
१५गु.	१५गु.	गु.	गु.	४५गु.	४५गु.	६०गु.	६०गु.

१ जिस ग्रहपर दृष्टि करना हो वह दृश्य जो देखना हो वह पश्य (पश्यतीति दृष्टा पश्येनाहो दृश्यः)

हो तो द्वितीयं हर्षपद होवे—(सूर्य ९ चन्द्र ३ मङ्गल ६ बुध १ गुरु ११ शुक्र ५ शनि १२ में स्थानमें हो तो दूसरा हर्षपद होवे) ॥ ५१ ॥

सूर्यारेज्या नराः शोपा स्त्रियः ॥ ५२ ॥

भापाटीका—सूर्य मंगल गुरु पुरुषग्रह, शेष चन्द्र बुध शुक्र शनि स्त्रीग्रह जानना ५२ दिने पुमान् रात्रौ स्त्री तृतीयम् ॥ ५३ ॥

भापाटीका—दिनमें वर्षप्रवेश हो तो पुरुषग्रह रात्रिमें स्त्रीग्रह बलवान् जानना तृतीय तीसरा हर्षपद होवे ॥ ५३ ॥

तुर्यभतस्त्रिषु त्रिषु नृस्त्रियौ तुर्यम् ॥ ५४ ॥

भापाटीका—चतुर्थमावसे तीन तीन स्थानमें पुरुषग्रह और स्त्रीग्रह स्थित हो तो चतुर्थ हर्षपद होवे—(४ । ५ । ६ पुरुषग्रह ७ । ८ । ९ स्त्रीग्रह १० । ११ । १२ पुरुषग्रह १ । २ । ३ स्त्रीग्रह स्थित हो तो ४ हर्षपद जानना) ॥ ५४ ॥

चतुर्ष्वेषु प्रत्येकं पंचविंशोपका बलम् ॥ ५५ ॥

भापाटीका—इन चारही हर्षपदोंमें प्रत्येक (एक एकके प्रति) के पांच पांच विशेषका बल जानना ॥ ५५ ॥

इति बलाध्यायस्तृतीयः ।

उदाहरण ।

यहां शुक्र उच्चराशीका है इसलिये प्रथम हर्षपदमें ये बलवान् हुवा—सूर्यको आदिले कोई ग्रह द्वितीय हर्षपद स्थानमें नहीं है अतः द्वितीय हर्षपद किसीका नहीं आया—दिनमें वर्षप्रवेश हुवा है इससे पुरुषग्रह (सूर्य मंगल गुरु) तृतीयहर्ष बलदाता हुये एवं चतुर्थस्थानसे तीन तीनमें पुरुष स्त्री ग्रह देखनेसे ८ आठमें शनि स्त्रीग्रह और १० । ११ में सूर्य, मंगल, पुरुषग्रह स्थित हो ये चतुर्थ हर्षपदमें बला हुये—इति ॥

हर्षपदचक्रम्.

२	४	६	८	१०	१२	१४	१६
०	०	०	०	०	५	०	प्रथम.
०	०	०	०	०	०	०	द्वितीय.
५	०	५	०	५	०	०	तृतीय.
५	०	५	०	०	०	५	चतुर्थ.
१०	०	१०	०	५	५	५	पञ्च.

इतिः श्रीनयेतिविंदरथीमन्महादेवकृतवर्षप्रदीपिकास्यतानिकग्रन्थे तद्गणनाश्रीनिवासरिचितायां सोदाहरणभाषाध्यायन्यायां बटसापनाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

पहले क्षेपककी राशी नहीं आवे तो सिद्धसहमकी राशीमें एक युक्त करना शुद्धचाश्रय और शोध्यके बीचमें क्षेपक नहीं आवे तो एक मिलाना) ॥ २ ॥

क्षेपकानुक्तौ लग्नं योज्यम् ॥ ३ ॥

भाषाटीका—जिस सहमसाधनमें क्षेपक नहीं कहा हो उसमें लग्न युक्त करना (लग्नको क्षेपक समझना) ॥ ३ ॥

समयानुक्तौ रात्रौ शोध्यशोधकौ व्यस्तौ कार्यौ ॥ ४ ॥

भाषाटीका—जिस सहमसाधनमें समय नहीं कहा हो उस सहमके साधनमें रात्रिमें वर्षप्रवेश हो तो शोध्यशोधकको व्यस्त (उलटे) करना अर्थात् शोध्यको शुद्धचाश्रय और शुद्धचाश्रयको शोध्य मानके सहम करना ॥ ४ ॥

सूर्योने चन्द्रे पुण्यसहमः ॥ ५ ॥

भाषाटीका—चंद्रमेंसे सूर्यको हीन करनेसे पुण्यसहम होवे ॥ ५ ॥

चन्द्रोनाके गुरुज्ञानज्ञातिसहमानि ॥ ६ ॥

भाषाटीका—चन्द्रमाको सूर्यमेंसे हीन करनेसे गुरु, ज्ञान, ज्ञाति, सहम होते हैं ॥ ६ ॥

पुण्योनेज्ये यशोदेहसैन्यघातम् ॥ ७ ॥

भाषाटीका—गुरुमेंसे पुण्यसहमको हीन करनेसे यश, देह, सैन्य, घात, सहम होते हैं ॥ ७ ॥

पुण्योनज्ञाने शुक्रान्विते मित्रम् ॥ ८ ॥

भाषाटीका—पुण्यसहमको ज्ञानसहममेंसे हीन करके शुक्र मिलानेसे मित्र सहम होवे ॥ ८ ॥

कुजोनपुण्ये माहात्म्यधैर्यशौर्यम् ॥ ९ ॥

भाषाटीका—पुण्यसहममेंसे मंगलको हीन करनेसे माहात्म्य धैर्य शौर्य सहम होते हैं ॥ ९ ॥

शुक्रोनमन्दे इच्छा ॥ १० ॥

भाषाटीका—शुक्रको शनिमेंसे हीन करनेसे इच्छासहम होवे ॥ १० ॥

लग्नेशोनारे सामर्थ्यं चेदंगेशो भौमस्तदा जीवाच्छोधनीयः ॥ ११ ॥

भाषाटीका—लग्नके स्वामीको भौममेंसे हीन करनेसे सामर्थ्य सहम होवे यदि लग्नेश्वर भौमही होवे तो गुरुमेंसे लग्नेश्वरको हीन करना ॥ ११ ॥

ग्रहोपरिग्रहाणां दृष्टिचक्रम् ।

र	सं	मं	बु	गु	शु	म	
०	०	०	०	०	०	०	
०	२६	४१	०	१	४	११	र.
०	५९	१६	०	२	५	३१	
०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	०	९	१२	०	चं.
०	०	०	३६	२७	३०	०	
०	०	०	०	०	०	०	
०	४५	०	०	५	८	०	मं.
०	४४	०	०	४३	४६	०	
०	०	०	०	०	०	०	
३०	०	११	०	१७	०	४	बु.
३८	०	५४	०	२२	०	१०	
०	०	०	०	०	०	०	
२७	११	१८	१८	०	०	०	गु.
५७	२७	३५	५९	०	०	०	
०	०	०	०	०	०	०	
०	०	०	१३	३५	०	१४	शु.
०	०	०	६	५१	०	५३	
०	०	०	०	०	०	०	
६	१०	१३	२१	१८	२२	०	म.
५९	१४	४८	४४	४	४०	०	

उदाहरण ।

दृश्य सूर्य १० । १६ । ५३ ।
 ३९ मंसे पश्य चन्द्र । १० । ० ।
 २२ । ५६ को हीन किया शेष
 ० । १६ । ३० । ४३ बचे
 इसके राशी विना अंशादिक १६ ।
 ३० । ४३ को द्विगुण किये ३३ ।
 १ । २६ हुवे इनको ६० साठमेंसे
 सोधे २६ । ५९ कलादिक सूर्यपर
 चन्द्रको दृष्टि हुई इसीतरह क्रमसे
 सर्व ग्रहोंपर ग्रहोंकी दृष्टि जानना—
 और भावपर दृष्टि करना हो तो
 भावदृश्यग्रह पश्य समझके दृष्टि
 करना भावोपरि ग्रहोंकी दृष्टि होवे।

इति दृष्टिसापनाध्यायमनुर्थः

अथ सहमाध्यायः ।

सर्वत्रसहमसाधने शुद्ध्याश्रयतः शोध्यहीने

क्षेपकयुक्ते सहमसिद्धिः ॥ १ ॥

भाषाटीका—सर्व सहमसाधनेमें शुद्ध्याश्रयमें शोध्यको हीन करकेक्षेपक युक्त करना सहमसिद्ध होवे ॥ १ ॥

शोध्यभादेरारभ्य शुद्ध्याश्रयभादितोर्वाक्

क्षेपाभावे सिद्धसहमसंसेकं कार्यम् ॥ २ ॥

भाषाटीका—शोध्यकी राशी अंगको आदि ले शुद्ध्याश्रयकी राशी अंगके

१ निममेंसे हीन करना १ हाहाय शुद्ध्याश्रय और निमको हीन करनेका करावे यह शोध्य

मन्दोनेज्ये ज्ञान्विते शास्त्रम् ॥ २१ ॥

भाषाटीका—शनिको हीन करना गुरुमेंसे बुधमिलाना शास्त्रसहम होवे ॥ २१ ॥

सदा चन्द्रोन्ने बंधुः ॥ २२ ॥

भाषाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदाही चन्द्रको हीन करना बुधमेंसे बंधुसहम होवे ॥ २२ ॥

ज्ञोनेन्दौ पराश्रयः ॥ २३ ॥

भाषाटीका—बुधको हीन करना चन्द्रमेंसे पराश्रय सहम होवे ॥ २३ ॥

सदा चन्द्रोनाष्टमे मन्दाश्विते मृतिः ॥ २४ ॥

भाषाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदाही चन्द्रको हीन करना अष्टम भावमेंसे शनि युक्त करना मृत्यु सहम होवे ॥ २४ ॥

सदा धर्मज्ञानधर्म धनेज्ञानधने लाभेशोनलभे देशान्तरधनलाभाः ॥ २५ ॥

भाषाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदाही नवम भावके स्वामीको हीन करना नवम भावमेंसे धन भावके स्वामीको हीन करना धनभावमेंसे लाभभावके स्वामीको हीन करना लाभभावमेंसे देशान्तर १ धन २ लाभ ३ सहम होवे ॥ २५ ॥

सदा सूर्योन्नभृगौ पराङ्गना ॥ २६ ॥

भाषाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदाही सूर्यको हीन करना शुक्रमेंसे पराङ्गना (परस्त्री) सहम होवे ॥ २६ ॥

मन्दोनेन्दौ दास्यम् ॥ २७ ॥

भाषाटीका—शनिको हीन करना चन्द्रमेंसे दास्य सहम होवे ॥ २७ ॥

सदा बुधोनचन्द्रे वाणिज्यम् ॥ २८ ॥

भाषाटीका—सदा (दिनरात्रमें) बुधको हीन करना चन्द्रमेंसे वाणिज्य सहम होवे ॥ २८ ॥

दिवाकौनमन्दे सूर्यभययोगे रात्रौ चन्द्रोन्नमन्दे चन्द्रसंज्ञयोगे कार्यसिद्धिः ॥ २९ ॥

भाषाटीका—दिनका इष्ट हो तो सूर्यको हीन करना शनिमेंसे और उसमें सूर्यकी राशीका स्वामी मिलाना रात्रिसमयका इष्ट हो तो चन्द्रको हीन करना शनिमेंसे और उसमें चन्द्रकी राशीका स्वामी मिलाना कार्यसिद्धि सहम होवे ॥ २९ ॥

१ जिस राशिमें स्थित होवे उस राशीका स्वामी ।

शश्वच्चन्द्रोनजीवशुक्रयोः पुत्रौ ॥ ४० ॥

भापाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदा चंद्रको हीन करना गुरु और शुक्रमेंसे पुत्र पुत्री सहम होवे अर्थात् गुरुमेंसे चंद्रको हीन करे तो पुत्रसहम और शुक्रमेंसे चंद्रको घटावे तो पुत्रीसहम होवे ॥ ४० ॥

दिनेकौनस्वोच्चै रात्रौ चन्द्रोनस्वोच्चै मंडलेशः ॥ ४१ ॥

भापाटीका—दिनका इष्ट हो तो सूर्यको हीन करना अपने उच्च (०रा० १० अं०) मेंसे रात्रिसमयका इष्ट हो तो चंद्रको हीन करना अपने उच्च (१रा० ३अं०) मेंसे मंडलेशसहम होवे ॥ ४१ ॥

मन्दोनसार्द्धत्रिभे जलपथः ॥ ४२ ॥

भापाटीका—शनीको हीन करना साठे तीन राशी (३ राशी १५ अंश) मेंसे जलपथसहम होवे ॥ ४२ ॥

मन्दोनपुण्ये बन्धनम् ॥ ४३ ॥

भापाटीका—शनीको हीन करना पुण्यसहममेंसे बंधन सहम होवे ॥ ४३ ॥

अकौनपुण्ये लाभान्वितेश्वः ॥ ४४ ॥

भापाटीका—सूर्यको हीन करना पुण्यसहममेंसे और उत्तमें लाभ ११ मा जाव मिलाना अश्वसहम होवे ॥ ४४ ॥

सदा जीवोनेन्दो गजः ॥ ४५ ॥

भापाटीका—सदा (दिनका इष्ट हो वा रात्रिका) गुरुको हीन करना चन्द्रमेंसे गजसहम होवे ॥ ४५ ॥

रिपुसहमोनात्ये पशुः ॥ ४६ ॥

भापाटीका—शत्रुसहमको हीन करना १२ वारामें जावमेंसे पशुसहम होवे ॥ ४६ ॥

शश्वत्कोणोनाहारयोर्व्यसनकृपी ॥ ४७ ॥

भापाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदा शनिको लग्न और मंगलमेंसे हीन करनेमें व्यसन और रुषि सहम होवे (लग्नमेंसे शनि हीन करनेमें व्यसन और मंगलमेंसे शनिहीन करनेमेंसे रुषि सहम होवे) ॥ ४७ ॥

सदा पुण्योनार्कजे मन्दयुते बन्धमोक्षः ॥ ४८ ॥

भापाटीका—सदा (दिनरात्रिमें) पुण्य सहमको हीन करना शनिमेंसे और उत्तमें शनियुक्त करना बन्ध मोक्ष सहम होवे ॥ ४८ ॥

कोणोनशुक्रे विवाहभार्ये ॥ ३० ॥ .

भापाटीका—शनिको हीन करना शुक्रमेंसे विवाह और भार्या (स्त्री) सहम होवे ॥ ३० ॥

ज्ञोनेज्य आधानम् ॥ ३१ ॥

भापाटीका—बुधको हीन करना गुरुमेंसे आधान (गर्भ) सहम होवे ॥ ३१ ॥

सदा चन्द्रोमन्दे पष्टान्विते सन्तापः ॥ ३२ ॥

भापाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रीका सदा चंद्रको हीन करना शनिमेंसे और उसमें ६ छद्दा भाव मिलाना संताप सहम होवे ॥ ३२ ॥

सदा भौमोनसिते श्रद्धा ॥ ३३ ॥

भापाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदा भौमको हीन करना शुक्रमेंसे अद्धा सहम होवे ॥ ३३ ॥

सदा पुण्योनज्ञाने प्रीतिः ॥ ३४ ॥

भापाटीका—सदा दिनका इष्ट हो वा रात्रीका पुण्य सहमको हीन करना ज्ञान सहममेंसे प्रीति सहम होवे ॥ ३४ ॥

मन्दोनारे ज्ञान्विते जाड्यम् ॥ ३५ ॥

भापाटीका—शनीको हीन करना मंगलमेंसे और उसमें बुधयुक्त करना जाड्यसहम होवे ॥ ३५ ॥

शश्वज्ज्ञोनारे व्यापारः ॥ ३६ ॥

भापाटीका—सदा (दिनरात्रिके इष्टमें) बुधको हीन करना भौममेंसे व्यापारसहम होवे ॥ ३६ ॥

चन्द्रोनार्कजे जलपातः ॥ ३७ ॥

भापाटीका—चंद्रको हीन करना शनिमेंसे जलपात सहम होवे ॥ ३७ ॥

अकमोनभौमे शत्रुः ॥ ३८ ॥

भापाटीका—शनिको हीन करना भौममेंसे शत्रु सहम होवे ॥ ३८ ॥

बुधोनपुण्ये ज्ञान्विते दारिद्र्यम् ॥ ३९ ॥

भापाटीका—बुधको निकालना पुण्य सहममेंसे और उसमें बुध युक्त करना दारिद्र्य सहम होवे ॥ ३९ ॥

प्रथमं जन्मकालिकं सन्नवलवलं जानीयात् ॥ ५९ ॥

भापाटीका—प्रथम जन्मसमयमें सहस्रोंका बल निर्बल जानना (जन्मसमयमें सर्व सहम करवा नंतर जन्मकुंडलीमें देखना जो सहम अपने स्वामीसे लग्नेश्वरसे और शुभग्रहसे युक्त होवे वा दृष्ट होवे ६।८।१२गा आदि दृष्ट स्थानके शिवाय शुभस्थानमें स्थित होवे वह बलवान् जानना और इससे विपरीत होवे वह निर्बल जानना) ५९

तत्र यानि वलीयासि तेषामेव संभवः ॥ ६० ॥

भापाटीका—जन्मसमयमें जो जो सहम बलवान् होवे उन्हीं सहस्रोंका संभव जानना ॥ ६० ॥

प्रतिवर्षं सम्भवतापन्नान्येव कार्याणि नेतराणि नैष्कल्यात् ॥ ६१ ॥

भापाटीका—प्रतिवर्ष (हरवर्ष) जिन जिन सहमका जन्मसमयमें सम्भव आया हो वेही सहम करना जिनका संभव नहीं है वे शेष सहम निष्कलदाता हैं इसलिये नहीं करना ॥ ६१ ॥

प्रश्ने पृच्छकेष्टकार्यसहमं कार्यम् ॥ ६२ ॥

भापाटीका—प्रश्नसमयमें पूछनेवालेका जो अतीष्टकार्य हो वह सहम करना ६२ इति सद्माध्यायः पंचमः ६ ।

उदाहरण ।

यहां दिनमें वर्षप्रवेश हुआ है इस कारण सूत्रमें कहे हुये शोध्य सूर्य १० । १६ । ३९ । ३९ को शुद्धचाश्रय चंद्र १० । ० । २२ । ५६ मेंसे घटाया ११११३।२९।१७ शेष बचे इसमें क्षेपक नहीं कहा है इसलिये लग्न १११२। २६ । ३५ युक्त किया ० । २५ । ५५ । ५२ ये पुण्य सहम सिद्ध हुआ शोध्य सूर्यकी राशी १० अंश १६ को आदिसे शुद्धचाश्रय चंद्रकी राशी १० अंश ० पर्यंत गिननेसे क्षेपक (लग्न) की राशी १ वृत्त बाधमें आगई है इसलिये सिद्ध सहमकी राशियों १ एक युक्त नहीं किया. इसी प्रकार शेष महम जानना.

अथ कतिचित्सहमाः									
पुण्य	सूर्य	शुद्ध	चन्द्र	राश	धन	दान	उत्त	रोग	जीवि
०	३	९	११	०	४	५	४	४	३
२५	३८	३०	१	५	१८	३०	१०	३४	३
५५	५०	१८	०	३०	४५	५०	३	३०	३४
५२	१८	४६	३४	५५	१४	४०	१३	१४	३९

इति श्रीन्यासिर्विद्वत्पद्मसहादेवराजनाथपरिवारात्पद्मनाथनिरुपेणामुत्तमीनिकाशितर-
निनायां सोदाहरणभाष्यात्पापार्ण सहमभाषनात्पापः पंचमः ॥ ५ ॥

सदेज्योनपुण्ये सारे दुःखम् ॥ ४९ ॥

भापाटीका—सदा (दिनरात्रिके इष्टमें) गुरुको हीन करना पुण्यसहममेंसे शौम मिलाना दुःख सहम होवे ॥ ४९ ॥

कुजोनमन्दे उष्टः ॥ ५० ॥

भापाटीका—मंगलको निकालना शनिमेंसे उष्ट सहम होवे ॥ ५० ॥

मन्दोनाके पितृव्यः ॥ ५१ ॥

भापाटीका—शनिको हीन करना सूर्यमेंसे पितृव्यसहम होवे ॥ ५१ ॥

पष्टेशोनपष्टे सान्त्ये आखेटः ॥ ५२ ॥

भापाटीका—छठे भावके स्वामीको छठेभावमेंसे हीन करके चारमा भाव मिलानेसे आखेट (शिकार) सहम होवे ॥ ५२ ॥

ज्ञोनेन्दौ भृत्यः ॥ ५३ ॥

भापाटीका—बुधको चंद्रमेंसे हीन करनेसे भृत्य सहम होवे ॥ ५३ ॥

अर्कोनेज्ये बुद्धिः ॥ ५४ ॥

भापाटीका—सूर्यको गुरुमेंसे हीन करनेसे बुद्धिसहम होवे ॥ ५४ ॥

सदा तुर्यशोनलग्ने निधिः ॥ ५५ ॥

भापाटीका—दिनका इष्ट हो वा रात्रिका सदा चतुर्थ भावके स्वामीको लग्नमेंसे हीन करनेसे निधि सहम होवे ॥ ५५ ॥

सदा शुक्रोनकोणे ऋणम् ॥ ५६ ॥

भापाटीका—सदा दिनरात्रिके इष्टमें, शुकको शनीमेंसे हीन करनेसे ऋण सहम होवे ॥ ५६ ॥

सदा बुधोनेन्दौ सत्यम् ॥ ५७ ॥

भापाटीका—सदा(दिनरात्रिके)बुधको चंद्रमेंसे हीन करनेसे सत्यसहम होवे ५७

स्वेशेन शुभेन वाऽन्देशेन वा युतं दृष्टं वा सहमं

श्वेषापाके वृद्धिदमन्यथा विपरीतम् ॥ ५८ ॥

भापाटीका—अपने स्वामीसे अथवा शुभग्रहसे वा वर्षेश्वरसे युक्त होवे वा दृष्ट होवे जो सहम वह अपने स्वामीकी दशामें फलवृद्धि करे और विपरीत होवे तो विपरीत फलकी वृद्धि करे अर्थात् अपने स्वामीसे शुभग्रहसे वा वर्षेश्वरसे युक्त वा दृष्ट नहीं होवे वह विपरीत(उलटा)फलकी वृद्धि अपने स्वामीकी दशामें करे ५८

प्रथमं जन्मकालिकं सद्बलबलं जानीयात् ॥ ६९ ॥

भापाटीका—प्रथम जन्मसमयमें सहमोंका बल निर्बल जानना (जन्मसमयमें सर्व सहम करना नंतर जन्मकुंडलिमें देखना जो सहम अपने स्वामीसे लग्नेश्वरसे और शुभग्रहसे युक्त होवे वा दृष्ट होवे ६।८।१२मा आदि दृष्ट स्थानके शिवाय शुभस्थानमें स्थित होवे वह बलवान् जानना और इससे विपरीत होवे वह निर्बल जानना) ५९

तत्र यानि बलीयांसि तेषामेव संभवः ॥ ६० ॥

भापाटीका—जन्मसमयमें जो जो सहम बलवान् होवे उन्हीं सहमोंका संभव जानना ॥ ६० ॥

प्रतिवर्षं सम्भवापन्नान्येव कार्याणि नेतराणि नैष्फल्यात् ॥ ६१ ॥

भापाटीका—प्रतिवर्ष (हरवर्ष) जिन जिन सहमका जन्मसमयमें सम्भव आया हो वेही सहम करना जिनका संभव नहीं है वे शेष सहम निष्फलदाता हैं इसलिये नहीं करना ॥ ६१ ॥

प्रश्ने पूच्छकेष्टकार्यसहमं कार्यम् ॥ ६२ ॥

भापाटीका—प्रश्नसमयमें पूछनेवालेका जो अभीष्टकार्य हो वह सहम करना ६२ इति सद्भाग्यायः पंचमः ५ ।

उदाहरण ।

यहां दिनमें वर्षप्रवेश हुआ है इस कारण सूत्रमें कहे हुवे शोध्य सूर्य १० । ३६ । ३९ । ३९ को शुद्धचाश्रय चंद्र १० । ० । २२ । ५६ मेंसे घटाया ११।१३।२९।१७ शेष बचे इसमें क्षेपक नहीं कहा है इसलिये लग्न १।१२। २६ । ३५ युक्त किया ० । २५ । ५५ । ५२ ये पुण्य सहम सिद्ध हुआ शोध्य सूर्यकी राशी १० अंश १६ को आदिले शुद्धचाश्रय चंद्रकी राशी १० अंश ० पर्यंत गिननेसे क्षेपक (लग्न) की राशी १ वृषभ बीचमें आ गई है इसलिये सिद्ध सहमकी राशीमें १ एक युक्त नहीं किया. इसी प्रकार शेष सहम जानना.

अथ कतिचित्सहमाः

पुण्य	शुभ	रक्षा	पुत्र	पारम्य	धन	स्वामि	गुरु	रोग	जीवि
०	२	५	११	०	५	५	४	४	३
२५	३८	२७	१	५	१८	३०	१०	३५	३
५५	५७	१८	०	२०	४५	५०	३	२०	३५
५२	१८	४६	३५	५५	१४	४०	१०	१४	३९

इति श्रीन्योतिर्विद्वत्श्रीमन्महादेववृत्तवर्षा मदीपकान्यनामिन्द्रप्रथितन्मूर्ध्नीनिवासविर-
निनायां सोदाहरणभाषाव्याख्यायां सहमसाधनाध्यायः पंचमः ॥ ५ ॥

अथ सप्तमसारणीकोष्टकाः															
४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	सख्या
अथ	गग	पु	उपश	रुषि	भव	गुःस	वह	निशु	माके	गुःस	रुषि	निधि	गग	सग	सप्तमसप्त
रु.	गु.	उपश	रु.	रु.	गुःस	गु.	मं	रु.	रु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.
गुःस	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.
गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.
गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.
गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.	गु.

अथाब्देशनिर्णयः ।

दिनेर्कशक्रार्किसितेज्यचन्द्रज्ञारार्कभौमेज्यचन्द्रा रात्रौ ॥ जीवेन्दु-
ज्ञारार्कसितार्केशुक्रमन्दारेज्यचन्द्रा मेपादित्रिराशिपाः ॥ १ ॥

अथ वर्षेश्वरका निर्णय कहते हैं ।

आपाटीका-दिनमें सूर्य, शुक्र, शनि, शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध, मंगल, शनि, मंगल, गुरु, चंद्र, रात्रिमें, गुरु, चंद्र, बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, चंद्र, मेपराशोको आदिले क्रमसे त्रिराशिपति जानना ॥ १ ॥

अथ त्रिराशिपतिचक्रम्.										
मि.	रु.	मि.	रु.	मि.	रु.	मि.	रु.	मि.	रु.	मि.
०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
रु.	गु.	शु.	मं.	रु.	गु.	शु.	मं.	रु.	गु.	शु.
गु.	शु.	मं.	रु.	गु.	शु.	मं.	रु.	गु.	शु.	मं.

जन्माक्षेशो वर्षाक्षेशस्तत्रिराशिपो मुन्येशो दिनेर्कभेशो त्रिशिन्दु-
भेशश्चेति पञ्चाधिकारिणः ॥ २ ॥

भाषाटीका-जन्मलग्नका स्वामी १ वर्षलग्नका स्वामी २ वर्षलग्नका त्रिराशिपति ३ मुंयाका स्वामी ४ दिनमें सूर्यकी राशीका स्वामी रात्रिमें चन्द्रकी राशीका स्वामी ५ ये पांचही अधिकारी जानना ॥ २ ॥

एषां बलाधिकोऽङ्गद्वया वर्षेशः ॥ ३ ॥

१ वर्षलग्न जिस राशीका हो उसका दिनमें वर्षभवेश हो तो दिनका रात्रिमें राशीका त्रिराशि पति देसना ।

भापाटीका—इन पंचाधिकारियोंमें जो ग्रह अधिक बलवान् होके वर्षलग्नको देखता हो वह वर्षेश्वर होता है ॥ ३ ॥

बलसाम्ये तु दृष्ट्याधिकः ॥ ४ ॥

भापाटीका—अनेक ग्रहका बल समान (बरोबर) हो तो जिसकी लग्नपर दृष्टि अधिक होवे वही वर्षेश्वर होगा ॥ ४ ॥

उभयसाम्येऽधिऋधिकारी ॥ ५ ॥

भापाटीका—अनेक ग्रहोंका बल और लग्नपर दृष्टि दोनों समान (बरोबर) होवे तो जिस ग्रहका अधिकार जादा आया हो वह वर्षेश्वर होगा ॥ ५ ॥

त्रितयसाम्ये मुन्येशः ॥ ६ ॥

भापाटीका—बल दृष्टि अधिकार यह तीनों समान हो तो मुन्येशही वर्षेश्वर होगा ६

पञ्चानामपि मध्ये कोपि नाङ्गं पश्येत्तदा मुन्येश्वरवर्षलग्नेशौ

यश्चोक्ताधिकार्यन्तःपाती तदितरोपि जनुस्समये

वर्षागराशिद्रष्टा भवेत्तदैतेषां योऽधिकवः स वर्षेशः ॥ ७ ॥

भापाटीका—पांचों अधिकारियोंमेंसे कोईभी वर्षलग्नको नहीं देखते होवे तो मुन्येश वर्षलग्नेश और दोनोंसे अन्यग्रह जो वर्षमें अधिकारी होकर जन्मकुण्डलीमें वर्षलग्नकी राशीको देखता हो तो इन तीनोंमेंसे जो अधिकबल हो वही वर्षेश्वर होगा ॥ ७ ॥

त्रयाणां बलसाम्ये मुन्येशः ॥ ८ ॥

भापाटीका—तीनों अधिकारियोंका बल समान (बरोबर) हो तो मुन्येशही वर्षेश्वर होगा ॥ ८ ॥

उत्तरीत्या चन्द्रस्याब्दपत्वप्राप्तौ तदित्यशालिनोऽब्दपत्वमन्यथा तद्रे-
शस्येत्येके ॥ ९ ॥

भापाटीका—उत्तरीतिसे चन्द्रको वर्षशत्व प्राप्त हो तो (चंद्र वर्षेश्वर होता हो तो) चन्द्रसे जो ग्रह इत्यशाल करता हो वही वर्षेश्वर होगा और कोई ग्रह इत्यशाल नहीं करता हो तो चन्द्रकी राशीका स्वामी वर्षेश्वर होगा यह कितनेके आचार्योंका मत है ॥ ९ ॥

वर्षागेशो राजा समयेशः सेनापतिर्मुन्धेशो मन्त्री जन्माङ्गेशः पुरेश-
स्त्रिराशिपो रससस्यधात्वधिप इत्येके ॥ १० ॥

भाषाटीका—वर्षलग्नेश राजा समयपति सेनाधिप मुन्धेश मन्त्री जन्मलग्नेश
पुराधिप त्रिराशिपति रस धान्य धातु इनका अधिपति होता है यह कितनेक
आचार्योंका मत है ॥ १० ॥

इत्यब्देशनिर्णयाध्यायः ६ ।

उदाहरण ।

इन पांचों अधिकारियोंमें शुक्र अधिक बली
है और वर्षलग्नको मित्रदृष्टिसे देखता है इस
लिये वर्षेश्वर शुक्र पूर्णबली हुआ—

इति श्रीज्योतिर्विद्धरश्रीमन्महादेवकृतवर्षदीपके तदं-
गजश्रीनिवासाशिरचितायां सोदाहरणभाषाव्याख्यायाम-
ब्देशनिर्णयाध्यायः ६ पष्ठः ॥

अथ दशाविचारः ।

सलग्नेतानां मध्ये यो न्यूनांशो भवेत्तस्यांशादयः प्रथमं लेख्याः ॥१॥

अब दशाविचार कहते हैं ।

भाषाटीका—लग्नसहित सूर्यादि सातही ग्रहोंमें जो ग्रह न्यून (अल्प)
अंशका होवे उसके अंशादि (अंश कला विकला) प्रथम लिखना ॥ १ ॥

ततस्तदधिकंशानामंशाद्याः क्रमशो लेख्याः ॥ २ ॥

भाषाटीका—फेर उस (अल्प अंशके) ग्रहसे अधिक अधिक अंशके
ग्रहोंके अंशादिक क्रमसे लिखना (अल्प अंशके ग्रहसे अधिक अंशके ग्रहके
अंशादिक लिखना तदनंतर उससे अधिक अंशके ग्रहके अंशादिक फेर उससे अ-
धिकके अंशादिक इस क्रमसे सबसे अधिक अंशके ग्रहके अंशपर्यंत लिखना) ॥ २ ॥

इमे हीनांशसंज्ञकाः ॥ ३ ॥

भाषाटीका—उक्तप्रकार लिखे हुये ग्रहोंके ये अंशादिक इनको हीनांश
संज्ञक जानना ॥ ३ ॥

द्वयोरंशादिसाम्ये बलाधिकस्य पूर्वा दशा ॥ ४ ॥

भाषाटीका—दो ग्रहोंके अंशादिक (अंश कला विकला) समान (बरोबर) हो तो उनमेंसे जो अधिक बलवान् होवे उसकी प्रथम दशा जानना (प्रथम उसके अंशादिक लिखना) ॥ ४ ॥

बलसाम्येऽल्पगतिकस्य ॥ ५ ॥

भाषाटीका—दो ग्रहोंका बल समान हो तो जो अल्पगती ग्रह होवे उसकी प्रथम दशा जानना ॥ ५ ॥

उदाहरण.

यहां लग्नसहित सूर्यादि ग्रहोंमें सर्वसे न्यून अंश चन्द्रके हैं अतएव चन्द्रके अंश ० कला २२ विकला ५६ पहले लिखे चन्द्रसे अधिक अंशका बुध है इसलिये चन्द्रके नंतर बुधके अंशादिक १।३५।८ लिखे एवं बुधसे अधिक भौम भौमसे अधिक अंशादि शनिके इस क्रमसे अधिक अधिक अंशके ग्रह क्रमसे सर्वाधिकंश ग्रहपर्यंत लिखे ये हीनांश हूयें—

हीनांशाः ।							
च.	म.	म.	श.	ल.	र.	म.	श.
०	१	७	९	१२	१६	१८	२५
२२	३५	३२	३४	२६	५३	५६	२
५६	८	३६	५२	३५	३९	५५	४८

पात्यकृतौ प्रथमखेटस्य यथास्थितांशाः ॥ ६ ॥

भाषाटीका—पात्यांश करनेके समय प्रथम ग्रहके (जो सर्व ग्रहोंमें अल्प अंशादिकका ग्रह हीनांशमें प्रथम लिखा है उसके) अंशादिक यथा स्थित (जो अंशादिक हो वेही) प्रथम लिखना ॥ ६ ॥

ततः प्रथमं द्वितीयाद्वितीयं च तृतीयादित्यादि

क्रमेण शोधयेत् ॥ ७ ॥ इमे पात्याः ॥ ८ ॥

भाषाटीका—तदनंतर प्रथम लिखे ग्रहके अंशादिकको दूसरे ग्रहके अंशादिकमेंसे दूसरेके अंशादिकको तीसरेमेंसे तीसरेके अंशादिकको चौथेमेंसे इस क्रमसे शोधते जाना ॥ ७ ॥ ये पात्यांश होवे ॥ ८ ॥

उदाहरण ।

हीनांशमें सबसे न्यून अंशका चंद्र प्रथम लिखा है उसके अंशादि प्रथम वेही ० । २२ । ५६ लिखे इनको आगे जो दूसरा ग्रह बुधके अंशादिक १ । ३५ । ८ है उसमेंसे हीन किये १ । १२ । १२ शेष बचे यह बुधके अंशादि हुवे तदनंतर बुधके अंशादिक १ । ३५ । ८ को तीसरे शौमके अंशादिक ७ । ३१ ३६ मेंसे घटाये ५ । ५६ । २८ शेष बचे ये मंगलके हुवे फेर शौमके अंशादि-कको चौथे शनिके अंशादिकमेंसे घटाये ऐसे क्रमसे घटानेसे ये पात्यांश हुवे- पात्यांशका ऐक्य सबसे अधिक अंशके ग्रहके अंशके समान आता है ।

पात्यांशः ।								
च.	शु.	मं.	शु.	ल.	र.	गु.	शु.	यो.
०	१	५	२	२	४	२	६	२७
२५	२२	५६	२३	३१	०७	३	५	२
५६	१२	०८	२३	३६	१	१६	५३	४८

वर्षदिनानि पात्यैक्येन भजेल्लब्धं दिनाद्यं ध्रुवम् ॥ ९ ॥

भाषाटीका—वर्षके दिनोंको (३६० को वा ३६५ । १५ । ३१ । ३० को) पात्यांशके ऐक्य (योग) का भाग देना लब्ध आवे वह दिनादिक ध्रुव जानना ॥ ९ ॥

उदाहरण ।

वर्षदिनादि ३६० । ० । ० के पात्यांशयोग २५ । २ । ४८ का भाग दिया परंतु भाज्य भाजक दोनों दिनादि कहे इसकारण इनको सर्वांशित किये भाज्य १२ ९६ ००० में भाजक पात्यांश योग ९०१६८ का भाग दिया लब्ध १४ दिन आये शेष ३३६४८ बचे इनको ६० साठ गुणे किये २०१८८८० हुवे इनमें ९०१६८ का भाग दिया लब्ध २२ घटी आई शेष ३५२०४ बचे इनको ६० साठ गुणे किये २११२२४० इनमें भाग ९०१६८ का दिया लब्ध २३ पल आई शेष ३८३७६ बचे इनको ६० साठ गुणे किये २३०२५६० हुवे इनमें ९०१६८ का भाग दिया लब्ध २५ विपल आई इस प्रकार पात्यैक्यका भाग देनेसे दिनादिक १४ । २२ । २३ । २५ ध्रुव आया—

ध्रुवेण स्वस्वपात्यांशा हता दिनाद्या दशाः ॥ १० ॥

भापाटीका—दिनादिक ध्रुवसे अपने अपने पात्यांशको गुणन करना सो दिनादिक दशा होवे ॥ १० ॥

उदाहरण ।

दिनादिक ध्रुव १४ । २२ । २३ । २५ । से चंद्रकी पात्यांश ०।२२।५६ को गुणन किये ५ । २९ । ३७ हुये ये दिनादिक चंद्रकी दशा हुई इसी प्रकार सब ग्रहोंके पात्यांशको गुणन करके लाये ये दिनादिक दशा आई इसका योग वर्षदिनके समान ३६० । ०० बरोबर आया इसलिये दशा शुद्ध समझना ।

दिनादिदशाःस्पष्टाः ।									
	च	बु	मं	शु	क	र	गु	शु	
	०	०	०	१	१	२	०	२	मास
	५	१७	२५	४	६	३	२९	२७	दिन
	०९	१७	२३	२०	१८	५८	३१	३८	घटी
	३७	५५	३३	५२	५८	३६	४४	५४	पल
	१९५६	१९५६	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	संवत्
	१०	१०	११	२	३	४	५	७	१०
	१६	२२	९	५	९	१५	१९	१९	१६
	५६	२३	४१	४	२५	४४	४३	१४	५३
	३०	१६	१	३४	२६	२४	०	४४	३८

यस्य दशामानं पात्यांशैक्येन भक्तं तल्लब्धदिनाद्येन स्वस्व-
पात्यांशा हताः पाकेज्ञतोऽन्तर्दशादिनाद्याः ॥ ११ ॥

भापाटीका—जिस ग्रहमें अंतर्दशा करना हो उसके दशामानमें (जितने दिन की दशा होवे उतने दिनकी संख्याको दशामान कहते हैं) पात्यांशके ऐक्यका भाग देना लब्ध आवे जो दिनादिक ध्रुव उससे अपने अपने पात्यांश गुणन करना दशाके स्वामीको आदिले (जिसमें अंतर्दशा करना हो उस ग्रहकी प्रथम दशा उसके आगे जो ग्रह हो उसकी दूसरी दशा इस रीतिसे, कमसे) दिनादिक अंतर्दशा होवे ॥ ११ ॥

१ मङ्गल रश्मि करनेके उदाहरणमें गोमूत्रिका गुणनकी रीति लिखी है उस रीतिसे ।

उदाहरण ।

यहां मंगलकी दशमें अंतर्दशा करना है—मंगलकी दशा ८५ दिन २३ घटी ३३ पलकी है यह दशाका मान है इसमें पात्यांशके ऐक्य २५।२।४८ का भाग दिया भाज्य भाजक सर्वांशित किये भाज्य ३०७४१३ में भाजक ९०१६८ का भाग देनेसे लब्ध दिनादिक ३।२४।३३ ध्रुव हुआ इससे प्रथम मंगलकी पात्यांशगुणन की २०।१५।१५ आये ये मंगलमें मंगलकी दिनादिक अंतर्दशा हुई इसी प्रकार फिर क्रमसे शनि लग्न रवि गुरु आदिकरके पात्यांश गुणेकिये भौममें अंतर्दशा हुई—

भौममध्येऽतर्दशा ।									
	म.	झ.	ल.	र.	गु.	शु.	ब.	पु.	
	२०	८	८	१५	७	५०	१	४	दिन
	१५	८	३६	१०	०	४७	१८	६	घटी
	१७	५१	५०	३०	१५	२६	११	८	पल
	१९५६	१९५६	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	सप्त
११	११	०	०	१	१	१	२	२	उत्पत्ति-
९	२९	८	१६	१	८	२९	०	५	पार्श्व
४१	५६	५	४१	५१	५३	४०	५८	६	
१	१८	९	५१	२९	४४	१०	२०	३०	

अथ मुग्धादशामाह ।

जन्मभसंख्यायां गताब्दान्योजयेत् द्र्यूना नवोद्धताः शेषे सूर्ये-
द्वारराह्विज्यमन्दज्ञकेतुशुक्राणामेकादिक्रमतो दशाद्याः ॥ १२ ॥

अथ मुग्धा दशा कहते हैं.

भाषाटीका—जन्मनक्षत्रकी संख्यामें गताब्दसंख्या मिलाना २ दो निकालना नवका भाग देना एक १ को आदि ले शेष बचे तो क्रमसे १ सूर्य २ चंद्र. ३ भौ-
म ४ राहु ५ गुरु ६ शनि ७ बुध ८ केतु ९ शुक्रकी आय दशा जानना. (एक बचे तो सूर्यकी २ बचे तो चंद्रकी ३ तीन बचे तो भौमकी इत्यादि क्रमसे आय दशा जानना) ॥ १२ ॥

धृतित्रिंशदेकविंशतिचतुःपञ्चाशदष्टचत्वारिंशद्व्यूनपष्टकेकपंचा-
शदेकविंशतिषष्टिसंख्यातानि सूर्यादीनां मुग्धादेशादेिनानि ॥ १३ ॥
भाषाटीका—धृति कहिये १८ त्रिंशत् क० ३० एकविंशति क० २१ चतुपञ्चा-
शत् क० ५४ अष्टचत्वारिंशत् क० ४८ व्यूनपष्टी क० ५७ एकपंचाशत् क० ५१ ए-
कविंशति क० २१ षष्टि क० ६० संख्यादिन सूर्यादिग्रहोंके मुग्धादशाके दिन जानना
अर्थात् (सूर्यके १८ चंद्रके ३० मंगलके २१ राहूके ५४ गुरुके ४८ शनीके
५७ बुधके ५१ केतुके २१ शुक्रके ६० दिन मुग्धा दशाके दिन जानना) ॥ १३ ॥

उदाहरण.

जन्मनक्षत्र चित्राकी संख्या १४ में मनाब्दसंख्या २८ युक्तकिये ४२ हुवे इनमेंसे
२२ हीन किये शेष ४ बचे इनमें ९ नवका भाग दिया शेष ४ बचे. एकको आ-
दि ले क्रमसे गिननेसे ४ चौथी राहुकी ५४ दिनकी आय दशा हुई. (राहु
दशामें वर्ष प्रवेश हुवा)

भगणोनज्मेन्दुलिप्ताः खखाष्टशेषिता आद्यदशा दिनहताःश्राभ्रे प्रा
प्तादिनादिभोग्यदशा ॥ १४ ॥

भाषाटीका—वारा १२ राशीमेंसे हीन किये हुवे जन्मके चंद्रकी कलाके
८०० आठमें का भाग देना शेष बचे कला उसको आय दशा (सूत्र १२ के अ-
नुसार आई हुई दशा) के दिनोंसे गुणन करना और ८०० आठसे का भाग
देना लब्ध फल ४ आवे वह दिनादिक भोग्यदशा जानना ॥ १४ ॥

दशा दशाहताःपष्ट्यधिकत्रिंशतेनाप्ता अन्तर्दशादिनाद्या
मुग्धायाम् ॥ १५ ॥

भाषाटीका—दशाके दिनको दशाके दिनसे गुणन करना तीनसे साठ ३६०
का भाग देना लब्ध आवे वह मुग्धादशामें दिनादिक अन्तर्दशा होवे ॥ १५ ॥

इति दशाध्यायः ।

उदाहरण.

जन्ममयका चंद्रस्पष्ट. ५ । २९ । १९ । ४९ । इसको वारा १२ राशी-

१ राशीको ३० तांशगुणी करके अंश मिलाना अंश हो ने अंशको साठगुणे करके कला
मिलानेसे कला होती है.

मसे हीन किया ६।०।४०।११ हुवे इसकी कला १०८४०।११ की इसमें ८०० आठसेका भाग दिया शेष ४४०।११ बचे इनको आद्य दशा राहुकी आई उसके दिन ५४ से गुणे किये, २३७६९।५४ हुवे इनमें ८०० आठसेका भाग दिया लब्ध २९ दिन आये शेष ५६९।५४ को ६० साठ गुणे किये ३४१ ९४ हुवे फिर ८०० का भाग दिया लब्ध घटी ४२ आई शेष ५९४ को फिर साठ ६० गुणे किये ३५६४० हुवे ८०० का भाग दिया लब्ध ४४ पल आई शेष ४४० को फिर ६० साठ गुणे किये २६४०० हुवे ८०० का भाग दिया लब्ध ३३ विपल आई ऐसे फलचार २९।४२।४४।३३। आये ये दिनादिक राहुकी स्पष्ट भोग्य दशा आई—

अथ सुग्धादशाचक्रम् ।										
	रा.भो.	गु.	श.	घ.	के.	शु.	र.	ध.	मं.	रा.भु.
मास	०	१	१	१	०	२	०	१	०	०
दिन	२९	१८	२७	२१	२१	०	१८	०	२१	२४
घटि.	४२	०	०	०	०	०	०	०	०	१५
पल.	४४	०	०	०	०	०	०	०	०	२७
विपल	३३	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१९५६	१९५६	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७	१९५७
१०	११	१	३	४	५	७	८	९	९	१०
१६	१६	४	१	२२	१२	१३	१	१	२२	१६
५३	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	३६	५३
३९	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	२३	३९
०	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	३३	०

इति श्रीज्योतिर्विद्वर श्रीमन्महादेव कृतवर्षदेवकारुण ताजिकग्रन्थे तस्सुश्रीनिवासाविर-
जितायां सोदाहरण भाषा व्याख्ययां दशासाधनाध्यायः ७ सप्तमः ।

अथ मासादिः ।

गतमाससंमितराशियुक्तजन्मार्कतुल्याकें मासप्रवेशः ॥ १ ॥

अथ मासादिसाधन द्दिसते हे ।

भापाटीका—गतमासकी संख्याके समान राशियुक्त किये हुवे जन्मसमयके

सूर्यके समान (बरोबर) सूर्य जिस दिन आवे उस दिन मासप्रवेश होवे ॥ १ ॥

गतदिनसम्मितांशामासार्के युतास्तत्सदृशेऽर्के दिनप्रवेशः ॥ २ ॥

भाषाटीका—गतदिनकी संख्याके समान (बरोबर) अंशमासके सूर्यमें युक्तकरनेसे जो सूर्य होवे उसके समान सूर्य जिस दिन आवे उस दिन दिनप्रवेश होवे (जिस मासमें जितनी संख्याका दिन प्रवेश करना होवे उसके गतदिनकी जो संख्या होवे उतनेही अंश उसमासके सूर्यमें मिलाना. उसके समान सूर्य जिस दिन आवे उस दिन दिनप्रवेश होगा) ॥ २ ॥

उदाहरण ।

जैसे दूसरा मासप्रवेश करना है इसके पिछाड़ी गत मास १ एक हुआ इस लिये जन्मके १० । १६ । ५३ । ३९ सूर्यकी राशीके अंकमें १ एक युक्त किया ११ । १६ । ५३ । ३९ यह २ द्वितीयमासप्रवेशका सूर्य हुआ ।

इस सूर्यके बरोबर सूर्यके दिन दूसरा मास प्रवेश होगा इसीप्रकार जितने गतमास होवे उतनीही राशी जन्मार्कमें मिलति जाना और १२ बारा ही मासके सूर्य लाना ।

दिनप्रवेश ।

दूसरे मासका ११ ग्यारहवां दिन प्रवेश करना है इग्यारादिन प्रवेशमें १० दस दिन गत हुवे हैं इस लिये १० दश अंश मासके ११ । १६ । ५३ । ३९ सूर्यमें मिलाये ११ । २६ । ५३ । ३९ यह दिन ११ के प्रवेशका सूर्य हुआ. इस सूर्यके समान सूर्य आवेगा उस दिन ११ ग्यारवां दिन प्रवेश होगा ॥

मासार्कासत्रपंचम्यर्कयोरंतरस्य कलाः कृत्वार्कभुक्तिभक्तासदिनादि पङ्क्तिवारादिमध्ये पङ्क्त्यर्काधिकेऽर्के युक्तेन्यथा हीने मासप्रवेश कालः ॥ ३ ॥

भाषाटीका—मासप्रवेशका सूर्य और उसके समीपकी पंक्ति (अवधी) सूर्य इन दोनोंके अंतरकी कला करना सूर्यकी गतीका (पंक्तिके सूर्यकी गतीका) भाग देना लब्ध आवे जो दिनघटी पलात्मक तीन फल उनको पंक्तिके वारादिक

१ अंशको ६० घाटगुणा करके कला मिलानेसे होती है ।

(वार इष्ट घटी पल) में पंक्ति (अवधी) के सूर्यसे मासप्रवेशका सूर्य अधिक हो तो युक्त करना और अवधीके सूर्यसे मासप्रवेशका सूर्य न्यून हो तो आयेहुवे दिनादि फलपंक्तिके वारादिकमेंसे हीन करना सो मासप्रवेशका वारादिका समय होवे ॥ ३ ॥

उदाहरण ।

द्वितीय मासप्रवेशका सूर्य ११ । १६ । ५३ । ३९ इसके समीपकी पंक्ति (अवधी) का सूर्य ११ । १४ । ५९ । ३० इनका अंतर किया १ । ५४ । ९ हुवे इसकी कला ११४ । ९ के अवधीके सूर्यकी गति ५९ । २३ का भाग दिया—भाज्यभाजक कलादिक है अतः इनको सर्वांगित किये. भाज्यपिंड ६८ ४९ भाजकपिंड ३५६३ हुवा—भाज्यमें भाजकका भाग दिया लब्ध १ दिन आया—शेष ३२८६ बचे इनको ६० साठ गुणे किये १९७१६० हुवे इनमें ३५६३ का भाग दिया लब्ध ५५ घटी आई शेष ११९५ को ६० साठ गुणे किये ७१७०० हुवे इनमें फिर ३५६३ का भाग दिया लब्ध २० पल आये ऐसे दिनघटी पलादिक फल १ । ५५ । ०० लब्ध आये इनको पंक्तीके सूर्यसे मास-प्रवेशका सूर्य अधिक है इसलिये अवधीके वार इष्टघटी पल ४ । २२ । १ में युक्त किये ६ । १७ । २१ हुवे ये २ मासप्रवेशका इष्टसमय हुवा—अर्थात् (पौर्णिमांत चैत्ररुण्य ३० अमावास्या शुक्रवारके दिन इष्टघटी १७ पल २१ से मास द्वितीय प्रवेश होगा) ऐसेही दिन प्रवेशका उदाहरण समझना—

एवं दिनप्रवेशकालः ॥ ४ ॥

भापाटीका—मासप्रवेशकालकी जो रीति कही है इसीप्रकार दिनप्रवेशकाल लाना—अर्थात् दिनप्रवेशका सूर्य और उसकी समीपकी पंक्तीका सूर्य इन दोनोंके अंतरकी कला करना पंक्तीके सूर्यकी गतीका भाग देके दिनादिक फल ३ लाना उनको पंक्तीके वारादिकमें पंक्तीके सूर्यसे दिनप्रवेशका सूर्य अधिक हो तो मिलाना न्यून हो तो हीन करना दिनप्रवेशकाल होवे ॥ ४ ॥

उभयत्र रूपैः खगा भावादयश्च कार्याः ॥ ५ ॥

भापाटीका—मासप्रवेशसमयमें और दिन प्रवेशसमयमें स्पष्टग्रहभाव, आदि शब्दसे चलित पंचवर्गी बल द्वादशवर्ग पदेशों सन्देशों आदिक करना ॥ ५ ॥

पात्यैक्येन मासदिनानि भजेच्छब्देन स्वस्वपात्यांशा
हता दिनाद्या मासदशाः ॥ ६ ॥

भापाटीका—पात्यांशके ऐक्यका मासके दिन ३० में भाग देना लब्ध आवे जो ध्रुव उत्तसे अपने अपने पात्यांश गुणे करना दिनादिक मासदशा होवे ॥ ६ ॥

मासप्रवेशक्षे सप्तयुतेऽङ्गहते एकादिशेषे आचंभो राजिशुके
शुनामाद्यादशा ॥ ७ ॥

भापाटीका—मासप्रवेश नक्षत्रकी (जित नक्षत्रमें मासप्रवेश होवे उसकी) संख्यामें सात मिलाना ९ नवका भाग देना ऐकको आदिले शेष बचे तो क्रमसे आ (सू) चं—(चंद्र) भौ (भौम) रा (राहु) जि—(गुरु) श (शनि) बु (बुध) के (केतु) शु (शुक्र) की आय (प्रथम) दशा जानना ॥ ७ ॥

मुग्धार्कभागमिता दिनाद्या मासदशाः ॥ ८ ॥

भापाटीका—मुग्धा दशाके १२ वारमें भागके समान दिनादिक मासदशा जानना—(मुग्धादशाके दिनमें १२ का भाग देनेसे जो दिनादिक आवे वह मास दशाके दिनादिक आवै—) ॥ ८ ॥

उदाहरण ।

जैसे सूर्यकी मुग्धादशाके दिन १८ हैं इसके १२ का भाग देनेसे लब्ध दिन १ घटा ३० आई यह मासदशामें सूर्यके दिन हुवे इसीप्रकार सर्वग्रहके समझना—

१ मासप्रवेशमें पदेशा—जन्मपति १ वर्षप्रदोषपति २ मासप्रदोषपति ३ मुग्धापति ४ त्रिराशिपति ५ समयपति ६

२ दिनप्रवेशमें सन्देशा करना—जन्मपति १ वर्षपति २ मासप्रदोषपति ३ दिनप्रदोषपति ४ मुग्धापति ५ त्रिराशिपति ६ समयपति ७

३ मासमें भी प्रथम वही रितिके अनुसार द्वांश पात्यांश करके ऐक्य करना.

दिनादिक मुग्धा मासदशा.									
र.	क.	म.	रा.	गु.	घ.	च.	के.	शु.	
१	२	१	४	४	४	४	१	५	
२०	३०	४५	२०	०	४५	४५	४५	०	

उदाहरण ।

जैसे द्वितीय मासप्रवेश उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रमें हुआ है इसकी संख्या २६ में ७ मिलाये ३३ हुये ९ नवका भाग दिया शेष ६ बचे १ एकको आदिले क्रमसे आंचं श्रीराजी आदी दशा गिनतेसे ६ छठी शनीदशामें मासप्रवेश हुआ यह आय (प्रथमदशा) हुई इसके आगे क्रमसे ग्रहोंकी मासदशा आई ।

मासदशा.									
ब.	शु.	के.	घ.	र.	क.	म.	रा.	गु.	
४	८	१	५	१	२	१	४	४	
४५	१५	२५	०	२०	३०	१५	२०	०	

दिनप्रवेशस्फष्टलग्नक्षत्रे सप्तयुतेऽहते एकादिशेषे
प्रागुक्तानामाद्या दिनदशा ॥ ९ ॥

भाषाटीका—दिनप्रवेशसमयके स्फष्टलग्न और नक्षत्रकी संख्यामें ७ सात मिलाना ९ नवका भाग देना एकको आदिले शेष बचे वहाँ प्रथम कहे हुये नाम (१ ब. २ मं. ३ रा. ४ गु. ५ श. ६ शु. ७ के. ८ शु. ९ की आय दिन दशा होवे) ॥ ९ ॥

मुग्धागभागमिता घट्यादयः ॥ १० ॥

भाषाटीका—मुग्धा दशाके दिनके ६ छठे भागके समान (बरोबर) घट्यादिक मुग्धा दिनदशा जानना—जैसे सूर्यकी दिन १८ की दशा इसके ६ का भाग दिया लब्ध ३ घटी आई ये सूर्यकी दिनदशा ऐसेही सर्व ग्रहकी जानना ॥ १० ॥

मुग्धा दिनदशा घट्यादि.									
र.	घ.	मं.	रा.	गु.	घ.	गु.	के.	गु.	
१	५	३	५	८	५	८	३	१०	घ.
०	०	३०	०	०	३०	३०	३०	०	घ.

प्रश्रांगस्य भं विना लिताः कृत्वा सतिथ्युद्धृता लब्धोभादि
मध्येऽङ्गस्युतासुंथार्थे स्पष्टं लग्नम् ॥ ११ ॥

भापाटीका—प्रश्नलग्नकी राशीविना अंशदिककी कला करना स्व(०)विथो(१५)
पेसे १५० देहेसेका भाग देना लब्ध राश्यादि फल(राशि—अंश कला—विकला)चार
आवे उसकी राशीके अंकमें प्रश्नलग्नकी राशीका अंक मिलाना मुग्धाके वास्ते
स्पष्ट लग्न होवे ॥ ११ ॥

प्रश्रांगात्तुर्येशो जन्मेशो ज्ञेयः ॥ १२ ॥

भापाटीका—प्रश्नलग्नसे चतुर्थराशीका स्वामी जन्मेश जानना—अर्थात् पंघाधिकारोंमें
जन्मलग्नपतिके स्थानमें प्रश्नलग्नसे चतुर्थराशीका स्वामी जो हो वह लिखना १२

प्रश्नपत्रतो वर्षकरणेऽद्यान्विशेषः ॥ १३ ॥

भापाटीका—प्रश्नपत्रपर वर्ष बनानेमें इतनाही विशेष जानना (और सर्व
रितिमें कुछ न्युनाधिक नहीं है) ॥ १३ ॥

पाराशरकुलोत्पन्नो महादेव उदुंबरः ॥

पाठकाल्यचणो रत्नललामपुटभेदने ॥ १ ॥

रेवाशंकरसंप्रतिःकृतयान्वर्षपदीपकम् ॥

व्यङ्गाद्दीन्दुमितेशाके कन्याकप्रथमोदने ॥ २ ॥

भापाटीका—रत्नलाल शहरमें पाठक पेसे, उपनामसे प्रसिद्ध पाराशर कुलमें
उत्पन्न (पाराशरगोत्र) उदुंबरज्ञानीय रेवाशंकरजीके पुत्र महादेव ज्योतिर्विदु
शालिवाहन १७९३ सतरासे तिरानोपके शकमें कन्यासंक्रांतिके प्रथमके प्रथम
दिनमें वर्षपदीपक करते हुवे ॥ १ ॥ २ ॥

इति मासाद्यध्यायः ८.

इति महादेवकृतवर्षदीपकं समाप्तम् ॥

आसीद्रत्नपुरेपराशरकुलोत्पन्नोद्विजोदुम्बरः
 ख्यातःपाठकनामतोगुणनिधिःश्रीनन्दरामाभिधः ॥
 तत्सूनुर्गणितागमज्ञतिलकःश्रीमोतिरामाह्वयो
 रेवाशङ्कर आगमेषु निपुणस्तस्मादभूद्ब्रह्मार्मिकः ॥ १ ॥
 तदात्मजउदारधीर्गणकमौलिचूडामणि
 रभूद्धरणमण्डले गुणनिधिर्महादेववित् ॥
 तदङ्गजनुपा त्विदं विवरणं सता प्रीतये
 सहस्यशुचिपक्षतौ कठजटोन्मितेऽगाच्छके ॥ २ ॥

इति श्रीज्योतिर्विद्वरभ्रीमन्महादेवकृतवर्षदीपकाख्यतान्त्रिकप्रथे तद्गमश्रीन्यासविरचिता
 खोदाहरणभाषाव्याख्या समाप्ता ॥

उच्चवलसारणीचक्रम् ।

वर्षा	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
रा.	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
१	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
२	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
३	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
४	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
५	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०

यह नीचेके अंतरिक राशि अंशके कोष्टकमें उच्चवल स्पष्ट जानना.

स्थिरचलचक्राणि ।

मंय. ०		वृषभ. १				मिथुन. २								
र	व	मं	शु	रा	र	व.	मं.	शु.	रा.	र.	व.	मं.	शु.	रा.
११०	१११	११२	११३	११४	११५	११६	११७	११८	११९	१२०	१२१	१२२	१२३	१२४
१२५	१२६	१२७	१२८	१२९	१३०	१३१	१३२	१३३	१३४	१३५	१३६	१३७	१३८	१३९
१४०	१४१	१४२	१४३	१४४	१४५	१४६	१४७	१४८	१४९	१५०	१५१	१५२	१५३	१५४
१६०	१६१	१६२	१६३	१६४	१६५	१६६	१६७	१६८	१६९	१७०	१७१	१७२	१७३	१७४
१८५	१८६	१८७	१८८	१८९	१९०	१९१	१९२	१९३	१९४	१९५	१९६	१९७	१९८	१९९
२१०	२११	२१२	२१३	२१४	२१५	२१६	२१७	२१८	२१९	२२०	२२१	२२२	२२३	२२४
२४०	२४१	२४२	२४३	२४४	२४५	२४६	२४७	२४८	२४९	२५०	२५१	२५२	२५३	२५४
२८०	२८१	२८२	२८३	२८४	२८५	२८६	२८७	२८८	२८९	२९०	२९१	२९२	२९३	२९४
३१०	३११	३१२	३१३	३१४	३१५	३१६	३१७	३१८	३१९	३२०	३२१	३२२	३२३	३२४
३४०	३४१	३४२	३४३	३४४	३४५	३४६	३४७	३४८	३४९	३५०	३५१	३५२	३५३	३५४
३८०	३८१	३८२	३८३	३८४	३८५	३८६	३८७	३८८	३८९	३९०	३९१	३९२	३९३	३९४
४१०	४११	४१२	४१३	४१४	४१५	४१६	४१७	४१८	४१९	४२०	४२१	४२२	४२३	४२४
४४०	४४१	४४२	४४३	४४४	४४५	४४६	४४७	४४८	४४९	४५०	४५१	४५२	४५३	४५४
४८०	४८१	४८२	४८३	४८४	४८५	४८६	४८७	४८८	४८९	४९०	४९१	४९२	४९३	४९४
५१०	५११	५१२	५१३	५१४	५१५	५१६	५१७	५१८	५१९	५२०	५२१	५२२	५२३	५२४
५४०	५४१	५४२	५४३	५४४	५४५	५४६	५४७	५४८	५४९	५५०	५५१	५५२	५५३	५५४
५८०	५८१	५८२	५८३	५८४	५८५	५८६	५८७	५८८	५८९	५९०	५९१	५९२	५९३	५९४
६१०	६११	६१२	६१३	६१४	६१५	६१६	६१७	६१८	६१९	६२०	६२१	६२२	६२३	६२४
६४०	६४१	६४२	६४३	६४४	६४५	६४६	६४७	६४८	६४९	६५०	६५१	६५२	६५३	६५४
६८०	६८१	६८२	६८३	६८४	६८५	६८६	६८७	६८८	६८९	६९०	६९१	६९२	६९३	६९४
७१०	७११	७१२	७१३	७१४	७१५	७१६	७१७	७१८	७१९	७२०	७२१	७२२	७२३	७२४
७४०	७४१	७४२	७४३	७४४	७४५	७४६	७४७	७४८	७४९	७५०	७५१	७५२	७५३	७५४
७८०	७८१	७८२	७८३	७८४	७८५	७८६	७८७	७८८	७८९	७९०	७९१	७९२	७९३	७९४
८१०	८११	८१२	८१३	८१४	८१५	८१६	८१७	८१८	८१९	८२०	८२१	८२२	८२३	८२४
८४०	८४१	८४२	८४३	८४४	८४५	८४६	८४७	८४८	८४९	८५०	८५१	८५२	८५३	८५४
८८०	८८१	८८२	८८३	८८४	८८५	८८६	८८७	८८८	८८९	८९०	८९१	८९२	८९३	८९४
९१०	९११	९१२	९१३	९१४	९१५	९१६	९१७	९१८	९१९	९२०	९२१	९२२	९२३	९२४
९४०	९४१	९४२	९४३	९४४	९४५	९४६	९४७	९४८	९४९	९५०	९५१	९५२	९५३	९५४
९८०	९८१	९८२	९८३	९८४	९८५	९८६	९८७	९८८	९८९	९९०	९९१	९९२	९९३	९९४
१०१०	१०११	१०१२	१०१३	१०१४	१०१५	१०१६	१०१७	१०१८	१०१९	१०२०	१०२१	१०२२	१०२३	१०२४

पत्रीमार्गप्रदीपिका शुद्धाशुद्धपत्र.



अशुद्ध.	शुद्ध.	पृ०	पं०
श्रीधरं	चाच्युते	१	१०
होवं	होवे	८	१५
साद्दश	साद्दश	१३	१४
१४ । ५३ । ५	५३ । ५	१४	१५
समशत्रु	सम, शत्रु	१७	१८
स्वामी	स्वामी	१८	१०
अंशोके	अंशोके	१९	६
भागका	भागको	१९	टिप्पण्यां
अानी	अपनी	१९	१९
सप्तमास	सप्तमांश	२०	३
भौमाद्रौ	भौमात्ग्लौ	४७	५
स्वायं	स्वाये	४७	१९
मवेरेवे	मवेरवे	४८	७
५	६	४९	१५
ठाय	ठाय	५०	५
प्रकीर्त्यते	प्रकीर्त्यते	५५	२
कलो	कला	५७	१२
व्यंशं	व्यंशं	५८	४
पर्यन्त	पर्यन्त	५८	२४
नवशोभं	नवांशोभं	५८	टिप्पण्यां
स्वामी	स्वामी	६१	२
कला १९० । १३	कला १९० १३	६१	६
भागदेके ३)	भा गदेके) ३।	६२	७
गुणी	गुणी	६२	२६

अशुद्ध.	शुद्ध	५०	५०
चंद्रकोहोवे	चंद्रकी होराहोवे	६६	४
दिय	दिया	६७	१७
उसक	उसका	७०	११
१७०२००	१७२००	७०	१३
सूधहै	सुधैहै	७१	१
मंतदशा	मंतदशा	७१	७
बुधैः	बुधैः	७१	७
हतेनाद्वाः	हतेताद्वा	८४	८
सनसठ	सनसठ	८५	८
रुंक्तः	रुंक्तो	८५	१४
पत्रीमार्ग	पत्रीमार्ग	८७	७
रुतेऽथ	रुतेयं	८७	१७
दोप	दोप	८९	५
श्व क्षम	श्वक्षम	८९	९
वर्षदीपक	वर्षदीपक	८९	१३
नमस्कार	नमस्कार	८९	१८
दयात्पूर्व	दयान्पूर्व	८९	२४
खाभेभासा	खाभेभासा	९०	१८
नवासांऽशा	नवासांऽशा	९४	१३
८००भोग	८००केभोग	९४	२४

६०	१९	६०	१९
नंबर १ ० ० ४	नंबर	नंबर १ ० ० ४	नंबर
२ ६०० १९० ५		२ ६०० १९० ५	
३ १८६० ५८९ ६		३ १८६० ५८९ ६	

९५ १५

६०	१९	६०	१९
नंबर १ ०		नंबर १ ०	
२ ६००		२ ६००	
३ २०५९		३ २०५९	


९५ १९

शुद्ध.	शुद्ध	पृ०	पृ०
सलवा	सजरा	९७	ग्रहचक्रे
स्वचराद्धेन	स्वचराद्धेन	९८	१
नाच	नीचे	९८	८
कोष्ठजं	कोष्ठजं	१०१	१
करना (उससे)	करनाउससे)	१०२	२
युक्तं	युक्त	२०२	५
कोष्ठकके अंतरकरे इष्टयुक्त कोष्ठकमेंसे अल्पकोष्ठककोहीन करे	कोष्ठकका अन्तर करना	१०२	६
न्यून	न्यून	१०३	१३
विंशोपकाः	विंशोपका	१०३	१६
मकरामंगल } कन्याकका }	मकरकामंगल कन्याका	१०८	५
द्वाद्वा	द्वाद्वा	१०९	४
सिताकीं	सिताकीं	१०९	१०
आशाक०	आशा	१०९	१४
घटेनं	घटेन	११०	१
द्रेष्काण अंशका } होताअंश }	द्रेष्काणअंशका होताअंश	११०	दृष्ट्यण्यां
नाच	नीच	११२	१९
राशयंक	राश्यादि	११२	२३
शत्रु	शत्रु	११३	८
मित्र	मित्र	१२१	१
त्रि क० ३०	त्रि क० ३	१२५	६
सादा	सोदा	१२६	२४

(४)

शुद्धाशुद्धपत्र ।

अशुद्ध	शुद्ध	५०	५०
देवता	देवता	१२७	टिप्पण्यां
शेष	स्वयं	१३४	२४
वर्षाप्र	वर्षाप्र०	१३५	२४
रात्रौ ॥ भीति	रात्रौर्जाति	१३७	२
दशाः	दशा	१४२	१
सूर्ये	सूर्ये	१४३	१०
रिगं	रिगं	१४४	१
साभिमाना	साभिमाना	१४४	१३



इति शुद्धाशुद्धपत्रम् ।